



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 2, 2019 (CHAITRA 12, 1940 SAKA)

PART II

Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and Republications from the Gazette of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख: 15 मार्च, 2019

24 फाल्गुन, 1940(शक)

अधिसूचना

संख्या 56/2019/रा0द0अनु0-III.— यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2018/रा0द0अनु0-III, तारीख 13 अप्रैल, 2018 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 13 अप्रैल, 2018 की, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2018/रा0द0अनु0-III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ग) सारणी III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के डाक-पते; और
- (घ) सारणी-IV में, मुक्त प्रतीक

जहां तक जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के लिए निर्वाचनों का सम्बन्ध है, यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1965 के नियम 5 और 10 के निबंधनों तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के निबंधनों के अधीन है, जिन्हें जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचनों के लिए लागू किया गया है, के अनुसार जारी समझी जाएगी।

सारणी-I
राष्ट्रीय दल

क्रम सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल ।
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	4, गुरुद्वारा रकाबगंज नई दिल्ली-110001.
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	6-ए, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हाँसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
5.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा	ए. के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्केट), नई दिल्ली-110001.
6.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
7.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	बंगला नं.-1, कैनिंग लेन, (रवि शंकर शुक्ला लेन), फिरोजशाहा रोड के पास, नई दिल्ली-110001.

सारणी-॥

राज्यीय दल

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं. 8-2-220/110/1/3, रोड नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
		2. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन0 टी0 आर0, भवन, रोड नं0-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 500033, (आन्ध्र प्रदेश) ।
		3. युवजन श्रमिक रायथु काँग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं. 8-2-269/एस/98, सागर सोसाईटी, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 34, आन्ध्र प्रदेश।
2	अरुणाचल प्रदेश	2. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश	मक्का	के. रिन्गु कॉम्प्लेक्स, जी- एकसटेंशन रोड, नहारलगुन-791110 अरुणाचल प्रदेश ।
3.	असम	1. ऑल इण्डिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	ताला और चाबी	नं. 3, फ्रेन्ड्स पथ, हातिगांव, गुवाहाटी-781038 (असम)
		2. असम गण परिषद्	हाथी	मुख्य कार्यालय: गोपीनाथ बोरदोलाई रोड, गुवाहाटी- 781001 (असम)
		3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	नांगोल	मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी.सी. पो. ऑ. कोकराझार, असम पिन-783370
4.	बिहार	1. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001.
		2. लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला	12, जनपथ, नई दिल्ली-110011
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी.हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
		4. राष्ट्रीय लोक समता	अभी आवंटित किया जाना शेष है।	मौजा- ढक्कनपुरा, मोहल्ला- मोहनपुर पुनाईचक, नियर हडताली मोड, बोरिंग कनाल रोड, पटना-1, बिहार।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	वर्ग में हल जोतता किसान	श्री बालाजी काम्प्लेक्स, गाँधी मैदान के पास, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001
6.	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	फ्लैट नं0.102, ब्लॉक-1, ड्युक्ल हेवेन, एस0टी0-इनटेज, पणजी-403001
		2. गोवा फॉरवर्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कॉबा, मडगांव, गोवा - 403601
7.	हरियाणा	इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	नं.80, सेक्टर - 9, चण्डीगढ़ - 160009
8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँग्रेस	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी रोड, जम्मू, (जम्मू व कश्मीर) । 2) नवाई सुबह कम्प्लेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
		2. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी	साईकिल	17, वी. पी. हाऊस रफी मार्ग नई दिल्ली-110001.
		3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	स्याही की दवात और कलम	2-इम्पोरियन लेन, रेसीडेन्सी रोड, श्रीनगर ।
9.	झारखण्ड	1. आजसु पार्टी	केला	एच-59, हरमु हाउसिंग कॉलनी, पी.एस. - अरगोड़ा, पो०-हरमु, राँची, झारखण्ड-834002
		2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान	बैरियातू रोड, राँची-834008 (झारखण्ड) ।
		3. झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक)	कंघा	अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखण्ड ।
		4. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.
10.	कर्नाटक	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
11.	केरल	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
		2. केरल काँग्रेस (एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर स्टेशन के पास, कन्नियम, (केरल) ।
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम मुस्लिम लीग	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंजिल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु ।
		4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा एवं बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सारनी), कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल।
12.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम. बी. राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई-400028, महाराष्ट्र ।
		2. शिवसेना	तीर-कमान	शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र) ।
13.	मणिपुर	1. नागा पीपुल्स फ्रन्ट	मुर्गा	पोस्ट बॉक नं. 565, कोहिमा-797001, नागालैण्ड ।
		2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलाइन्स	मुकुट	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर ।
		3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग.
14.	मेघालय	1. यूनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	ड्रम	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय) ।
		2. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर	केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग-739004 मेघालय ।
		3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग.

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
		4. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मोमबत्तियाँ	मुख्यालय-गुवाहाटी, एच.ओ. उदालगिरी, जिला-दारंग बोडोलेण्ड (असम) ।
15.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फ्रंट	सितारा	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम) ।
		2. मिजोरम पीपुल्स कॉफ्रेस	बिजली का बल्ब	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम) ।
		3. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजाल-796001 (मिजोरम) ।
16.	नागालैंड	1. नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा-797001 (नागालैंड) ।
		2. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	ग्लोब	मकान नं 155(1), वार्ड नं.4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड - 797103
		3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग.
17.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
18	ओड़िशा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोडूम गेट, भुवनेश्वर-751009 (उड़ीसा) ।
19	पुडुचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ	275, अब्बाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टे, चेन्नई-600014, (तमिलनाडु)।
		2. ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस	जग	नं. 51, जे. जे. कॉम्पलेक्स, 100 फीट रोड, ईल्लपिल्लईचावड़ी, नेल्लीथोप पोस्ट, पुडुचेरी-605005 ।
		3. द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम', 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
		4.पट्टालि मक्कल काँची	आम	63, नाट्टू मुथू माइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु ।
20.	पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग ने. 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़-160028
		2.आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
21.	सिक्किम	1. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	अपर देवराही, गंगटोक पूर्व सिक्किम ।
		2. सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा	'टेबल लेंप	कंवो ग्राउंड, पो0ऑ0-टैडोंग, पूर्व सिक्किम, सिक्किम-737102
22.	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ	275, आच्चाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु) ।
		2.द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
		3.देंसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	नगाड़ा	125/7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेदु, चेन्नई-600107, तमिलनाडु ।
23.	तेलंगाना	1.ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	पतंग	दारुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (तेलंगाना).
		2. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं-8-2-220/110/1/3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना.
		3.तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन.टी.आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033 (आंध्र प्रदेश).
		4. युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं-8-2-269/S/98, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-34, आंध्र प्रदेश.

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
24.	त्रिपुरा	इंडिजिनियस पिपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा	दाव	प्रधान कार्यालय - ओल्ड काली बाड़ी रोड़, कृष्णानगर, अगरतला-799001. त्रिपुरा ।
25.	उत्तर प्रदेश	1. राष्ट्रीय लोक दल	हैंड पम्प	12-तुगलक रोड, नई दिल्ली-110011
		2.समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली ।
26.	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर	नेताजी भवन, T-2235/2, अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
		2.रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल) ।

सारणी-III

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1.	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, छिडवाड़ा रोड, सालवन, जिला - करनाल, हरियाणा
2.	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0 - 22, वार्ड नं0 -9, आसफाबाद, फ़िरोजाबाद, उत्तर प्रदेश - 283203
3.	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा, जिला - समस्तीपुर, बिहार - 848115
4.	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
5.	आदर्शवादी काँग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा-गद्दोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
6.	आधी आबादी पार्टी	डी-1385/7, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
7.	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, इंसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
8.	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
9.	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 - 84, ग्राम - मवैया कलां, पोस्ट - नारीबारी, शंकरगढ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (निशाल, फलिया), ता0- वनसदा, जिला-नवसरी-396 321, गुजरात ।
11.	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट - बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 - भीतरगांव, जिला - कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
12.	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
13.	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्स्टेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
14.	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, वार्ड नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
15.	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्कलेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
16.	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.
17.	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
18.	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार ।
19.	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर
20.	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0 - 9, जी - ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली - 18
21.	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट - भगीपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंगलिश स्कूल के के पास, जिला - एटा, उत्तर प्रदेश - 207001
22.	आम जनशक्ति पार्टी	डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
23.	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश ।
24.	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 441115
25.	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	फ्लैट नं0 - 804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार - 800014
26.	आम नागरिक पार्टी	ग्राम - बौल्ला मजपुर, पोस्ट - कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गौण्डा, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
27.	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
28.	आम ओडिसा पार्टी	185, वी आई पी कॉलोनी, आई आर सी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिसा -751015
29.	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
30.	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायका हाईट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
31.	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
32.	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं0 - 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव - सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा ।
33.	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
34.	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं0 - 2442, फेज -II, सेक्टर - 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब ।
35.	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गाँधीनगर, गुजरात-382721

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
36.	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलतपुर रोड, ग्राम- भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
37.	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा ।
38.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
39.	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
40.	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कॉलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001
41.	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
42.	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़ ।
43.	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महराजगंज, जिला - महराजगंज, उत्तर प्रदेश ।
44.	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510
45.	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)। (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंसपेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेसुअ गारो हिल्स, मेघालय-794101
46.	ऐक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैंगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगवां, जनपद- लखीमपुर(खीरी), उत्तर प्रदेश।
47.	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
48.	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं० 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैंड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब ।
49.	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम - कुढ़ी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
50.	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
51.	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
52.	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
53.	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
54.	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०ई०सी०ओ० रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
55.	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।
56.	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
57.	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।
58.	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001
59.	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224001 ।
60.	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं० - 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग वर्ग समिति, वार्ड नं० - 10, तहसील - हुजूर, जिला - रीवा, मध्य मध्य प्रदेश ।
61.	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208016
62.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर - एच, एल०डी०ए० कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
63.	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।
64.	आदिवासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गमित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।
65.	अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस	गुरुआईन वाड़ी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
66.	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
67.	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेथूच्छैपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008
68.	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची	नं० 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
69.	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी० नं० - 5/125, वेस्ट पालाप्पी, पोस्ट - सेलप्पमप्पी, तालुक व तालुक व जिला - नामक्कल, तमिलनाडु - 637019
70.	अहिंसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108, 109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
71.	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं० - 47, छिंदवाडा, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
72.	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
73.	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं० 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
74.	एम पॉलिटिकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं० - 179, सीईएन नं० -301, कॅप्टन प्रकाश प्ले मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
75.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-बिहार-843334 ।
76.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
77.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
78.	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010 ।
79.	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।
80.	अखण्ड भारत पार्टी	47 - रुक्मिणी विहार, मण्डी समिति के सामने, बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
81.	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.एमिनी मार्किट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086
82.	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
83.	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच० एस० लिमिटेड, एम०जी० रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई - 400067, महाराष्ट्र।
84.	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
85.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर - 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016 (उत्तर प्रदेश)
86.	अखण्ड हिन्दू पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, मिशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
87.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. - गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
88.	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
89.	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाय नारायण रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
90.	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301019
91.	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
92.	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश ।
93.	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
94.	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
95.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
96.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
97.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
98.	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर) ।	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।
99.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
100.	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार) ।
101.	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश)
102.	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
103.	अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश ।
104.	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
105.	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।
106.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
107.	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
108.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
109.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।
110.	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्टी (कोके), तहसील-सिन्धेवाही, जिला-चन्दरपुर, महाराष्ट्र ।
111.	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर) ।	खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
112.	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश) ।
113.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास) ।	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
114.	अखिल भारतीय रिवालयुशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था० और० पो०-लादुर, जिला-लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
115.	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
116.	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्ट, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
117.	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र) ।
118.	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड़ मंडी, लुधियाना (पंजाब) ।
119.	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाइपुरा, गाँव-गगवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
120.	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
121.	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
122.	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मलिक मऊ आइमा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229010
123.	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
124.	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।
125.	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462037.
126.	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
127.	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
128.	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड ।
129.	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 म्रिदहान दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403
130.	अखिल भारतीय लोक दल	ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी, नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, शनि साई मन्दिर, दिल्ली - 110094
131.	अखिल भारतीय लोकधिकार पार्टी	शॉप नं0 - 9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
132.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
133.	अखिल भारतीय मानवधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया(जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो0 - मंझली मटिहानी, भाया - बेलहर, जिला - बांका, बिहार।
134.	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	रत्नेश्वर झा का मकान, गाँव व पो. - परजुआर, जिला - बिहार, पिन - 847229

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
135.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
136.	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो० कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241001
137.	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
138.	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, ड्योढियाबीर, भेलूपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
139.	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर, महाराष्ट्र- 440027
140.	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल० आई० सी० सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208024
141.	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली - 110009
142.	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान न० 22/178, मांझखोर रमेड़ी तरौस चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
143.	अखिल भारतीय विकास काँग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश ।
144.	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वार्ड संख्या - 36, होल्डिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार - 800003
145.	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर - 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
146.	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
147.	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं० 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135
148.	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ इसाक) ।	नं० 171, कानन नगर, वींटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
149.	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल - 695020
150.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
151.	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।
152.	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली - 110029 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
153.	ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडगम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु.-600002
154.	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
155.	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म० नं० 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
156.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
157.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलॉ, नई दिल्ली-110041
158.	ऑल इंडिया बी० सी०, ओ० बी० सी० पार्टी	म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपड़ा, ई.सि.आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
159.	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा- 151505, पंजाब
160.	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकत्ता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
161.	ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर काँग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
162.	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम०-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
163.	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकपिल्ली पी.ओ., कूवाप्पडी, ऐरणाकूलं जिला, केरल-683544
164.	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
165.	ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान काँग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
166.	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाड़ा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
167.	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1बी/110ए, कृष्णा अपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1बी, बिहार, दिल्ली-110063
168.	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं० - 1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501
169.	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कलिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कलिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
170.	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कडगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
171.	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/वी.एस-17/1404/वी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोडाबल्लापुरा टाउन, बैंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
172.	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फ़िरोजपुर सिटी, पंजाब-152002
173.	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी काँग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।
174.	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
175.	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं० 48, क्लायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापटनम-530017, आन्ध्र प्रदेश
176.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)
177.	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए०आई०एम०डी०एफ०)	मकान नं० 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश
178.	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं० - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं० - 35, सर्वे नं० - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
179.	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु काँची	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनप्पी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619
180.	ऑल इंडिया मानवधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - चोलापुर, तहसील व जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221101 ।
181.	ऑल इण्डिया मांची पार्टी	फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेंट, काटुरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश ।
182.	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं० - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
183.	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कड़गम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्कड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
184.	ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
185.	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कड़गम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
186.	ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी	प्लाट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रॉसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश ।
187.	ऑल इंडिया मुत्ताहिदा क़ौमी मज़ह	मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
188.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सेक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078
189.	ऑल इंडिया पसुम्पन मुननेत्र कड़गम	47बी/2, सोर्गावासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
190.	ऑल इंडिया फ़ाली मुनेत्र काँची	नं० - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
191.	आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दाँली, उत्तर प्रदेश ।
192.	ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
193.	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
194.	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कड़गम	डी. नं. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु-625010
195.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051
196.	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
197.	ऑल इण्डिया खिदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
198.	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टॉउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फरुक्कोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
199.	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काच्ची	2, कल्याणी नगर, वहीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
200.	ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी	ऑंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु – 621010.
201.	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब) ।
202.	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कड़गम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
203.	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो० – ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल) ।
204.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कड़गम	न० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई – 600039 तमिल नाडु ।
205.	ऑल इंडिया ट्राइबस एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	विंडरूथ हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
206.	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं० 20-24, ज़फाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला – गुलबर्गा, कर्नाटक
207.	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पत्तुर -635601, तमिलनाडु ।
208.	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फ्रीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
209.	ऑल इंडिया वीमेन यूनाईटेड पार्टी	कमरा नं0 - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जमिया नगर, नई दिल्ली - 110025
210.	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
211.	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
212.	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
213.	ऑल इण्डियंस गांधी कांग्रेस	212, कलिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरु-560058, कर्नाटक ।
214.	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।
215.	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं0-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
216.	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।
217.	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला खवाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन पिन कोड – 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
218.	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं0-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु
219.	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं0 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश ।
220.	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं0-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. – सासाराम, थाना-सासाराम, जिला – रोहतास, बिहार – 821115.
221.	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस – प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर ।
222.	अमन समाज पार्टी	वी-1452, गली नं0-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
223.	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिम्माजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
224.	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं0 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगशेत्यहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।
225.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
226.	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
227.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं0 53, गाँधी रोड (फोर्मली पीरन लेन), धिरूपत्तूर, जिला- वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
228.	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु) ।
229.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा० लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
230.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली – 110019.
231.	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
232.	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
233.	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकत्ता-700063. (पश्चिम बंगाल) ।
234.	अम्बेदकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा – 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र ।
235.	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	द्वारा 26, भोसलेवाडी, आवले बाबू चौक के पास, लष्करीबाग, नागपुर, महाराष्ट्र – 440017
236.	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल) ।
237.	अनैतिइंतदीया मक्कल शक्ति कड़गम	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाउर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057
238.	अनाईथिडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिस्वथीपुरम व पोस्ट चेर्यर तालुक – 604 407, थिस्वन्नामला, जिला-तमिल नाडु।
239.	अनैतीन्डीया समूदाय मक्कल काची	80, कूलढाई वेलन लेन, मेन रोड, छिडिगुल, तमिल नाडु - 624001
240.	अनैथिन्थितया तमिझागा मुन्नेत्र कड़गम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।
241.	अनैतु इंडिया मक्कल काँची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, होसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
242.	अनाईथू मक्कल मुन्नेत्र कड़गम	डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
243.	अनैथु मक्कल पुराची काँची	न.268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरूथाचलम्, (टीके) कडलूर कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
244.	अनैतुमक्कल नीति काँची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
245.	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं० – 371, प्रथम तल, मोहल्ला – सधवाड़ा, कायमगंज, जिला – फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश ।
246.	अन्बू उदयम कच्ची	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर – 625518, तमिलनाडु
247.	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह -744103 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
248.	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुडू स्ट्रीट, भीमुनिपटनम्, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 531163
249.	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिथि पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी – विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद – 500035, आन्ध्र प्रदेश ।
250.	आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
251.	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगमित्ता, नेल्लोर – 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
252.	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
253.	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
254.	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
255.	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम, कीलावीथी, पटेश्वरम, कुम्बकोणम् तालुक, तंजावुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु – 612703
256.	अन्ना एमजीआर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	मकान नं० – 176, वार्ड नं० – 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्ण्डी, उत्थमापलायम – तालुक, थेनी – जिला तमिलनाडु तमिलनाडु - 625526
257.	अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं० 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
258.	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुबहा (वाया- जसरा), थाना- लालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
259.	अन्नन तमिलगा राइजिंग कड़गम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
260.	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैढ़न, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886
261.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकड़ा विश्नोई, विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश – 244401
262.	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपटु- गांव, थिरुवल्लार, तमिलनाडु- 602024
263.	एंटी रिजवेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
264.	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
265.	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार ।
266.	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
267.	अपना दल (सोनेलाल)	ग्राम-अटरामपुर नवाबगंज, पोस्ट- अटरामपुर, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 229412
268.	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो०-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274402
269.	अपना देश पार्टी	मकान नं० - 457, मेजरगंज, जिला - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
270.	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
271.	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
272.	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
273.	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- उँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
274.	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
275.	अप्पाअम्मा मक्कल कझकम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट - अम्मापाल्यम्, तालुक व जिला - पेराम्बलूर, तमिलनाडु - 621101
276.	अरुणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश)
277.	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस - 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
278.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
279.	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना - अहिरौली, जनपद - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश - 274207
280.	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
281.	असली देशी पार्टी	शॉप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
282.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय- जी. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
283.	असम जन मोर्चा	वार्ड नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा- निज सहर, थाना व जिला- नगाँओ, असम- 782002.
284.	असम संग्रामी मंच(असम)	मकान नं० - 36, बाई लेन नं० - 9 (पश्चिम), जू रोड तिनिआलि, आर. जी. बरुआ रोड, गुवाहाटी, असम - 781003 ।
285.	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांव, पोस्ट ऑफिस- हंसारा, जिला- तिनसुकिया, असम- 786790.
286.	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
287.	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना- लहेरी, जिला- नालन्दा-803118, बिहार।
288.	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
289.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला- बिजनोर, उत्तर प्रदेश ।
290.	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली -110064.
291.	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रोंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम) ।
292.	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला - जालोर, राजस्थान ।
293.	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017.
294.	आवामी समता पार्टी	भवन संख्या - 631/135, पानी गांव, सेक्टर - 9, पोस्ट - इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
295.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बखशीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
296.	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चेंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400015
297.	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, सम्राट इन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
298.	आजाद भारत पार्टी (यूनाईटेड)	डी-59/14ए/-1/ ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
299.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042
300.	आजाद जनता पार्टी	208, डिल्लन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
301.	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-पपपए शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलोई, नई दिल्ली -110086.
302.	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-
303.	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
304.	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश ।
305.	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोंवली, हैदराबाद- 500028, आन्ध्र प्रदेश ।
306.	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्पलैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाड़ी, चेन्नई-600 071, तमिलनाडू ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
307.	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
308.	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
309.	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
310.	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सग्राम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
311.	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-11, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
312.	बहुजन एकता पार्टी (आर)	सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपूरा एक्स. नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043
313.	बहुजन गोंडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
314.	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
315.	बहुजन किसान दल	किसान भवन, ऋषम विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
316.	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)	ग्राम- धन्सुआ, पो० -सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
317.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
318.	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्भावना अपार्टमेन्ट, मदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092 ।
319.	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिक्रारी, तहसील- टूंडला, थाना- पचोखरा, जनपद/जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
320.	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
321.	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
322.	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल० आई० जी०, बर्सा-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश ।
323.	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001
324.	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र
325.	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
326.	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो0-इसरी बाजार, जिला- गिरिडिह, झारखण्ड-825107.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
327.	बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा	मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा, दिल्ली-110053 ।
328.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
329.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर- फुलै)	म०नं० वी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेन्ट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्धा प्रदेश ।
330.	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरूण विहार, सेक्टर- 37, नोएडा, जनपद- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
331.	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साऊथ पटेल नगर, मेट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.
332.	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिठौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
333.	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस- लश्कर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश ।
334.	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड़, पंजाब ।
335.	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
336.	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट- धनसार, जिला- धनबाद, झारखण्ड ।
337.	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।
338.	बहुजन उदय मंच	ग्राम- चालकपुर, पोस्ट- जमीन रसूलपुर, जिला- आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
339.	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
340.	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
341.	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक- वसाई, जिला- थाणे, महाराष्ट्र-401303.
342.	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी वाडा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
343.	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वेंकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुड्ड, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- तेलंगाना- 500037

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
344.	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं० - 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500026
345.	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार ।
346.	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
347.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर- II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
348.	बंचित स्वराज पार्टी	सं० 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220, पश्चिम बंगाल ।
349.	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
350.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० ऑ०, थाना और जिला- करीमगंज, पिन-788711, असम ।
351.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।
352.	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
353.	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं० 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
354.	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
355.	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपी - जिला, कर्नाटक-कर्नाटक- 574117
356.	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना, ब्लॉक - सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226008
357.	भापसे पार्टी	ग्राम - मस्सा (खं), तहसील - कलम, जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507 ।
358.	भारत (इन्टिग्रेटेड) रक्षक पार्टी	मकान सं० - बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर - 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018 ।
359.	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाड़ीगुडा मेन रोड, कवाड़ीगुडा, सिकन्द्राबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
360.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी- 1, नई दिल्ली -110048.
361.	भारत भविष्य पार्टी	मकान सं०-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारून, पोस्ट - चन्द्रिकागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
362.	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील - पामगढ़, थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ -495553

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
363.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं०-16/19, गाँव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086 ।
364.	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।
365.	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवी लाईन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
366.	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
367.	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व), महाराष्ट्र 400070
368.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
369.	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209861
370.	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं० - 366, अहिल्या, न्यू शांगनी नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605 ।
371.	भारत जनता दल (तुगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लाक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
372.	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम- बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट - बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार - 8415061 ।
373.	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत - मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश- 283115 ।
374.	भारत कौमी दल	ग्राम - लखदेवा हूण, पो० झबरेडा, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
375.	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) ।
376.	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला - कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
377.	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश ।
378.	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट, पुष्पांजली इन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
379.	भारत महापरिवार पार्टी	1286, ग्राउंड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली- 110095
380.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पिटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार
381.	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कटका, जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
382.	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
383.	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, शिवकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर - 23, राजस्थान ।
384.	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश ।
385.	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो० त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल - 852139, बिहार ।
386.	भारत न्याय दल	एन० एच०-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म० नं०-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
387.	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ० कड़छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407
388.	भारत पीपुल्स सेना	प्लॉट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र ।
389.	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कड़ूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
390.	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
391.	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान ।
392.	भारत स्वभिमान पार्टी	55/1/228, ग्राउड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
393.	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बूर, मुम्बई-400071.
394.	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
395.	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लॉट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
396.	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला- देवघर, झारखण्ड ।
397.	भारत विकास पार्टी (सेकूलर)	खसरा नं० - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली -110084
398.	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी०डी० ए० फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067.
399.	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरुणदेवपेट, दसवीं लेन, गुंटूर - 522002, आन्ध्र प्रदेश ।
400.	भारतीय मानवधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल ।
401.	भारत धर्म जन सेना	इमारत सं०-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल-688544
402.	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न० - 2 - 42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
403.	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
404.	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं० 3/17, डोरासानी पल्ली, प्रोहतुर मंडल, कडापाडिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
405.	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
406.	भारतीय जन शब्द	331 (311), वार्ड नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम - 695 543, केरल ।
407.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रास, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक) ।
408.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक ।
409.	भारथीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - घटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500038, आन्ध्र प्रदेश ।
410.	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं० ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
411.	भारतीय आवाम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
412.	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
413.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दर पुरी, भोपाल - 462022 (मध्य प्रदेश) ।
414.	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 440102, महाराष्ट्र ।
415.	भारतीय अवाम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा बादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
416.	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना - 800001 (बिहार) ।
417.	भारतीय बहुजन कॉंग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
418.	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नं० - 139/2, ग्राम - लखवाया रसूलपुर, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
419.	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
420.	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
421.	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- काँटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर, थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
422.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. ऑ. - धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड)।
423.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० - धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
424.	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231 001।
425.	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा।
426.	भारतीय काँग्रेस पक्ष	कसबापेठ, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट - बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र।
427.	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वार्ड नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश।
428.	भारतीय डेवलपमेंट पार्टी	मकान नं० 358, अथीरा, कुरा पोस्ट कट्टराक्करा, कोल्लम, केरल - 691557
429.	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रास, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु - 560060 कर्नाटक।
430.	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो० - बेलहार कलां, तहसील मेहडावल, जिला - संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
431.	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली - 57.
432.	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
433.	भारतीय गांव ताल दल	ग्राम - कुका, पो०ऑ० मक्सूदपुर, जिला - कपूरथला, पंजाब।
434.	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टॉप, गोसाईगंज, जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
435.	भारतीय इन्कलाब पार्टी	गा० राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० व थाना - इस्लामपुर, जिला - नालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
436.	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21 - डी, गली नं० 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबड़ी मोड, दिल्ली - 110045
437.	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश।
438.	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर० टी०ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।
439.	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील - छाता, जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश)।
440.	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
441.	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
442.	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
443.	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।
444.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी,	ए - 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062.
445.	भारतीय जनक्रांति पार्टी	12/17, चकखुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
446.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
447.	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा - 282010. उत्तर प्रदेश।
448.	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद - 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
449.	भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक	मकान नं० -392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
450.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
451.	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
452.	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं०-2, बिल्डिंग नं०- ए.-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं०- 1, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
453.	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार ।
454.	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो०- कुकथरी(मिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123
455.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्कलेव, फेस-II, नई दिल्ली- 110016.
456.	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्कडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)।
457.	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
458.	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
459.	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001. (पंजाब)।
460.	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
461.	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं०11, गांधीनगर, गुजरात-382010
462.	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
463.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
464.	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
465.	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
466.	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरबाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
467.	भारतीय परिवर्तन काँग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
468.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए, फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
469.	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
470.	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।
471.	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
472.	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खांडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
473.	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बेंगलोर, कर्नाटक- 560098.
474.	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
475.	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
476.	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
477.	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.
478.	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर- 302 013, राजस्थान
479.	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
480.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश) ।
481.	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्केड, वार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
482.	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सराफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश) ।
483.	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
484.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र ।
485.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला-कुंडगढ, पोस्ट-सदर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ।
486.	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र) ।
487.	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
488.	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
489.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।
490.	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041
491.	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो0 – कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
492.	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला –लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
493.	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400001
494.	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड, ग्राम व पोस्ट – नाहर, तहसील – कोसली, जिला – रेवाड़ी, हरियाणा ।
495.	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश) ।
496.	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
497.	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार ऐक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.
498.	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281, 003, (उत्तर प्रदेश) ।
499.	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार – 249 402 उत्तराखण्ड ।
500.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) ।
501.	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ऑ. बानकसिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश) ।
502.	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितबड़ागांव, मकान नं० – 885ख, वार्ड नं० -8, इन्दिरा नगर, तहसील – बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
503.	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एगजिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार – 800001
504.	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुकुरिहा, पोस्ट- रुद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
505.	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो०ओ० रघुनाथपुर, तहसील, वाडरुफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।
506.	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट - खेढ़ायँ, थाना - आन्दर, जिला - सिवान, बिहार ।
507.	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वार्ड सं-54, सर्किल सं०-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हरार, पटना, बिहार-800007.
508.	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान ।
509.	भारतराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं० - 22, सी एस सी-11, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
510.	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र) ।
511.	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचराम ग्राम पंचायत, घाटकेसर- मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
512.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश) ।
513.	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ओ० हरिआना, जिला होंशियारपुर, पंजाब-144208
514.	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब) ।
515.	भारती समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी० जी० आई०, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
516.	भारतीय आम आदमी परिवार,	1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी०डी०ए०एल०आई०जी० फ्लैट्स, न्यू कोण्डाली, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096
517.	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुबन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।
518.	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
519.	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
520.	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
521.	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
522.	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	क्रियर छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
523.	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कॉलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005
524.	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौती, जिला- गया, बिहार- 823002

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
525.	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं०-30 (बी०पी०20), बेचूपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश। पिन कोड -232 101
526.	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
527.	भारतीय बहुजन क्रांति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 421201
528.	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं० - 61/3, गांव - छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर - 37, परगना व तहसील - दादरी, नोएडा, जनपद - गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
529.	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली।
530.	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001।
531.	भारतीय दलित पार्टी	खाता सं०- 269, मौ०- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार।
532.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली- 110067.
533.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
534.	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
535.	भारतीय दृष्टिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - मौसंदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
536.	भारतीय एकता मंच पार्टी	शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश
537.	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश।
538.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगलिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
539.	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू, थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
540.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।
541.	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी०ओ० -कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001।
542.	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं० 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
543.	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
544.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो० सोन्टा, वायां-अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
545.	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251314
546.	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर - बढलठोर, तहसील - देहरा, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177105
547.	भारतीय हिन्द एकता दल	डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश ।
548.	भारतीय हिन्द फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201013
549.	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंधौली, तहसील - पुवायॉ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।
550.	भारतीय इंसान पार्टी	नं० - 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जमिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 ।
551.	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार ।
552.	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुड़गाँव, हरियाणा - 122001
553.	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं० 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
554.	भारतीय जन जागरूक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
555.	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या - 8 व 9, द्वितीय तल, गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
556.	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या - 262 घ, सरसवाँ, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
557.	भारतीय जन मंच	361, गली नं० 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली -110093 ।
558.	भारतीय जन नायक पार्टी	418, न्यू गोविन्द पुरी, कंकर खेड़ा, मेरठ कैन्ट, उत्तर प्रदेश ।
559.	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्प्लेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, दहेगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
560.	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
561.	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208014
562.	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
563.	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश ।
564.	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
565.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -227107
566.	भारतीय जन स्वराज पार्टी	सीसी- 1/24, अनसल, अवन्तिका, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001
567.	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश – 474010
568.	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार) ।
569.	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
570.	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
571.	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली – 110042
572.	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम – डुन्दुर, पोस्ट – लठेया, थाना – छतरपुर, जिला – पलामू, झारखण्ड - 822116
573.	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वार्ड नं. 14, शिव नगर, नियरशिव मंदिर, हिसार, हरियाणा-125001
574.	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं0 - 2, पूर्णागिरीविहार, पटेल नगर, पो0 - इज्जत नगर, जनपद-जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
575.	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
576.	भारतीय जनता दल (इंटिग्रेटिड)	मकान नं0-62, गली नं0-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084 ।
577.	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लाट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं0 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
578.	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677
579.	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र वन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
580.	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001, बिहार ।
581.	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम-चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, वाया- बगरू, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
582.	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212402 ।
583.	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
584.	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं0 600, वार्ड नं0 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
585.	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
586.	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी पार्टी	मकान नं. 332एफ, वृन्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
587.	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार- बिहार-802164.
588.	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई, उत्तर प्रदेश ।
589.	भारतीय लोक सेवा दल	एमसी नं. 9/128डी, 9/128ई, गली नं. 10, वार्ड नं. 9, नियर कंसल गैस एजेन्सी, रमन मण्डी, तहसील- तलवंडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
590.	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
591.	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता0- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
592.	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि0प0 प्राथमिक शाळे समोर, डी0पी0 भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता0 कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415501
593.	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.
594.	भारतीय महिला पार्टी (शीतल वर्मा)	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गोयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071.
595.	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव व पोस्ट- ओड़ना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146.
596.	भारतीय मानवधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007.
597.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश
598.	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होल्डिंग सं0 -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
599.	भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली- 110093.
600.	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
601.	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं0-4, सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014, महाराष्ट्र ।
602.	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
603.	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसरौव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार-841408
604.	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम – सरबसी, पोस्ट – बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला – गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
605.	भारतीय नौजवान दल	मकान नं.882, गली नं.16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिवविहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094
606.	भारतीय पंचायत पार्टी	डी - 15/674, गली नं0 - 5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली - 110092
607.	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान - 332713
608.	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
609.	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.
610.	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।
611.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
612.	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं0 -1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान - 305001
613.	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम - नयाटोला बरियारपुर, पंचायत - चम्पापुर, वार्ड नं0 13, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना बिहार ।
614.	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14, खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
615.	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 ।
616.	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
617.	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम - महुआरी, पो0 जंगीगंज, जिला - सं0 र0 न0 भदोही, उत्तर प्रदेश ।
618.	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रोपिलर नं0- 141, जसोला, निकट जमिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली-110025 ।
619.	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं0 - 1, ग्राम - वनुपुर पुख्ता, पोस्ट - मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश ।
620.	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990
621.	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
622.	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं0 - 12, शीतला मंदिर के पास, राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231216
623.	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव व डाकखाना - सेरसा, तहसील व जिला - सोनीपत, हरियाणा ।
624.	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887
625.	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला-सिकरौल, पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
626.	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो0 - तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
627.	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम व पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
628.	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विक गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तरप्रदेश।
629.	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
630.	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।
631.	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।
632.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
633.	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
634.	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वार्ड नं0 18, ग्राम – खामदार, पो0 मोउ, तहसील-व्योहारी, जिला – शहडोल, मध्य प्रदेश
635.	भारतीय शक्ति दल	डी – 236, विवेक विहार, दिल्ली – 110095 ।
636.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली – 110041
637.	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
638.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर, कानपुर नगर – 208014, उत्तर प्रदेश ।
639.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिन्हट लखनऊ उ. प्र.
640.	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए बिनौली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
641.	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- वलिया, जिला- भरूच, गुजरात
642.	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम – भुड़िया (फगुहा), तह0 व जिला – कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
643.	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुड़ासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
644.	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
645.	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामुर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।
646.	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो0 – दुगरेई, जिला – फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
647.	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
648.	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
649.	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
650.	भारतीय युवा सेना	मकान नं0 – 1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक – धारूर, जिला – बीड, महाराष्ट्र – 431124 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
651.	भारतीय युवा स्वभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला – नारायनपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश- 206122
652.	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
653.	भ्रष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानग्लोई), दिल्ली- 110041
654.	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गड़रिया मोहाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
655.	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
656.	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोला, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
657.	बिजु स्वभिमान दल	प्लॉट नं0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओड़िसा – 755020
658.	बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत – श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./ पो.ऑ. –मधुपटना, कटक – 10 (उड़िसा) ।
659.	बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
660.	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं0 – 698, ग्राम – अर्नियावाली, तहसील – नन्थुसारी चोपटा, जिला – सिरसा, हरियाणा - 125055
661.	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट – बेसवां, ग्राम पंचायत – नयाबाँस, तहसील – इगलास, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202145
662.	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस – II, आगरा – 286002, उत्तर प्रदेश ।
663.	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, क्लिशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
664.	ब्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा – 5, उत्तर प्रदेश ।
665.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली – 110088.
666.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो0 – सतारी, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश।
667.	बुन्देलखण्ड काँग्रेस	56, ज्वाला हेड़ी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063.
668.	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश -
669.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी – 284001, (उत्तर प्रदेश) ।
670.	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्रीशिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, क्लिशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश – 210426
671.	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काउलबाज़ार, बेल्लारी, कर्नाटक – 583102 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
672.	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
673.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ – 160009.
674.	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
675.	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला – दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
676.	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन	सी0 आर0 12, आर0 डी0 ए0 बिल्डिंग, गुरुनानक मार्केट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
677.	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ – 497001
678.	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
679.	छत्तीसगढ़ स्वभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि० – दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।
680.	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ – 497447
681.	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फ्लाशविहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-खिग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़
682.	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर – 492001. (छत्तीसगढ़)।
683.	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०नं०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ – 495450
684.	चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बैंगलुरु -560025, कर्नाटक
685.	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई – (तमिलनाडु) ।
686.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई – 600001. (तमिलनाडु)।
687.	सिविल राइट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजोत इन्कलेव, खरड़ एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
688.	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेट्री	कुन्नकुड़ी, त्रिवेन्द्रम – 695037, (केरल) ।
689.	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	यू-90, शक्करपुर, दिल्ली – 110092.
690.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट -लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059 ।
691.	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड़, कोचीन – 16 (केरल) ।
692.	करप्शन एबोलिशन पार्टी	मकान नं० – 219, गॉव व डाकखाना – शेरिया, तहसील – बेरी, जिला – झज्जर, हरियाणा
693.	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा विस्टा, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
694.	दलित कान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट – धौलीपाल, तहसील व जिला – हनुमानगढ (राजस्थान) ।
695.	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017.
696.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. – अनीशाबाद, पटना – 800002, (बिहार) ।
697.	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट-सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205
698.	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट – घुनवारा, तहसील –मैहर, जिला – सतना, मध्य प्रदेश ।
699.	दलित बहुजन पार्टी	4-1-1215, स्ट्रीट नं. 3, बोगुल्लाकुन्टा, किंग काटी रोड, हैदराबाद – 500001.
700.	दिल्ली जनता पार्टी	वाई - 200, कैप नं0-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
701.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110027.
702.	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं० – 7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।
703.	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड़, अमृतसर अमृतसर (पंजाब) ।
704.	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट	2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004
705.	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारामूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
706.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
707.	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।
708.	डेमोक्रेटिक मूवमेंट	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
709.	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर – 17, (महाराष्ट्र) ।
710.	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला – ताजपुरा, राहों, तहसील – नवांशहर, जिला – शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
711.	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक – 571105
712.	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर – 24, महाराष्ट्र ।
713.	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
714.	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना – घोला, जिला – उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700131
715.	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ – सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब– 140 308
716.	देस मक्कल मुनेट्र कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया), तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु – 626005
717.	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर – नेमॉम, तिरुवनन्तपुरम – 695020, केरल ।
718.	देश बचाओ जन मोर्चा	डी – 6/171, सेक्टर – 31, नोएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश) ।
719.	देश भक्त पार्टी	बी – 114, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092.
720.	देश हित पार्टी	प्लॉट नं0 - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
721.	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, क्लिनायक को0 हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के के पीछे, नरसाला, मकान नं0 - 4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर – 30 महाराष्ट्र ।
722.	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
723.	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो0 - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
724.	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर बारहगाँवा, पोस्ट व तहसील - मधुबन, जनपद – मऊ, उत्तर प्रदेश
725.	देशी किसान पार्टी	मकान सं0 – 1624, वार्ड सं0 – 52, लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
726.	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लॉक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
727.	देसिया पातुकाप्पु कडगम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई – 600093 (तमिलनाडु) ।
728.	देसिया फारवर्ड ब्लॉक	नं0 5, एम0 पी0 एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई – 600093, तमिलनाडु ।
729.	देसिया मक्कल शक्ति काँची	न्यू न - 21, ओल्ड नं0 – 11, वैकटरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079
730.	देशिया उझवर उझइपलर कडगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीप्पु गांव, वेल्लोर वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
731.	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
732.	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं0 7, शुभारम्भ फेस – 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
733.	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं० – 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चौधरी कल्याणविलेज, धर्मापुरी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला – सलेम, तमिलनाडु - 636455
734.	दिग्विजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560040
735.	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना – आसन, तहसील व जिला – रोहतक, हरियाणा
736.	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं० 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु।
737.	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26 कर्नाटक
738.	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कतैअहन चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक।
739.	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश।
740.	द्रविड़ पेरावाई	69, रंगपिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी – 605001.
741.	डुगर प्रदेश पार्टी	डाइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लेक्स, जानीपुर जम्मू – 180007, जम्मू और कश्मीर।
742.	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 251001.
743.	एकता क्रान्ति दल यू. पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)।
744.	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली – 110006.
745.	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पो० -भैनी खुर्द, तहसील – नीलोखेडी, जिला – करनाल, हरियाणा।
746.	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
747.	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई – 600017, तमिलनाडु।
748.	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
749.	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हूसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला - मंड्या, कर्नाटक- 571403
750.	एजहुची तमिझारगल मुनेत्र कझगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु – 625107
751.	फौजी जनता पार्टी	मकान नं० – 104, गाँव – मनोबास, डाकखाना – बराल, तहसील – सिकन्द्राबाद, जिला – बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
752.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पो० – होलम्बी कलां, दिल्ली – 110082.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
753.	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोड़वा, पोस्ट – मदैनिया, जनपद – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश – 224147
754.	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, भित्तल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई – 400021, महाराष्ट्र।
755.	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ऑ. व जिला – जलपाईगुड़ी – 735101 (पश्चिम बंगाल)।
756.	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
757.	फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्मविहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओड़िसा – 751030
758.	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर – 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर।
759.	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश – 230001।
760.	गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001
761.	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
762.	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम-सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना – भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार।
763.	गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस	टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट – महोरिया टाऊन और जिला – मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।
764.	गांधीय मक्कल इयक्कम	9-1, तडागम रोड, कौंडमपालयम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु- 641030.
765.	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी – 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226016, उत्तर प्रदेश।
766.	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
767.	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड – 12, होल्डिंग संख्या – 747/642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
768.	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701
769.	गरीब सामना पार्टी	म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर – 231001 उत्तर प्रदेश।
770.	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ऑ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
771.	गरीब एकता पार्टी	ए-71 ग्रुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली – 110052.
772.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. – विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
773.	गरीब जनशक्ति पार्टी	वार्ड नं. 03, होल्डिंग नं. 15, स्वर्ण वाटिका साड़ी शोरूम के पीछे, मोहल्ला- ब्रम्हपुरा, लक्ष्मी चौक, मेन रोड मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
774.	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
775.	गरीब राज पार्टी	मं० नं० 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला – बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
776.	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील – जलालपुर, जिला – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश –
777.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार – 845401.
778.	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
779.	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
780.	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी बंगाल - 741245
781.	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं० – 442, चिंचमाला, वाडा पार्ये, सत्तारी, गोवा - 403505।
782.	गोवा प्रजा पार्टी	क्लसिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं० – 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाड़ी, नॉर्थ गोवा, गोवा – 403402
783.	गोवा सु-राज पार्टी	383 – ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
784.	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं० – 644/1, वार्ड नं० – 4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरें, पोंडा-गोवा ।
785.	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लैक्स के सामने, जरनलिस्ट जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरवोरिम, गोवा – 403507.
786.	गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो	मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ ।
787.	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018
788.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेथ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।
789.	गोंडवाना काँग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
790.	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश ।
791.	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डॉ०जकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल) ।
792.	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
793.	गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल ।
794.	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.बी. रोड, पोस्ट-धूम, थाना -जोरबंगला, जिला –दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
795.	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा ।
796.	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम विहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा-122017
797.	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलगिरी-522503, गन्टूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
798.	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
799.	गुजरात जन चेतना पार्टी	ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
800.	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
801.	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फत दरबार कूबा ट्रांसपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर-384355, जिला-मेहसाना (गुजरात) ।
802.	गुड़गाँवा रैसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुड़गाँव -122 002, हरियाणा।
803.	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरूणा नगर, मजनू का टीला, स्विट लाईन्स, दिल्ली - 110054
804.	हकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खाँ, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला – सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302 ।
805.	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
806.	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट – मसौढ़ा, थाना – पालीगंज, जिला – पटना, बिहार - 801110
807.	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणीविहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047
808.	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुकखूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
809.	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- स्त्री मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
810.	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130
811.	हमरो सिक्किम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर मरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिक्किम, सिक्किम सिक्किम - 737135
812.	हरदम मानवतावादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पद्मपुरम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006
813.	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
814.	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
815.	हरियाणा इंसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
816.	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं० - 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा हरियाणा - 134003
817.	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
818.	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट - रीसालु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103
819.	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाड़वा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
820.	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं०-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जूडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुड़गाँव, हरियाणा - 122001
821.	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव-सिलोखरा, गुड़गाँव - 122001. हरियाणा ।
822.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी. नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र- 136118, हरियाणा ।
823.	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
824.	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।
825.	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, वार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176215
826.	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।
827.	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी० टी० रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
828.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-लेडूवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
829.	हिंद जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
830.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश)
831.	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, दिल्ली
832.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018
833.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट. नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी०-201005
834.	हिन्द समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
835.	हिन्द साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, वाल्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-
836.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
837.	हिन्द विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फ़िरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
838.	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं० 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
839.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश ।
840.	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं० 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी० चण्डीगढ़ - 160047
841.	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
842.	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं० - 1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182 ।
843.	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।
844.	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला - मेवात (नूँह), हरियाणा ।
845.	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
846.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई - 600114, तमिलनाडु ।
847.	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
848.	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम- नरसंडा, पो.ऑ व थाना- काँटी, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 801503
849.	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म० नं० – 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
850.	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र
851.	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाड़ी नाका बहार भुज, तहसील- भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
852.	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं. 438, ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
853.	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार ।
854.	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं० नं० – 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001
855.	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना – रामपुर, जिला – गया, बिहार - 823001
856.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली - 110092
857.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
858.	हिन्दुस्तान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर, सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
859.	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7, कामोठे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र ।
860.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, टूरिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
861.	हाईटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।
862.	हमार पिपुल्स कन्वेन्शन	द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56, बावंगकाउन चिमवेंग एजल- 796014, मिजोरम ।
863.	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बार्षी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
864.	हम किसान पार्टी	मकान नं० – 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड न० – 1, हरमु, राँची, झारखण्ड – 834002
865.	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश – 222136
866.	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुसुलम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600043
867.	इन्डिपेंडेंट इन्डियन काँग्रेस	मु० पो० पिंपलगांव तर्फे महालुंगे, ता० आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र – 410503
868.	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं० – 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
869.	इन्धिया कुडियारासु काचची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
870.	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं० 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
871.	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची	द्वार सं० 15/1, वार्ड नं० 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
872.	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
873.	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
874.	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
875.	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं.- 129, ग्राम व पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
876.	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं० – 1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
877.	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।
878.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी (कांशीराम)	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
879.	इंडियन बिजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
880.	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैलनकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु।
881.	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश।
882.	इण्डियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट-अभिनवा बिदानसी, कटक-753014, उड़ीसा।
883.	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव - बाबू शंकर नगर, मौजा - भालुकसुंदी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट - अलीगढ़, थाना - राजनगर, जिला - वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130।
884.	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054।
885.	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
886.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
887.	इण्डियन गाँधीयन पार्टी	कुरियाकट्टे बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिकड डाकघर श्रीसूर जनपद, जनपद, केरल - 680 509
888.	इण्डियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
889.	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीबीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कॉविल रोड, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695001
890.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
891.	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब।
892.	इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)	डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004
893.	इंडियन लवर्स पार्टी	नं० - 23, बी - ब्लॉक, द्वितीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
894.	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं०-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
895.	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
896.	इण्डियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी,	डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश।
897.	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
898.	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली - 110001.
899.	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
900.	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं० – 107, द्वितीय तल, 1 st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घाँसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक – 570 019
901.	इंडियन ओसनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030
902.	इंडियन पीपुल्स कॉंग्रेस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं० -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
903.	इंडियन पीपुल्स काँग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001
904.	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
905.	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
906.	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुदेवोभवा, शॉप नं. 1, गाउंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
907.	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, महेन्द्र एन्क्लेव के सामने, जी.टी.करनाल रोड, दिल्ली- 110033
908.	इण्डियन पब्लिक पार्टी	गुजरात हाउसिंग कॉलोनी, कमरा संख्या – 1103, ब्लॉक नं. 7/बी. न्यू. डबलिया, भारतनगर, भावनगर – 364001 गुजरात ।
909.	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
910.	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, प्रदेश-226025
911.	इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या – 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
912.	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली – 110025.
913.	इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन कांग्रेस कांग्रेस	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002
914.	इंडियन युनिटि सेंटर	गांव- इचानगढ़ी, पोस्ट व थाना- जगतबल्लभपुर, जिला- हावडा, पिन- 711408, पश्चिम बंगाल ।
915.	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोड़ा हजारी, बुटेश्वर बगीची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
916.	इण्डियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बेंगलोर-560054, कर्नाटक ।
917.	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
918.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।
919.	इंडियन्स विक्ट्री पार्टी	3/261-2, आन्नदन नगर, असरीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
920.	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
921.	इण्डिया जननायक काच्ची	स० 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु तमिलनाडु ।
922.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
923.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौंडा, दिल्ली ।
924.	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
925.	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला – वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
926.	इंसानियत पार्टी	मकान नं० – 262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
927.	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
928.	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
929.	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या – 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-रायगुरुपुर, थाना – गदिसागोडा, जिला – पुरी, ओडिसा
930.	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश ।
931.	जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।
932.	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली – 110059
933.	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
934.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कड़गम	नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोरे, चेन्नई-600008, तमिलनाडु ।
935.	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली – 110005
936.	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
937.	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाउंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश ।
938.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
939.	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात ।
940.	जय आन्धा पार्टी	डी. नं० -14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुंड्री, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश
941.	जय भारत नेशनल पार्टी	मकान नं. 22/630, डी.डी.ए. फ्लैट, मदनगिरी, दिल्ली – 110062.
942.	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
943.	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-वी-1, समानता शक्ती भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
944.	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर, एम.के. बैग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाडा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
945.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 ।
946.	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
947.	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार
948.	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खड़हरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
949.	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
950.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।
951.	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416115 ।
952.	जय जनता पार्टी	वार्ड नं0 – 18, होल्डिंग नं0 – 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, बिहार-821101 ।
953.	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
954.	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं0 - 60, गली नं0 - 7, विके कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू पटियाला, पंजाब - 147001
955.	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023
956.	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुक्कापुरम, तह० आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्ध्रा प्रदेश, पिन-509652.
957.	जय मानवता पार्टी	मकान नं०-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
958.	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
959.	जय समाख्या आंध्रा पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत लिमिटेड, रायावरम मंडल, जिला – पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश – 533 214
960.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट – सादात, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
961.	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
962.	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोष्ठीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
963.	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट – छोटा सुजापुर, थाना – कलियाचाक, जिला – मालदा, पश्चिम बंगाल – 732206
964.	जम्मू एंड कश्मीर अवामी नेशनल काँफ्रेंस	3-आर सी क्वाटरर्स, प्रेस एन्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
965.	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर ।
966.	जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स काँफ्रेंस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
967.	जम्मू एंड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर
968.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रन्ट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर – 190006 जम्मू और कश्मीर ।
969.	जम्मू एंड कश्मीर अवामी लीग	बी – 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर – 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
970.	जम्मू एंड काश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुर्सू राजबाग, श्रीनगर – 190008, कश्मीर ।
971.	जम्मू एंड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
972.	जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर) ।	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर ।
973.	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्युलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर – 180004
974.	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर
975.	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव) ।	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू – 180001, जम्मू व कश्मीर
976.	जन आवाज पार्टी	झींझक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
977.	जन आदेश अक्षुणी सेना	मकान सं0 – 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
978.	जन अधिकार मंच	9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली – 110095.
979.	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
980.	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के0 हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार – 854301
981.	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर – 17, रोहिणी, दिल्ली – 110085
982.	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं0 – 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
983.	जन भावना पार्टी	सी – 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110092
984.	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली – 110054.
985.	जन कांग्रेस पार्टी	वार्ड नं0- 1, मकान नं0- 395, बोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट, असम- 785612
986.	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला – रामपुर – 244 901, उत्तर प्रदेश ।
987.	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर, पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
988.	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तीपुरम, फाफामऊ, आपोजिट – बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013
989.	जन जन पार्टी	गली सं0- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
990.	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
991.	जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, रॉची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर-744103 ।
992.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली नं० – 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
993.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: बुगाडा, तहसील – शामली, जिला – मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।
994.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फलाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद – 201302 उत्तर प्रदेश ।
995.	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110001.
996.	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश
997.	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226020, उत्तर प्रदेश ।
998.	जन साधारण पार्टी	मकान नं0 – 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, रॉची, झारखण्ड- 834001
999.	जन समानता पार्टी	बी – 125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
1000.	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
1001.	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली – 110094
1002.	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर – 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर – 201301, उत्तर प्रदेश ।
1003.	जन संघर्ष कांग्रेस	सी-48, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1004.	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली नं० - 2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत खिदास वार्ड, सागर, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1005.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।
1006.	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉम्प्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने, रायपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380022
1007.	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर, जिला - रामपुर, उत्तर
1008.	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भुक्कलौ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा - 125053 ।
1009.	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1010.	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं० 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार, मुरादाबाद - 244 001, उत्तर प्रदेश ।
1011.	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट -मीरगंज, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243504 ।
1012.	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं०.3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब-141010
1013.	जन शान्ति संगठन	एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा उत्तर प्रदेश - 281001.
1014.	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिन्हट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1015.	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वारानानगर, ता० - पनहाला, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.
1016.	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1017.	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1018.	जन हितकारी पार्टी	ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
1019.	जन जागृति पार्टी	डी.नं. 78-12-2, फ्लैट नं. 101-102, शान्ति रेसिडेन्सी, स्यामला नगर, राजमुंद्री, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्रा प्रदेश- 533103
1020.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नवेल रोड, बंगलौर - 560025, (कर्नाटक) ।
1021.	जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक - 572102
1022.	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- केंदुझरगढ़, थाना-टाउन, जिला- केन्दुझर, ओडिशा- 758001.
1023.	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वार्ड, कलम्मा बाजार, सन्दुर-583119, कर्नाटक ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1024.	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता – 700017, पश्चिम बंगाल ।
1025.	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.
1026.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई – 400072
1027.	जनधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं0 – 641, वार्ड नं0 – 21, कट्टयम म्यूनिसिपैलिटी, जिला – कट्टयम, केरल ।
1028.	जनधिपथ्या समक्षणा समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर, एलेप्पी – 688011, केरल ।
1029.	जनहित पक्ष	डी0 नं0 109, सेकेंड वार्ड, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी, कर्नाटक – 583101
1030.	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1031.	जननायाहा मुनेत्रा कजगम	नं0 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई – 600034, तमिलनाडु ।
1032.	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -500034
1033.	जनसेना पार्टी	मकान नं0 8-2-293/82/HH/91/A/201, हुडा हाईट्स, एम.एल.ए. कॉलोनी, रोड नं0 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500033
1034.	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्प्लेक्स, मेन रोड ओखला, जमिया नगर, नई दिल्ली – 110025
1035.	जनता पार्टी	ए-77, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली ।
1036.	जनता उदय पार्टी	860. गली नं0-4, संजय इन्कलेव, चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी, एन0 आई0 टी0 फरिदाबाद, हरियाणा
1037.	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1038.	जनता विकास पार्टी	अबधेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, ब्रिदिशा, (मध्य प्रदेश) ।
1039.	जनहित भारत पार्टी	730, अर्वा नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
1040.	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार ।
1041.	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद – महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज – 273303, उत्तर प्रदेश ।
1042.	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं0 – 41/3, गाँवदेवी रोड, पावणे गाँव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र – 400705
1043.	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111
1044.	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1045.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452, सेक्टर - 19, द्वारका नई दिल्ली ।
1046.	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट - 360002, (गुजरात) ।
1047.	जनमत पार्टी	सी2ए/107, पाकेट-16, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
1048.	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससवाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301
1049.	जननायक जनता पार्टी	एस.सी.ओ. 20, दूसरा तल, जिला व्यापार केन्द्र, हुडा मार्किट, सेक्टर- 56, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001
1050.	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा - काम्पलैक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1051.	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब ।
1052.	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 ।
1053.	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1054.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली - 110003.
1055.	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0 - 38, भू-तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फज़लपुर, दिल्ली - 110092
1056.	जनशोषित समाज पार्टी	ए-618/7, गली नं0-8, भजनपुरा, दिल्ली - 110053.
1057.	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं. 838, 839, 744, 745, थाना नं. 314, ग्राम- आबिगला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार- 823003
1058.	जनता दल राष्ट्रवादी	म0 न0 - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार - 801505
1059.	जनता क्रान्ति पार्टी	भरतविहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246701
1060.	जनता क्रांति पार्टी (राष्ट्रवादी)	न. 29, कान्तीपुरम पार्ट-2, शिवपुरी बिजली हाउस के पीछे, गणेशपुर, रहमानपुर, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1061.	जनता राज पार्टी	मकान नं0 43, ग्राम - तेजपुरा, पोस्ट - इन्दौर, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 233226
1062.	जनता राज विकास पार्टी	ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार-843114
1063.	जनता सरकार पार्टी	l-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर - 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
1064.	जनता सेना राजस्थान	मुकाम पोस्ट: वल्लभनगर, जिला - उदयपुर, राजस्थान - 313601
1065.	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी - 221002, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1066.	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	दूसरा तल, पी. मॉल, बी ब्लॉक, एकजीबिशन रोड, पटना बियरिंग, वार्ड नं.-6 (पुराना), 18 (नया), शीट नं0 - 30, सर्किल नं0 - 06, एस. एस. पी. - 832, 839, 1282, बिहार
1067.	जनतांत्रिक समता पार्टी	मकान नं. 100, वार्ड नं. 4, लुधुपारा, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206245
1068.	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मॉल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला- पटना, बिहार- 801503
1069.	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई- 400037, महाराष्ट्र
1070.	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1071.	जातिया समा समाजम पार्टी	1-24, दिन्नादेवारापड़ गांव, कुरनूल मण्डल, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518002
1072.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुहम	नं0 171, केशवईगुंटा, निकट – एस0 जी0 एस0 आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति – 517501 जिला – क्तिूर, आंध्र प्रदेश
1073.	जातिय महिला पार्टी	बी-922, एन.जी.ओ. कॉलोनी, वनास्थालिपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना- 500070
1074.	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं0 एल0 आई0 जी0, एच0 – 1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार – 802312.
1075.	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन—106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर—23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1076.	जेबामणि जनता	नं0 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
1077.	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा0 व पो0 आफिस झिलीमिली थाना – बरीकुल, जिला – बाकुंडा पश्चिम पश्चिम बंगाल – 722135
1078.	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं0 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर – 831005, झारखण्ड ।
1079.	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं0 – 36, दिनकर नगर, पो0 – हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना – जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।
1080.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची – 834001, झारखण्ड ।
1081.	झारखण्ड जनधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची – 834001, झारखण्ड ।
1082.	झारखण्ड जनधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, रांची – 834001, झारखण्ड ।
1083.	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची – 1 (झारखण्ड) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1084.	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	शुक्ला कॉलोनी, पोस्ट हिनू, राँची जिला, राँची – 834002. (झारखण्ड) ।
1085.	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड – 834002.
1086.	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान – रधुनाथपुर, पो. ऑ. – झाड़ग्राम, जिला – भिदनापुर – 721507, (पश्चिम बंगाल) ।
1087.	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट – राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1088.	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु0 स्टे0 – गोविन्दपुर, जिला – सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।
1089.	झारखण्ड वनांचल काँग्रेस	5, रातू रोड, राँची – 834005, झारखण्ड ।
1090.	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड
1091.	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- रांची, झारखण्ड- 835301
1092.	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश -229303 ।
1093.	ज्वाला दल	मकान संख्या – 247 बी, मु0 – जंगल तुलसीराम, पो0 – बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना – शाहपुर, जिला – गोरखपुर – 273014 उत्तर प्रदेश ।
1094.	कैविनयगेर मुन्नेत्र कड़गम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, क्लिपोक, चेन्नई – 600010 (तमिलनाडु) ।
1095.	कलींग नेसनाल फ्रंट	स्थान – परबील, पो0 ऑ0 – कन्दरपुर, जिला – कटक – 754100, ओडिशा
1096.	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट – 4, भूवनेश्वर – 751001, खुर्दा, उड़ीसा
1097.	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दुसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
1098.	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035 ।
1099.	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश –
1100.	कामराजार अदितनार कड़गम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकाइल - 629001 (तमिलनाडु) ।
1101.	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-वेलायुथा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई – 600028 (तमिलनाडु) ।
1102.	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गांव एवं पोस्ट- भंदानी, पुलिस स्टेशन- धुपगुड़ी, जिला- जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल- 735210.
1103.	कामगार समाज दल	मकान नं0 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला –आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1104.	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	विला रॉय भवन, गाँव – बिधानपल्ली, डाक घर – कदमताला, जिला – दार्जिलिंग – 734433, पश्चिम बंगाल ।
1105.	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक) ।
1106.	कन्नड़नाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली – 580030 कर्नाटक ।
1107.	कन्नड़ पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक) ।
1108.	कांशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
1109.	कर्मा पार्टी	शॉप नं० -1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर – 29, गुडगांव, हरियाणा – 122002
1110.	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रास, मालेश्वरम, बैंगलूरु-560055, कर्नाटक
1111.	कर्नाटक कर्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बैंगलोर, कर्नाटक – 560005
1112.	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं० 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रास, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक) ।
1113.	कर्नाटका मक्कला पक्ष	एच० ओ० नं० 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1114.	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं० -23, दूसरी “ए” मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560091
1115.	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैयथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.
1116.	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं० 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बैंगलुरु नॉर्थ ता०, बैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1117.	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर – 560098 (कर्नाटक)
1118.	कर्नाटका स्वभिमानि रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता एसेसमेंट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चिन्नादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1119.	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं० 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक – 591317
1120.	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम	नं. 6, II फ्लोर, छिक बाजार रोड, क्रास शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक) ।
1121.	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं० - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1122.	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं० 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर-560056 कर्नाटक

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1123.	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट(जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1124.	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701 ।
1125.	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024 ।
1126.	केरल काँग्रेस	67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ऑ0 एरनाकुलम, केरल ।
1127.	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल) ।
1128.	केरल काँग्रेस (जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कन्नयम, (केरल) ।
1129.	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कन्नयम मुनिसिपलिटि, कन्नयम, जिला- कन्नयम, केरल
1130.	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कन्नयम - 1, केरल ।
1131.	केरला जनपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, तिरुवनन्थापुरम - 695012.
1132.	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूड़ीकोल पो.ऑ, कडुथुरुप्पी केरल- 686604
1133.	केरला कामराज कांग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XII/342डी, नेय्याक्किारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695121.
1134.	केरला रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी - (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कोल्लम, केरल- 690521
1135.	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1136.	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1137.	खुन हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लैंसोनालेन, हाउस न. 32 एवं वार्ड न. 14 एवं होल्डिंग न. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1138.	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203
1139.	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1140.	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेंसिडेन्सी, संसकार रेंसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1141.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज व्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र ।
1142.	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलेंसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1143.	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश ।
1144.	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1145.	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खंडिया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001
1146.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1147.	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौंदा, ब्लॉक- काकोरी, जिला- जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1148.	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार -843320
1149.	किसान राज पार्टी	जूनियर एल.आई.जी. 358, विंध्यविहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1150.	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1151.	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0 - पतरिया, तह0 - गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
1152.	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निघासन, जिला -लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
1153.	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
1154.	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1155.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
1156.	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, क्लिंत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1157.	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची	नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1158.	काँगू नाडु मुनेत्र कड़गम	320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु ।
1159.	काँगुनाडु जननायगा काँची	“इराई अरुल” नं0 - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयम्बटूर, तमिलनाडु - 641004
1160.	काँगुनाडु मक्कल देसीय कच्ची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - इ कांकरायंप्पै तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007
1161.	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छंद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा-769015
1162.	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाडा, बालेनगर - 767001, उड़ीसा ।
1163.	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा) ।
1164.	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिशा ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1165.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.
1166.	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1167.	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं0 - 34, जोन नं0 - 8, तहसील - हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1168.	क्रान्ति परिषद्	म० नं० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
1169.	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर० एन० काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
1170.	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे० के० रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।
1171.	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं० 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1172.	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ० - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।
1173.	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1174.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
1175.	कृपा पार्टी	प्लॉट नं.452, खाता सं. 69, शांति भवन, ग्राम- पहाना, पो.ऑ- तिकनपुर, जी.पी.- रामचन्द्रपुर, पी.एस- पाटकुरा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-754153
1176.	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)
1177.	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेहा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
1178.	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
1179.	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	ए-160, दूसरी मंजिल, विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो स्तंभ संख्या 42 के पास, दिल्ली - 110092
1180.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं० 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1181.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
1182.	लक्ष्मण गणतान्त्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो० ओ० के० एम० रोड, झारसुगुड़ा-2, जिला - झारसुगुड़ा, ओडिशा ।
1183.	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी० - 113, विष्णु गार्डन, खयाला, नई दिल्ली - 110018.
1184.	लहिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।
1185.	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुड्डी-630003, तमिलनाडु।
1186.	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस-मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1187.	लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली- 110016.
1188.	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं.- 359, सैक्टर – 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1189.	लोक आवाज दल	होलिडिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना पटना – 800002, बिहार।
1190.	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1191.	लोक भारती	ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1192.	लोक चेतना दल	ग्राम – पकड़ी जलाल, पोस्ट – शुभंकरपुर, जिला – मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113
1193.	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1194.	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1195.	लोक गठबंधन पार्टी	नं० – बी – 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नज़दीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1196.	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रेन मार्केट, लोंगोवाल, जिला – संगरूर, पंजाब ।
1197.	लोक इंसफ पार्टी	बी –XXVII/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब – 141001 ।
1198.	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1199.	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।
1200.	लोक जनहित पार्टी	ग्राम - डालपुर सुल्तानपुर, पोस्ट – प्रेमपुर, जनपद – कन्नौज उत्तर प्रदेश ।
1201.	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1202.	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्क्लेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली ।
1203.	लोक परित्राण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-II महामन्दिर, जोधपुर – 342 010, राजस्थान।
1204.	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।
1205.	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट ऑफिस -सिरसा, जिला – इटावा उत्तर प्रदेश ।
1206.	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनियाविहार, दिल्ली- 110090
1207.	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना ।
1208.	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1209.	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली – 110014
1210.	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
1211.	लोक विकास मंच	शॉप नं० - 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, पास, सेक्टर – 21, गाँधीनगर, गुजरात ।
1212.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
1213.	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1214.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110 007.
1215.	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
1216.	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.
1217.	लोकसंग्राम	एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.
1218.	लोकसेना	63/एच०/एस०, मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल।
1219.	लोकशाही सत्ता पार्टी	“पंचवटी” बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील – बावला, जिला – अहमदाबाद, गुजरात -382220 ।
1220.	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक – रहुरी, जिला – अहमदनगर महाराष्ट्र – 413705
1221.	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1222.	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	खसरा नं. 21/9/1 व 10/2, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, टी.वी.एस एजेन्सी के सामने, नियर आई.बी.पी पेट्रोल पम्प, मंगोलपुरी, नई दिल्ली- 110083.
1223.	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1224.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
1225.	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेलबाग (बेतिया), थाना-थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438
1226.	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फ़िरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार-841231,
1227.	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं० - 107, केशर कालोनी हल्दौनी, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1228.	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001
1229.	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1230.	लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1231.	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1232.	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	मकान नं० ई-5, इन्दिरा गांधी मार्ग, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091
1233.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
1234.	लोकतांत्रिक समता दल	डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1235.	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी० के० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।
1236.	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेंट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1237.	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं० - 5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्कलेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1238.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई०-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1239.	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
1240.	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरौर, थाना - छबिलापुर, वाया - राजगीर, जिला- नालन्दा, बिहार- 803116
1241.	मानीला कॉंगु पेरावाई	नं० 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।
1242.	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं० -4872, प्लॉट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1243.	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।
1244.	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश
1245.	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं० 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1246.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
1247.	महाजन मंडली पार्टी	मं० नं० - 1-8-27/20, जी०एच०एम०सी० - 1483, स्ट्रीट नं०-12, चिक्कड़पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500020
1248.	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी० - ए० - 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर० टी० सी० बस स्टैंड के पास, कडपा - 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
1249.	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं० 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्दराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1250.	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1251.	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148 ।
1252.	महामुक्ति दल	ग्राम – उसरांव, डाक घर – इटार्ये, तहसील - मझियाहूँ, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1253.	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।
1254.	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ढाबा, सेक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1255.	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चितरजन पार्क, नई दिल्ली- 110019.
1256.	महानवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1257.	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं0 – 698, वार्ड नं0 – 14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1258.	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम – मांगवडगांव, तालुका – केज, जिला – बीड, महाराष्ट्र ।
1259.	महाराष्ट्र स्वभिमान पक्ष	सुखसागर रिएल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, सॉई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1260.	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदगज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1261.	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1262.	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.
1263.	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आबादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा -131001
1264.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
1265.	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लाक, सहकारा नगरा, बेंगलूर – 560092 कर्नाटक ।
1266.	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 – 63, उद्यान प्लाजा, उतरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1267.	महिला स्वभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं0 - 5, सरॉय करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125
1268.	मै ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
1269.	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय – मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1270.	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।
1271.	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो0-सरवट (वसन्त विहार), पो0-खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1272.	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1273.	मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशां-ई-घासिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1274.	मक्कल काँग्रेस वजहापदियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
1275.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. म्हु रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
1276.	मक्कल देसिय काची	137, कक्कन कॉलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600034
1277.	मक्कल कूटामैपु काची	न. 348ए, केप रोड, एक्कडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, एडालकुडी, कोन्नर पोस्ट, वैवीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.
1278.	मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कड़गम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई - 600118 तमिलनाडु।
1279.	मक्कल मसोथा काँची	नं. 480, आर.के.वी. कॉम्पाउन्ड, थेथाकुडी, कथीरूपु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागाप्पेनम- जिला, तमिलनाडु- 609109
1280.	मक्कल नलवाजहवुक काँची	फ्लैट नं० - जी3, वेटर्री फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1281.	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
1282.	मक्कल नीति काँची-इंडिया	नं० 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लेक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला - पेराम्बलुर, तमिलनाडु - 621220
1283.	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं० 41, पुराना नं० 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।
1284.	मक्कल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069
1285.	मक्कलाच्ची कच्ची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412
1286.	मक्कलाच्ची मुनेत्र कड़गम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126
1287.	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साई आपर्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर कॉलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72
1288.	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।
1289.	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं० - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400003
1290.	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं० 53, सिरपुर, जिला-धुनिया (धुले), महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1291.	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1292.	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
1293.	मानव कल्याण मंच	सा० 6/186, एम० एक्स – 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1294.	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1295.	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं०-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1296.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
1297.	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, ब्रिक्स चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1298.	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001
1299.	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट – अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1300.	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1301.	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येंगबाम लैकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल – 795010 मणिपुर।
1302.	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेन्ट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1303.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1304.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी(डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपड़ा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
1305.	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै – 625 001 तमिल नाडु ।
1306.	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला – शिवगंगई, तमिलनाडु - 630702
1307.	मनीथानेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1308.	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1309.	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितीय तल, स्वागत कॉम्प्लेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात – 382443
1310.	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नदी, तहसील- मड़ियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1311.	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1312.	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं० – 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला – लातूर, महाराष्ट्र - 413512

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1313.	मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	'त्यागम, ' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
1314.	मरूमलार्ची जनता काची	62/5, मिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पम्पिरेडुडीप्पी पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1315.	मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	सैदपुर, पटना-800004 (बिहार)।
1316.	मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन	115-एम.एल.ए. फ्लैट, वीरचंद पटेल पथ, पटना-800004, (बिहार)।
1317.	मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड- पोस्ट ऑफिस, थिरु - जिला, केरल- 680301.
1318.	मार्क्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251002
1319.	मर्यादी दल	ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
1320.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
1321.	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।
1322.	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गढ़ी अशरफ खान, जसमई रोड, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश
1323.	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1324.	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लॉट-ई/124, फेज-1, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015
1325.	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं० – 51, ओल्ड नं० – 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600013
1326.	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान ।
1327.	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1328.	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना- अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1329.	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं० – 142, गाँव – इस्लामपुर, पोस्ट – साऊथ सिटी-II, गुडगाँव, गुडगाँव, हरियाणा – 122018
1330.	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तैलियरगंज, जनपद – इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1331.	एम जी आर थॉडरकल काचची	नं. 18/33ए, वेल्लई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तमिल नाडु।
1332.	मिहिर सेना	नागर्स च्वाइस, एस-47, साउथ साइड, जी०टी० रोड, जी.टी. रोड, लाल कुंआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1333.	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रो रोड काम्प्लैक्स, मंमिनपुरा, नागपुर – 440018, महाराष्ट्र।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1334.	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203
1335.	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट – आसी, जिला – दरभंगा, बिहार – 847203
1336.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स- आइजॉल, मिजोरम-796 001 ।
1337.	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1338.	मोमिन कान्फेंस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।
1339.	मूल भारती (एस) पार्टी	मं० नं० 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहलासिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।
1340.	मूलनिवासी समाज पार्टी	गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।
1341.	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।
1342.	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं० – 143, कुर्रे के बाद बना नं० - 143/3, ग्राम- जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1343.	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1344.	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1345.	मुंदडुगु प्रजा पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावन्या अपार्टमेन्ट्स, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपूरम, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1346.	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1347.	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
1348.	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
1349.	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुड़ी, तमिलनाडु- 628002
1350.	नाम तमिलार काँची	द्वार नं० 7, प्लाट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, , चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु ।
1351.	नागा नेशनल पार्टी	हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर) (मणिपुर) ।
1352.	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० – 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1353.	नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062
1354.	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
1355.	नागरिक एकता पार्टी	19/1168, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1356.	नागरिक सेवा पार्टी(आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं० - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1357.	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1358.	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेन्टर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1359.	नकी भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1360.	नलवजहिककडगम	कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै च्छी स्ट्रीट, चिन्तदपत, चेन्नई, तमिलनाडु- तमिलनाडु- 600002
1361.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनीपिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु) ।
1362.	नमाधू मक्कल काँची	नं० 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तमिलनाडु ।
1363.	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1364.	नम्मा कांग्रेस	नं० 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर-560087 कर्नाटक।
1365.	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
1366.	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, द्विवेक विहार कॉलोनी, फरूखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1367.	नेशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं० - 7, एस० ए० एस० नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1368.	नेशनल अमन पार्टी	मो० - पंजाबियान, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246762
1369.	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली - 110094
1370.	नेशनल आवामी यूनाईटेड पार्टी	मकान नं.- 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1371.	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनोंरिटीज़ क्रांति दल	1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान - 334003
1372.	नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबियान-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1373.	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400097
1374.	नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं० - 9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700029
1375.	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बलिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), राजामपेट मण्डल, कडापा - जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1376.	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव - मौलानीपुर बाजार, पोस्ट - तरवाँ, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1377.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल) ।
1378.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1379.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1380.	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रन्ट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
1381.	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं०-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक ।
1382.	नेशनल फेडरल पार्टी	म. नं० 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, बसंत गाँव, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
1383.	नेशनल फिफ्टी फिफ्टी फ्रंट	मकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट- शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1384.	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1385.	नेशनल जागरण पार्टी	मकान संख्या-14, मौंटेशरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800001.
1386.	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महरौली रोड, गुडगांव, हरियाणा ।
1387.	नेशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030
1388.	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चेंच्या वाली ढाणी मु० पो० –खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर-303103 राजस्थान ।
1389.	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं० -385, खाता नं० - 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1390.	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110092 ।
1391.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।
1392.	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम – जिसौरी, डाकखाना – मुंडाली, जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1393.	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
1394.	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं० – 1-236, गाँव – गंगावरम, मंडल – गुरजाल, जिला – गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1395.	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं० 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु) ।
1396.	नेशनल पार्टी	रुदेन बर्दोयू-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
1397.	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश -212218
1398.	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरूणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1399.	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
1400.	नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लौर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्कलेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1401.	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1402.	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं०-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001
1403.	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस	एम०आई०एस०एफ०ए, कोडुवली (पी० ओ०), कोझिकोड डी टी., केरल-673572.
1404.	नैशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
1405.	नेशनल स्टुडेंट्स पार्टी	16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु) ।
1406.	नेशनल टार्गेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.
1407.	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड ऑफिस-सरोजनगर, पोस्ट ऑफिस-कालगीगंज, वाया/थाना-वाया/थाना-कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1408.	नैशनल युनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001
1409.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान ।
1410.	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहेरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर – 641603, तमिलनाडु
1411.	नेशनल वोमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरूर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500097
1412.	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कॉलानी, भीलखेड़ी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1413.	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेंट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1414.	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप हॉउस, गाब्रियल कम्पाउन्ड, पानविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तमिलनाडु ।
1415.	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273404
1416.	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टोंक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1417.	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	19/7/130-ए, थानापाड़ा रोड, पोस्ट- दिनहाटा, जिला- कूचबिहार, पश्चिम बंगाल।
1418.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिथि	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्धा प्रदेश ।
1419.	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेंट्स, ईस्ट स्ट्रीट, स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।
1420.	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1421.	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला – जगतनगर, कस्बा व पोस्ट – भोगाँव, जिला – मेनपुरी, प्रदेश – 205262 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1422.	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी - 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221001
1423.	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-घुघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225302 ।
1424.	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्वे सं०-627, भैरव गुहा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।
1425.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक) ।
1426.	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-वाडा (पी व एम) यूतूनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1427.	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापर्थी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1428.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
1429.	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
1430.	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्लापुड़ी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1431.	नवतारम पार्टी	डोर नं० 26-37, सुब्बैयाथोटा, विलकलुरीपेट, जिला - गुंटूर, आंध्र प्रदेश - 522616
1432.	नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सहयाद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - महाराष्ट्र - 410401
1433.	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्वाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176027
1434.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
1435.	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1436.	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।
1437.	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112
1438.	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्टूर रुरल मण्डल, जिला-गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश ।
1439.	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1440.	नवयुग पार्टी	1-ग्राउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017
1441.	नया भारत पार्टी	8- बापु सब्जी मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान - 306902
1442.	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
1443.	नेहरु जनहित काँग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1444.	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1445.	नेताजी आदर्श पार्टी	298, कुहियानी, 28- थोडुपुझा, इड्डुकी जिला, केरल- 685584
1446.	नेताजी जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1447.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजहाँपुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।
1448.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
1449.	न्यू ऑल इण्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ।
1450.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए. करोलबाग, नई दिल्ली-110005 ।
1451.	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु- 641025
1452.	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1453.	न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी	नं. 4, द्वितीय तल, द्वितीय क्रास, डी.आर.बेन्द्रे लेआउट, गुब्बी क्रॉस, 350/1/4, कोठानूर, बैंगलोर, कर्नाटक- 560077
1454.	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15 /16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संधोम, चेन्नई-600004 तमिलनाडु ।
1455.	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1456.	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतधर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1457.	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०-एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1458.	न्यूज कांग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र ।
1459.	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सलिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1460.	निर्भय भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1461.	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1462.	निर्जातिता समाज बिप्लबी पार्टी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया-741502 पश्चिम बंगाल ।
1463.	निर्मल इण्डिया पार्टी	सा० 6 /8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहड़िया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1464.	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1465.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्यवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
1466.	निज गोयन्कर रिवलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1467.	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1468.	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1469.	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मावली मावदतबाकी, डांग नाँगपाथा, शिलाँग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1470.	ओडिशा जन मोर्चा	प्लॉट सं0 -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर-751002, ओडिशा
1471.	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, बुनदामल, पोस्ट ऑफिस- बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसूगुड़ा, जिला- झारसूगुड़ा, ओडिशा- 768202.
1472.	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।
1473.	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1474.	उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।
1475.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
1476.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
1477.	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा) ।
1478.	पचाई तमिझागम कॉची	12/143, इदिंथाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104
1479.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II 56, मदनगौर, दिल्ली-110 062 ।
1480.	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील- नदोती, जिला- करुली, राजस्थान- 322215
1481.	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाज़ार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1482.	परम दिग्विजय दल	मकान न0 – 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1483.	पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबौंग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.
1484.	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ -202002, उत्तर प्रदेश ।
1485.	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश- 473551

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1486.	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सडक, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।
1487.	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1488.	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
1489.	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1490.	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं० 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा-768001
1491.	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनत्थन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
1492.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
1493.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं० – 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर – 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1494.	पाशुमपोन मक्कल कड़गम	नं० – 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु- 600020.
1495.	पेट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।
1496.	पेट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1497.	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो०- बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1498.	पीजेन्ट्स एण्ड वर्क्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुड़े निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई
1499.	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1500.	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
1501.	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुधजेंधी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगप्पैर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037
1502.	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, नैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1503.	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान – 342012
1504.	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रुड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1505.	पीपल्स पार्टी ऑफ लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनद –पी.ऑ., नेदुमंगाडु, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 690521
1506.	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेश्रीविहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उड़ीसा ।
1507.	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वाई नं० 2, मलोट रोड, गीद्दरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-152101.
1508.	पीपल्स युनियन पार्टी	शॉप नं. 24+25, सुन्दर संकुल, धायरी, - नरहे मेन रोड, ग्राम- धायरी, तालुका- हवेली, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 411041

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1509.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बॉकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल ।
1510.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-‘जे’, अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
1511.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18, (केरल) ।
1512.	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली-110030 ।
1513.	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) – 411006
1514.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/22, योजना-3, सैक्टर-9, आवास विकास कॉलोनी, झूंसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211 019.
1515.	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल, तालुका एवं जिला- भरुच, गुजरात- 392001
1516.	पीपुल्स पावर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र
1517.	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1518.	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टर्किज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।
1519.	पीपुल्स रिसर्जेंस एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोमद्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ऑ/पी.एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1520.	पेरुन्थालाईवर मक्कल काँची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1521.	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1522.	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील- भोगाँव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
1523.	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	मढ़रिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ –491001
1524.	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1525.	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहाँ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1526.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी० ओ० कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम) ।
1527.	पॉलिटिकल एसोशियल और ऐक्यूरेट काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं० 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टनम, जिला – विज़ाग, आन्ध्र प्रदेश – 531116
1528.	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश- 209601

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1529.	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं० – 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1530.	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं० 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
1531.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल ।
1532.	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं० – 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1533.	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम०डी०-26-17/6, एस०आर०टी०आर०एम०सी०एच० चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
1534.	प्रगतिशील जनता पार्टी	'सत्या प्रमोद', अभिमन्यु नगर, बेली रोड, पोस्ट-दानापुर, थाना-रूपसपुर, दानापुर, पटना, बिहार-801503
1535.	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो० ओ० - अर्जुनपुर जिला – नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
1536.	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं०-605/334, वार्ड नं०-44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना –स्विविल लाईन्स, जिला –गया, बिहार।
1537.	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।
1538.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
1539.	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1540.	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1541.	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील- चांदुरबाजार, जिला- अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1542.	प्रजा भारथ पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश) ।
1543.	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1544.	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070
1545.	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाड़ा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1546.	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मेन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) नंनजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बेंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक- 562106
1547.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
1548.	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड, हापुड़ – 245101 उत्तर प्रदेश ।
1549.	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. – घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500098

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1550.	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3 -1सी, रामचन्द्रापुरम ग्राम, ताडा (पी), साथयावेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1551.	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
1552.	प्रजा रैयता राज्य पक्षा	मकान सं० - 937, मंजूनाथा नगर, केन्गेरी रोड, तवाराकेरे, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक – 562130
1553.	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं.11, श्रीकृष्ण नगर, घितलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1554.	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड – 246174
1555.	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु०-शिलेश्वर, पो०-भादस, ता०-मुलशी, जिला – पूणे – 412108, महाराष्ट्र
1556.	प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी	ग्राम व पोस्ट – परासी, तहसील – मनगवा, जिला – रीवा मध्य प्रदेश - 486111
1557.	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं० – 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट – यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला – नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1558.	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन – 40, सरॉयपिट्थू ऑशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद – सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
1559.	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौज़दार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड़, अहमदाबाद-382345 गुजरात ।
1560.	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ, छत्तीसगढ
1561.	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ़ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1562.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
1563.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार ।
1564.	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील – आस्टा, जिला – सिहोर, मध्य प्रदेश।
1565.	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम – समयपुर, दिल्ली – 110042 ।
1566.	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011
1567.	प्रेम जनता दल	म. नं० – 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1568.	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाड़ा, वाया- बालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा ।
1569.	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1570.	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच० आई० जी०, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1571.	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम-किरतपुर, पोस्ट-पिंडरा, तहसील-पिंडरा, थाना-थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1572.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट – सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
1573.	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली – 110084 ।
1574.	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के के पास, थाना – विजयविहार, दिल्ली – 110086 ।
1575.	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए-37 (खसरा न.2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074
1576.	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1577.	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1578.	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014
1579.	पब्लिक पार्टी	“इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।
1580.	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, डब्लु.ई.ए, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
1581.	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं० – 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110 ।
1582.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्ची	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रल नगर, पुडुचेरी-605013.
1583.	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मटौर सेक्टर-70, एस.ए.एस नगर, सिडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070
1584.	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोत, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।
1585.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरुणविहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश) ।
1586.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
1587.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब) ।
1588.	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।
1589.	पुरातचिकारा थोझिललार काँची	नं० 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल नाडु ।
1590.	पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम-सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1591.	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085.
1592.	पूर्वांचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1593.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1594.	पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-1, फेस-1, सेक्टर-12, द्वारका नई दिल्ली-110078
1595.	पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट – सिकरारा, जनपद – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1596.	पूर्वांचल महापंचायत	नं0 - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1597.	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बकशीपुर, उत्तर पावर हाउस के नजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1598.	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली- 110037.
1599.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु) ।
1600.	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई – 600 002 (तमिलनाडु) ।
1601.	पिरमिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1602.	कौमी एकता दल	भवन सं० – 228, मो० – अस्तुपुरा, तहसील – सदर, जनपद – मऊ, उत्तर प्रदेश ।
1603.	कौमी जनता दल	9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
1604.	रैडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनगिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना -501505
1605.	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
1606.	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1607.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान ।
1608.	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
1609.	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1610.	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, स्मिल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोड़पुर, राजस्थान- 342001
1611.	राजस्थान विकास पार्टी	43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान) ।
1612.	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा
1613.	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.
1614.	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1615.	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204 - शाही भवन, डाक बंगला, पटना – 800001, बिहार ।
1616.	राज्य नौजवान शक्ति पार्टी	गाँधीनगर पुलिस थाना के पास, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
1617.	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं.10-4-ए /390, एड्डागोह, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1618.	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआउट, हैबल, केम्पापुरा, बंगलोर – 560024, कर्नाटक।
1619.	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनक्की, गडग-582101, कर्नाटक।
1620.	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012
1621.	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर – 302012, राजस्थान।
1622.	राष्ट्र हिथ पार्टी	706/707 एम.के.हार्ड्ट्स सीएचएस, बीविंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड ऑफिस के सामने, एस.जी. बार्व मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र।
1623.	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माढ, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1624.	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024।
1625.	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001.बिहार।
1626.	राष्ट्र शक्ति	1112, एस/5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा।
1627.	राष्ट्र वाहिनी पार्टी	412, एस.के.श्याम हार्ड्ट्स, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452016
1628.	राष्ट्र विकास झुंबेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोढेरा क्रॉस रोड, मेहसाणा, गुजरात - 384002
1629.	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0 - 177-ई/2, वार्ड नं0 -2, महरौली, नई दिल्ली-110030
1630.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
1631.	राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी	मौहल्ला – चिरंजीलाल, कस्बा – अफजलगढ़, तहसील – धामपुर, जनपद – बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246722
1632.	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगारिया का खेड़ा, पो0आ0-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1633.	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
1634.	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.
1635.	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी (इंडिया)	35बी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1636.	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1637.	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पो0आ0-धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1638.	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर – ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1639.	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	रा, मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1640.	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर
1641.	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0 – 1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1642.	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर वड़ी, मोटामाढ़, एट व पो.ऑ- वालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310
1643.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
1644.	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1645.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली – 110085
1646.	राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एम. सी. यूनिट नं0 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021
1647.	राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हलगंज, तप्पा कस्बा, परगना – चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
1648.	राष्ट्रवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-
1649.	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेन्ट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
1650.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
1651.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली – 110032.
1652.	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।-226007
1653.	राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी	प्लॉट नं0 - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1654.	राष्ट्रवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुज़फ्फरपुर, बिहार- 842004
1655.	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना- खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
1656.	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लाट नं0-4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं0- 490 020
1657.	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र – 400053
1658.	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
1659.	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1660.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1661.	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता – 700 007
1662.	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली – 110041
1663.	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.
1664.	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1665.	राष्ट्रीय अंत्योदय कॉंग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर – 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र – 400709
1666.	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं० 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1667.	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक – 124001, हरियाणा ।
1668.	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
1669.	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश ।
1670.	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा ।
1671.	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
1672.	राष्ट्रीय बहुजन कॉंग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
1673.	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली -110034.
1674.	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम – दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मेडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1675.	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे – 411031 (महाराष्ट्र) ।
1676.	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
1677.	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	86 – बी, डी.डी.ए. फ्लैट्स, मस्जिद मोठ, फेज – II, ग्रेटर कैलाश, भाग – III, नई दिल्ली – 110 048 ।
1678.	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं० – 14, ग्राम व पोस्ट – बेहटा, विकास खण्ड – मसौली, थाना – सफदरगंज, जिला – बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
1679.	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहड़ा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207 ।
1680.	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं० – 144, गांव-मांगावास, डाकखाना-पलड़ा, तहसील-बैरी, जिला-झज्जर, हरियाणा

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1681.	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी.रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1682.	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-II, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
1683.	राष्ट्रीय काँग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं० 45, मोहल्ला – बलदेवपुरी, जनपद – मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
1684.	राष्ट्रीय काँग्रेस (जे०) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट – हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1685.	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वार्ड नं.- 69, दुर्गा अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन- 1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
1686.	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस , 3- टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
1687.	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं० – 397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी(रामगंज), थाना – पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
1688.	राष्ट्रीय देशज पार्टी	टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ़ॉक्स स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
1689.	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) ।
1690.	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
1691.	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं० 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं० 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1692.	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1693.	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा ।
1694.	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश– 224149 ।
1695.	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – 462001, मध्य प्रदेश ।
1696.	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं० 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार – 802101 ।
1697.	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर – 495223, छत्तीसगढ़।
1698.	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सivil लाईन्स , रुड़की, जनपद – हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
1699.	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम – चकरेशानपुर (केमराला)पो०आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1700.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्टोला, आगरा (उत्तर प्रदेश) ।
1701.	राष्ट्रीय हिन्द सेना	158/1, देव नगर, जिला-फिरोजाबाद – 283203 उत्तर प्रदेश ।
1702.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली – 580 030, कर्नाटक ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1703.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
1704.	राष्ट्रीय हित काँग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005.
1705.	राष्ट्रीय इन्डीपेन्डेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार – 758001 ओड़िसा ।
1706.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश ।
1707.	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाटॉड पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, पटना, बिहार - 800020
1708.	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, स्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब – 151204
1709.	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड)	मकान नं० – 710, नया पूर्वा, छिन्नी कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला – रायबरेली, उत्तर प्रदेश ।
1710.	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003
1711.	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
1712.	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	ग्राम- नवादा खुर्द, पोस्ट- सहदुल्लहपुर, भाया- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार
1713.	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी – 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली – 110095.
1714.	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेड़ा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान- 325205
1715.	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1716.	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लाट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110
1717.	राष्ट्रीय जन समानतावादी	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019
1718.	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड, खुरजा, जिला – बुलन्दशहर – 203131, उत्तर प्रदेश ।
1719.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव – नांगला जमालपुर, पोस्ट- पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1720.	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1721.	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली – 45.
1722.	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव – कृष्णापुर, पोस्ट – धोपाहाट कृष्णापुर, जिला – 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।
1723.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं० 567 (38) , 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर – 560054 , (कर्नाटक) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1724.	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो० आफिस व पुलिस स्टेशन – सोनारपुर, कोलकाता – 700150, पश्चिम बंगाल ।
1725.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतर्राखरल, पो० ऑ० अतर्रा जिला-बाँदा, उत्तर प्रदेश ।
1726.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर – 17, पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।
1727.	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109- एफ, नजीम पुरा, भूइ, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001
1728.	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट – गोपालगंज, बिहार ।
1729.	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम – बभने आलमनगर, पोस्ट – प्रतापपुर, जिला – चतरा, झारखण्ड ।
1730.	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच – 10 (आर०), आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
1731.	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम – फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1732.	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०- 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
1733.	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच –II – 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ – 226012, उत्तर प्रदेश ।
1734.	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
1735.	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम – बिर्जापुर, पोस्ट – अडूकी, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश।
1736.	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़- 494226.
1737.	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमरा नं-101, प्रथम तल, ग्राम- राजोष्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843302
1738.	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबग्गा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
1739.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना – 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1740.	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड – 834001
1741.	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
1742.	राष्ट्रीय जनसेवा - सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं०- 23, बल्लभगढ़ – 121004, जिला – फरीदाबाद, हरियाणा ।
1743.	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव – बिंजहोल, तहसील और जिला – पानीपत, हरियाणा – 132103.
1744.	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
1745.	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ – 230001, उत्तर प्रदेश ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1746.	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008
1747.	राष्ट्रीय जनता काँग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली – 110049.
1748.	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर – 115, नोएडा, जिला – गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ।
1749.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्याविहार मार्ग, सेक्टर – IX, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1750.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा – बलिया, उत्तर प्रदेश ।
1751.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
1752.	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर – 208021, उत्तर प्रदेश ।
1753.	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- ढेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
1754.	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ – 226016.
1755.	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007
1756.	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा ।
1757.	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद – 380006, गुजरात।
1758.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
1759.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय – पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना – 800023 (बिहार)।
1760.	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट – सुल्तानपुर, तहसील – नीलोखेड़ी, हरियाणा – 132116.
1761.	राष्ट्रीय किसान काँग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र ।
1762.	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्लू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
1763.	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पो-धानौधा, तहसील व जिला – महेन्द्रगढ़, (हरियाणा) ।
1764.	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला – पटेगंज कांठ, पोस्ट – कांठ, तहसील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश – 244501
1765.	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	ग्राम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
1766.	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर – 361001, (गुजरात) ।
1767.	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रजापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा – 207001, उत्तर प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1768.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली – 110043.
1769.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005.
1770.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं०-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1771.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० – 27 के पास, बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर – 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
1772.	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसड़ी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
1773.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम – 12, मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।
1774.	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं० – 630, ग्राम- पसौंडा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1775.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एकजीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
1776.	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला – नगला काशी तहसील – धौलाना, जिला – हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245301
1777.	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1778.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21- कस्तूरवा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
1779.	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं० – 73/382, मोहल्ला – वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
1780.	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं० - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं० - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुदुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
1781.	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
1782.	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव – छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
1783.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	प्लॉट नं. 26-27, आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी, निकट शीतला माता मंदिर, मानासर, जिला- नागौर, राजस्थान- 341001
1784.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी	म०नं० 411, कृष्णबिहारी नगर, बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा, जिला व तहसील – फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
1785.	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015
1786.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) ।
1787.	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं० -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई – 400 051, महाराष्ट्र ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1788.	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, झिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
1789.	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट-बिजनौर, जिला- जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1790.	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव – अड्डा छिनपारई, पोस्ट – छिनपारई, नौझील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
1791.	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. वी. रोड । विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र ।
1792.	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश ।
1793.	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्वाले नगर, रामपुर रोड, सी.वी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश-243502
1794.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली - 110009
1795.	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
1796.	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं0-1485, किदवई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211006.
1797.	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ऑ- ढवारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242 ।
1798.	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं – 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110 035.
1799.	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छाँकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान ।
1800.	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला – सैय्यदवाड़ा, कस्बा – मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1801.	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं0 57, बुरारी रोड, दिल्ली – 110009.
1802.	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के समाने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
1803.	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी	अशोक ऐवन्यू, गांव – लालगंज, थाना – सदर, जिला – रौंछी , झारखण्ड।
1804.	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं0 – 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला – मोहन प्ही, जिला – गुडगाँव, हरियाणा – 122050.
1805.	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढ़ी, नई दिल्ली- 110068
1806.	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी0डी0ए0 फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
1807.	राष्ट्रीय नव निर्माण भारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.बी., लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
1808.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी – 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली – 110007.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1809.	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सैक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1810.	राष्ट्रीय पॉवर पार्टी	101, आश्रम एवन्यू, बी/एच, कोचरब आश्रम, पालडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
1811.	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला - नवादा - 805 110, बिहार।
1812.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.
1813.	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राब स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
1814.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
1815.	राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
1816.	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर - 22ए, चंडीगढ़।
1817.	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011
1818.	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
1819.	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110
1820.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1821.	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मनोहरपुरा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
1822.	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्किट दुन्दहारा, गुडगाँव - 122016, हरियाणा।
1823.	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
1824.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
1825.	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 - रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई - 400001, महाराष्ट्र।
1826.	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम - बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो - जीयनपुर, जनपद - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1827.	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1828.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात।
1829.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
1830.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी	बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1831.	राष्ट्रीयसमाजवादी स्वभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ -490006
1832.	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली - 110091.
1833.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, काशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
1834.	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
1835.	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 - 27, ग्राम - वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट - सिंघाड़ा, जिला - वैशाली, बिहार- 800011
1836.	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004
1837.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
1838.	राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ऑपोजिट तनवीर पेट्रोल पम्प, पुरलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
1839.	राष्ट्रीय संगम दल	7बी, ख्योरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002
1840.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
1841.	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, वनारसे निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र ।
1842.	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625 ।
1843.	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
1844.	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।
1845.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं0-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097, महाराष्ट्र ।
1846.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो0 - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
1847.	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौंदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1848.	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025
1849.	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001, (उत्तर प्रदेश)।
1850.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगनविहार, दिल्ली-110051
1851.	राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1852.	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40, 40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001
1853.	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
1854.	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव – लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर – बलदेव रोड, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश
1855.	राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1856.	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
1857.	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।
1858.	राष्ट्रीय उन्नतिशील दल	एफ. 167, चांद बाग कॉलोनी, पो.-गोकुलपुरी, दिल्ली - 110094
1859.	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1860.	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 – 525(नया), 204(पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला – प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
1861.	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-मिपराँली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
1862.	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लॉट सं० 58, न्यू कालोनी, तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1863.	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
1864.	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा
1865.	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर रैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
1866.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045
1867.	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश
1868.	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028
1869.	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
1870.	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महरौली, नई दिल्ली- 110076.
1871.	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश
1872.	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमांदेवी पेंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला – गंजम, ओडिसा-760009
1873.	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं० 73, शान्तिनिकेतनम, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1874.	राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
1875.	रायलसीमा काँग्रेस पार्टी	5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश – 516267
1876.	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश – 518003
1877.	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्वातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
1878.	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाज़ार, वराछा रोड, सूरत, सूरत, गुजरात – 395006 ।
1879.	रिज़नल डेमोक्रेटिक सेकुलर कांग्रेस	लोअर लम्पेरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलॉंग - 793004, मेघालय ।
1880.	रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस	प्लॉट सं० - 04, गली सं०-1, वार्ड सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण ।
1881.	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र – 400606
1882.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड ।
1883.	रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)	ईसा हटमेंटस, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
1884.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डींग नं.245, पी डिमैलो रोड, रोल नं.1393, म्यूनिसीपल को-आपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001
1885.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटूर-413512(महाराष्ट्र) ।
1886.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	ए, 703, सूर्यकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लॉट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।
1887.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलूर, कर्नाटक- 560037.
1888.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, स्किन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1889.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवड़ावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
1890.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1891.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी नं. 2618, वार्ड नं. टुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताडोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
1892.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
1893.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय काम्पलेक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश) ।
1894.	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरुली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।
1895.	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं० -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, ढोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
1896.	रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल ।
1897.	रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115, बी-ब्लॉक, सन्तनगर, बुराडी, दिल्ली-110084
1898.	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर, पंजाब - 144022 ।
1899.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड-695014
1900.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेंकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)
1901.	राईट पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया, पश्चिम बंगाल - 741126
1902.	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
1903.	सब समान पार्टी	मकान सं० - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1904.	सबबथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
1905.	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
1906.	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चिनहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201 ।
1907.	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1908.	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड़, उत्तर प्रदेश।
1909.	सबसे बड़ी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
1910.	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1911.	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।
1912.	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018, (उत्तर प्रदेश) ।
1913.	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवाडिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड़, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
1914.	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
1915.	शक्ति भारत देशम	सं. 2/58, वैरावन चौ स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001, तमिलनाडु।
1916.	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वैलर्स के सामने, असीलाम्मे, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
1917.	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
1918.	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001
1919.	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज़ाकरुर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
1920.	समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारड्डीगुडा, अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1921.	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ वाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्कलेव, सेक्टर – 125, मोहाली, पंजाब
1922.	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब – 146001
1923.	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
1924.	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
1925.	समाज सेवक पार्टी	568ख/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1926.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा) ।
1927.	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश ।
1928.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मर्कट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला- गोपालगंज (बिहार) ।
1929.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
1930.	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी0 रोड0, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1931.	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
1932.	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
1933.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
1934.	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	नरेन्द्र निकेतन, पुलिस मुख्यालय के पीछे, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
1935.	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2, कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।
1936.	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1937.	समाजवादी समाज पार्टी	वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
1938.	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माड़ा, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886.
1939.	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
1940.	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
1941.	सामान्या मक्कल नाला काची	डोर नं0 298ए, कृष्णागिरी, मेन रोड, उत्थानगरई, कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु -635207.
1942.	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं0 - 17, मकान नं0 - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
1943.	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चायल, जनपद - कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1944.	समता क्रान्ति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
1945.	समता पार्टी	220, क्लिभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
1946.	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1947.	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051
1948.	समाथुवा मक्कल कझगम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, ध्रुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019
1949.	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
1950.	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1951.	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लाट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
1952.	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जैड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
1953.	सम्पूर्ण क्रान्ति दल	ग्राम - खजूरी कलाँ, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोराँव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1954.	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.न. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223103
1955.	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा – घामडौज, तहसील – सोहना, जिला – गुड़गाँव, हरियाणा ।
1956.	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
1957.	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लाट नं0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
1958.	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं0 - 480, गाँव – लिसाड़ी, तहसील व जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
1959.	समता समाजवादी कॉंग्रेस पार्टी	के – 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
1960.	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, वार्ड न0 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
1961.	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
1962.	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु – 602105
1963.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु ।
1964.	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम – जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड – झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट – बस स्टाप, जनपद – गोण्डा, उत्तर
1965.	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212104
1966.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
1967.	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1968.	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी0 एम0 रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001
1969.	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0 – 44, ग्राम – ढुका, पोस्ट – अखा, तहसील – आँवला, जिला – बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
1970.	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्पलेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र – 421601

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1971.	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093
1972.	संख्यानपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
1973.	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला – यवतमाल महाराष्ट्र - 445002
1974.	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी- 205, बस्ती खवाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली- 110002
1975.	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश ।
1976.	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम – सारसौल, पोस्ट ऑफिस – मुनी, थाना – अरनियों, तहसील – खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
1977.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
1978.	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
1979.	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- फ़ी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135 ।
1980.	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
1981.	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
1982.	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायॉ रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवायॉ, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
1983.	सर्व विकास पार्टी	गाँव – प्रतीत नगर, एन0 एच0 – 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
1984.	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बॉस, सुनार वाली गली, ग्राम – घिठोरनी, नई दिल्ली - 110030
1985.	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा ।
1986.	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिल्लिरी (पोस्ट), शिमोगा(तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।
1987.	सर्व समाज कल्याण पार्टी	बिजराज भवन, ग्राम – सिंघारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1988.	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला -फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
1989.	सर्व साँझी पार्टी	सागर हास्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्सी खवाजू, होशियारपुर, पंजाब- 146001
1990.	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1991.	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील – नजूल, जिला – भापाल – 462023, मध्य प्रदेश
1992.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारुलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
1993.	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
1994.	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार – 800023
1995.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार-800020
1996.	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट ऑफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला- गुरुदासपुर, -143511 पंजाब।
1997.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1998.	सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
1999.	सर्वहारा दल	केवला फरिख, बाया – गिधौर, जिला – जमुई, (बिहार)।
2000.	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं० – 177, ग्राम व पोस्ट – शाहजहाँपुर बैजना, थाना – दादों, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133 ।
2001.	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102
2002.	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, घिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2003.	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद	सी – 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद), शाहदरा, दिल्ली – 110032
2004.	सर्वोदय भारत पार्टी	बी – 19, सेक्टर – 'O', अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2005.	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बेंगलोर – 560 009, (कर्नाटक) ।
2006.	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093
2007.	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2008.	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2009.	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम – शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना, पो. एवं तहसील – सदर, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2010.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी – 221 005, उत्तर प्रदेश ।
2011.	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं० - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2012.	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं० – 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा ।
2013.	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
2014.	सत्य क्रान्ति पार्टी	म० नं० – 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2015.	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं० - 70-ए, ग्राम – नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस – मियागंज, जिला – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2016.	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज़ गाँधी प्रेस कॉम्प्लेक्स, आगरा – मुम्बई रोड, इन्दौर – 452008, मध्य प्रदेश।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2017.	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या – 4-5, ओरायान कॉम्पलेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद – 431005, महाराष्ट्र ।
2018.	सत्युग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश ।
2019.	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2020.	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2021.	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉर्पोरेटिव बैंक लि०, चोपडा चोपडा कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2022.	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वार्ड नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वार्ड नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ- केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2023.	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश ।
2024.	सेक्यूलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
2025.	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2026.	सेक्यूलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2027.	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2028.	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड, अमृतसर पंजाब- 143001
2029.	सेवा दल	वी.पी.ओ., ग्राम- टिटोली, तहसील व जिला- रोहतक, हरियाणा
2030.	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता० – पालम, जि० – परभणी, महाराष्ट्र – 431536
2031.	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2032.	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2033.	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चॉद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2034.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।
2035.	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2036.	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2037.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
2038.	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या – 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2039.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
2040.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो० खाकुर्दी, तालुका-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।
2041.	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेंट, यूनिन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2042.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-
2043.	शोषित समाज दल	सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2044.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003.
2045.	शोषित संदेश पार्टी	मिर्द बड़गाँव, संद खिदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2046.	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2047.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट ऑफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।
2048.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।
2049.	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2050.	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रास, गजेन्द्रगड़, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।
2051.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगंटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।
2052.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो०आ० – दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम ।
2053.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
2054.	सिक्किम लिबरेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम – 737134
2055.	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगोंग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगोंग, थाना - रवांगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2056.	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना-रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2057.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
2058.	सिक्किम यूनाइटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डिंग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2059.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2060.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2061.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
2062.	सिरुप्पानमई मक्कल नाला कांची	नं. 16ए, 9वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, कांचीपुरम जिला, चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2063.	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2064.	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामखि जिला, पिन-689072, (केरल) ।
2065.	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	8/2, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, हास्पिटल रोड, भोगल, नई दिल्ली-110014
2066.	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, खिनारविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2067.	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2068.	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2069.	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2070.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्धीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
2071.	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
2072.	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल) ।
2073.	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम
2074.	सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2075.	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2076.	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनीसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016
2077.	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या – 56, गाँव – सोनखास, ता. – नेर, जिला – यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
2078.	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश -522501
2079.	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2080.	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु- 600028

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2081.	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2082.	सुखी समाज पार्टी	344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश ।
2083.	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665 ।
2084.	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपत्तुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2085.	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2086.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
2087.	सुराज सेवा दल	ग्राम - रामड़ी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2088.	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला - तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या - 1102/1, वार्ड संख्या - 7, पो0 व तहसील - सदर, जनपद - मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001
2089.	सुशासन पार्टी	हाउस नं0-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी-127032, हरियाणा ।
2090.	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0 - 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0 - 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210 ।
2091.	स्वभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2092.	स्वभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001
2093.	स्वभिमानी पक्ष	जयसिंगपुर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2094.	स्वच्छ भारत पार्टी	साँई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2095.	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2096.	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001
2097.	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2098.	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ।
2099.	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2100.	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
2101.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
2102.	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं0 – 17, ग्राम – मोगलपुरा, ग्राम पंचायत – मोगलपुरा, पो0 ऑ0 – बख्तियारपुर, जिला – पटना, बिहार – 803212
2103.	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411023
2104.	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।
2105.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
2106.	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुड़गाँव, हरियाणा – 122017
2107.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलोर-560094, कर्नाटक ।
2108.	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2109.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।
2110.	स्वतंत्र भारत पक्ष	"राही", खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।
2111.	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आशिक, वार्ड नं0 – 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2112.	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2113.	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.
2114.	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट – लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।
2115.	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बेंगलूरु-560001, कर्नाटक
2116.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु) ।
2117.	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई – 600018.
2118.	तमिल मानिला काची	नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2119.	तमिल मनीला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।
2120.	तमिल मनीला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	द्वार नं0 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद वाया काँचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।
2121.	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयात्तम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु- 632007
2122.	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2123.	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।
2124.	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2125.	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट – वेम्बरप्पी, वेम्बरप्पी, तालुक व जिला – छिडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2126.	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2127.	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2128.	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600043
2129.	तमिलार मक्कल काँची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस – गेंडीगानहल्ली, तालुक – पालकोड, जिला – धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2130.	तमिलीना विदियाल पुलिकल इयाक्कम इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई – 625 016, तमिलनाडु।
2131.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयडस रोड, रोयाप्पे, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
2132.	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल काँची	9-2/1 सी, तैविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु – 629163.
2133.	तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2134.	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं0 – 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु – 641021
2135.	तमिज़ागा मक्कल जननायगा काचिच काचिच	वनविल ईलम, संख्या 9पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु तमिलनाडु ।
2136.	तमिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काचिच	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।
2137.	तमिज़ग वाझवुरीमई काँची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजाप्पेई पोस्ट, मेचेरी मेत्तुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2138.	तमिज़ार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, म्हुडैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
2139.	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म0 नं0 – 3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500027
2140.	तेलंगाना इंटि पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेकल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2141.	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2142.	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2143.	तेलंगाना कर्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव – बैरानपल्ली, पोस्ट – सिद्धापुर, मंडल – हसनपती, जिला – वरंगल, तेलंगाना ।
2144.	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2145.	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्द्राबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।
2146.	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2147.	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2148.	तेलंगाना प्रजा समिथि (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2149.	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोव्वास्था, निजामाबाद, तेलंगाना – 503001
2150.	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्द्राबाद, तेलंगाना- 500017
2151.	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला – नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश – 508116
2152.	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2153.	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2154.	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2155.	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2156.	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2157.	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मित्तपालेम स्ट्रीट, गुडूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश – 524101
2158.	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2159.	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रैसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2160.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
2161.	थमिझग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, छिविजन 68, चेन्नै - 600011, तमिलनाडु ।
2162.	तमिझार मुन्नेत्रक कड़गम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापपेयर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2163.	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला – थेनी, तमिलनाडु तमिलनाडु – 625601.
2164.	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 – 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु – 600052
2165.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
2166.	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर – 452001, मध्य प्रदेश ।
2167.	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2168.	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2169.	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2170.	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्प्लेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गड़चिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2171.	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2172.	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2173.	थोझीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु। तमिलनाडु।
2174.	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम – 636004 तमिल नाडु ।
2175.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर-560026, कर्नाटक।
2176.	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2177.	टोला पार्टी	मकान सं० – 56, वार्ड सं० – 14, अंधुवा प्ही, होडल (पलवल), हरियाणा। हरियाणा।
2178.	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुड़गांव, हरियाणा – 122011
2179.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन- 754024
2180.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
2181.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम ।
2182.	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर, अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2183.	डूथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट – कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह० व जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2184.	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरुप्पू पी.ओ, कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2185.	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
2186.	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम – अहिरावॉ, पोस्ट – बेरुआ, तहसील – सण्डीला, जिला – हरदोई, उत्तर प्रदेश – 241304
2187.	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2188.	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस० एस० नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु ।
2189.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम) ।
2190.	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी — 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
2191.	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं० —10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—110 032.
2192.	युनाइटेड कांग्रेस पार्टी	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058
2193.	युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2194.	युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दीन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना—800004, बिहार ।
2195.	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एब्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) — 403601 ।
2196.	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं० – 7, म० नं० – 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2197.	यूनाइटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपट्टनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना – 505215
2198.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामहम मूझूर, पो. ऑ. कन्नयम, जिला (केरल) ।
2199.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक) ।
2200.	यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट, असम	उलूबारी, गुवाहाटी — 781007, (असम)
2201.	यूनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा — 797103, दीमापुर—797112 (नागालैण्ड)
2202.	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी—786, जैतपुर विस्तार, पार्ट — II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
2203.	यूनाइटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गोंसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2204.	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम—786001
2205.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल	जे.डी.रोड, वार्ड नं. 4, पोस्ट- कोकराझार, जिला- कोकराझार, बीटीएडी, असम-783370.
2206.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.
2207.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम
2208.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बाँ. नं0 2, पो0 — रेहाबाड़ी, गुवाहाटी — 781008, (असम) ।
2209.	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई — 400024, महाराष्ट्र ।
2210.	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2211.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग—784510, (असम) ।
2212.	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलप्पी, जिला - तुत्तुकुडी, तमिलनाडु - 628501
2213.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ—15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली—110011.
2214.	उरिमई मीटप्पू कड़गम	न्यू नं0 —10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियूर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई—600045, जिला—कांची, तमिलनाडु ।
2215.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर — 560001, कर्नाटक ।
2216.	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान — गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 — जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर — 751010, उड़ीसा ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2217.	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं० 567/2 कानन विहार, फेस — 2 , भुवनेश्वर — 751031 उड़ीसा ।
2218.	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश कलाथ हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2219.	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1 st क्रॉस, 3 rd स्टेज, 3 rd फेस, 6 th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3 rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560085
2220.	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ — 226004, (उत्तर प्रदेश) ।
2221.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक	38 — रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2222.	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2223.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो० ऑ० माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2224.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक	85/ 12 — बी, नाश विला रोड, देहरादून — 248001, (उत्तराखण्ड)।
2225.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड ।
2226.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।
2227.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं० 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट—मोथरौवाला, विकासखण्ड—रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2228.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी— 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली — 110092
2229.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
2230.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 — के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2231.	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11, 12, 13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2232.	वालामाना तमिझागम कॉची	एच-982, 23 rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2233.	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2234.	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, वार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2235.	वंचितसमाज इंसाफ पार्टी	39, आदर्श नगर, द्वारा — डॉ० शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2236.	वसुधैव कुटुम्बकम् पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2237.	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 – 39, 59, प्लॉट नं0 – 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 – 371, न्यू थाना नं0 – 27, एन.एच – 2, शिव सागर, जिला – रोहतास, बिहार - 821111 ।
2238.	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कॉलिपारा मंडलम, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2239.	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 — 275, हेबालु गांव व पोस्ट, देवागिरी तालुक व जिला कर्नाटक कर्नाटक ।
2240.	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर , जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2241.	विदर्भ राज्य अघाड़ी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्पलेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाड़ी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2242.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर —13, महाराष्ट्र ।
2243.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर—3, महाराष्ट्र ।
2244.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2245.	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2246.	विद्यार्थुल राजकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2247.	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरु, इच्छीकामालैष्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2248.	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाच्छी, पोस्ट – तिरुपाच्छी, तालुक – तिरुपुवनम, जिला – शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2249.	विदुथलाई चिरुथईगल काची	नं0 — 16, चिन्नईया गली, टी — नगर, चेन्नई —17, तमिलनाडु ।
2250.	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 —11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामप्पीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु तमिलनाडु ।
2251.	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रॉड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला — वेल्लोर, तमिलनाडु
2252.	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2253.	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2254.	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2255.	विकास परिषद्	62 — ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट—133001, हरियाणा ।
2256.	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारुल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2257.	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेंट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस.-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2258.	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
2259.	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव - चौहडा, डाकघर - डगाम, तहसील - गढ़शंकर, जिला - होशियारपुर, पंजाब - 144527
2260.	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथूपुरा मोड़, दिल्ली — 110084
2261.	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2262.	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2263.	विश्वा जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2264.	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2265.	विश्व विकास संघ	एफ—53/एफ —1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095 ।
2266.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेस्वर - 603406, (तमिलनाडु) ।
2267.	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र काँची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदयपुरपलयम, थालावडिप्पी पोस्ट, अतुर- तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2268.	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बैंगलोर, कर्नाटक- 560095
2269.	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068 ।
2270.	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2271.	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2272.	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2273.	वार वैट्न्स पार्टी	ए/ 301 - 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम) मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र) ।
2274.	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2275.	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहद्दी बेला, ब्लॉक - घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2276.	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई - 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.
2277.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 - बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकता -700009 पश्चिम बंगाल ।

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2278.	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 – आनन्द पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल ।
2279.	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल – 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
2280.	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2281.	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
2282.	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई –600107.
2283.	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पाँ0 आँ0 भन्देरहाली, जिला – हुगली, पश्चिम बंगाल ।
2284.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2285.	यूथ फॉर इक्विटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन –II, नई दिल्ली –110034 ।
2286.	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेस्मेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बैंगलोर नार्थ तालुक, बैंगलोर, कर्नाटक- 560022
2287.	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 – 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
2288.	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर –516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश ।
2289.	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 – 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2290.	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर –382 019, गुजरात ।
2291.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
2292.	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 – शेखजादा द्वितीय, जनपद – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2293.	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 – 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2294.	युवा क्रान्ति दल	बी – 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर - पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.
2295.	युवा क्रांतिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2296.	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2297.	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0 - 63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	2	3
2298.	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल अश्रित रोड, पुना – सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2299.	युवा शक्ति संगठना	भांगड़िया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2300.	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टाऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2301.	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

सारणी-IV
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी
3.	सेब (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	ऑटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
5.	बेबी वॉकर
6.	गुब्बारा
7.	चूड़ियाँ
8.	फलों से युक्त टोकरी (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
9.	बल्ला
10.	बल्लेबाज
11.	बैटरी टार्च
12.	मोतियों का हार
13.	बेल्ट
14.	बेन्च
15.	साइकिल पम्प
16.	दूरबीन
17.	बिस्कुट
18.	ब्लैक बोर्ड
19.	आदमी व पाल युक्त नौका
20.	बोतल
21.	बक्सा
22.	डबल रोटी
23.	ब्रेड टोस्टर
24.	ईंटें
25.	ब्रीफकेस
26.	ब्रुश
27.	बाल्टी
28.	केक
29.	कैल्कूलेटर

30.	कैमरा
31.	कैन
32.	शिमला मिर्च
33.	कार्पेट
34.	कैरम बोर्ड
35.	फूलगोभी
36.	सीसीटीवी कैमरा
37.	जंजीर
38.	चक्की
39.	चपाती रोलर
40.	चप्पलें
41.	शतरंज बोर्ड
42.	चिमनी
43.	चिमटी
44.	कोट
45.	नारियल फार्म
46.	कलर ट्रे और बुश
47.	कम्प्यूटर
48.	कम्प्यूटर माउस
49.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
50.	क्रेन
51.	घन
52.	कप और प्लेट
53.	कटिंग प्लायर
54.	हीरा
55.	डीजल पम्प
56.	डिश एंटीना
57.	डोली
58.	द्वार घंटी
59.	दरवाजे का हैंडल (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
60.	ड्रिल मशीन

61.	डम्बल्स
62.	कान की बलियाँ (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
63.	बिजली का खंभा
64.	लिफाफा
65.	एक्सटेंशन बोर्ड
66.	बाँसुरी
67.	फुटबॉल (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
68.	फुटबॉल खिलाड़ी
69.	फव्वारा
70.	फ्राक
71.	फ्राइंग पैन
72.	कीप
73.	गन्ना किसान
74.	गैस सिलेण्डर
75.	गैस का चूल्हा
76.	उपहार
77.	अदरक
78.	काँच का गिलास
79.	ग्रामोफोन
80.	अंगूर
81.	हरी मिर्च
82.	हाथ गाड़ी
83.	हारमोनियम
84.	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
85.	हेडफोन
86.	हैलीकॉप्टर
87.	हेलमेट
88.	हाकी और बाल
89.	रेत घड़ी
90.	आइस क्रीम (तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

91.	पानी गरम करने की रॉड
92.	प्रेस (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
93.	कटहल
94.	केतली (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
95.	चाबी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)"
96.	किचन सिंक
97.	भिंडी
98.	लेडी पर्स (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
99.	लैपटॉप
100.	कुन्डी
101.	लैटर बाक्स
102.	लाइटर
103.	लूडो
104.	लन्च बॉक्स
105.	तुरहा बजाता आदमी
106.	मचिस की डिब्बी
107.	माईक
108.	मिक्सी
109.	नेल कटर
110.	गले की टाई
111.	नूडल्स कटोरा
112.	कड़ाही
113.	पैंट
114.	मूँगफली
115.	नाशपाती (तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
116.	मटर
117.	पेन ड्राइव
118.	कलम की निब सात किरणों के साथ
119.	पैनस्टैण्ड-

120.	पेन्सिल डिब्बा
121.	पेन्सील शार्पनर
122.	पेन्डुलम
123.	मूसल और खरल
124.	पेट्रोल पम्प
125.	फोन चार्जर
126.	तकिया
127.	अनानास
128.	करनी
129.	खाने से भरी थाली
130.	प्लेट स्टैण्ड
131.	हान्डी
132.	प्रेसर कुकर
133.	पंचिंग मशीन
134.	रेजर
135.	रेफ्रिजरेटर
136.	अंगुठी
137.	रोड रोलर
138.	रोबोट
139.	रूम कूलर
140.	रूम हीटर
141.	रबड़ की मुहर
142.	सेफ्टी पिन
143.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
144.	स्कूल का बस्ता
145.	कैंची
146.	सिलाई की मशीन
147.	पानी का जहाज
148.	जूता
149.	शटर
150.	सितार

151.	कूदने की रस्सी
152.	स्लेट
153.	साबुनदानी
154.	जुराबें
155.	सोफा
156.	स्पैनर (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
157.	स्टैपलर
158.	स्टैथोस्कोप
159.	स्टूल
160.	स्टम्प्स
161.	झूला
162.	स्विच बोर्ड
163.	सिरिन्ज
164.	टी रिमोट .वी.
165.	मेज
166.	चाय छलनी
167.	टेलीफोन
168.	टेलीविजन
169.	टेनिस बल्ला व गेंद
170.	टैन्ट
171.	भाला फेंक
172.	टीलर
173.	टॉफियाँ
174.	घिमटा (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
175.	दाँत बुश
176.	टूथपेस्ट
177.	ट्रैक्टर चलाता किसान
178.	ट्रे
179.	त्रिभुज
180.	ट्रक (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
181.	तुरही

182.	ट्यूब लाइट
183.	टाईपमशीन
184.	टायर
185.	वैक्यूम क्लीनर
186.	वायलिन
187.	छड़ी
188.	दीवार खूँटी
189.	बटुआ
190.	अखरोट
191.	तरबूज़
192.	पानी का टैंक
193.	कुआँ
194.	हाथ रेहड़ी
195.	सीटी
196.	खिड़की
197.	सूप
198.	ऊन व सिलाई

आदेश से,

एन. टी. भूटिया,

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 15th March, 2019

24 Phalguna, 1940 (Saka)

Notification

No. 56/2019/PPS-III.— WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No. 56/2018/PPS-III, dated 13th April, 2018, as amended from time to time, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No. 56/2018/PPS-III, dated 13th April, 2018, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (iii), the Election Commission of India hereby specifies:—

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table II, the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States and postal address of their Headquarters;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

IN SO FAR AS elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir are concerned, this notification shall be deemed to have been issued in terms of Rules 5 and 10 of the Jammu and Kashmir Conduct of Elections Rules, 1965 and under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as made applicable for elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

TABLE – I
NATIONAL PARTIES

Sl. N.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
1	2	3	4
1.	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)
2.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi – 110001.
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002. [Vide Amendment Notification dated 20.06.2018]
4.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002.
5.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001.
6.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi – 110011.
7.	Nationalist Congress Party	Clock	Bungalow No.-1, Canning Lane (Ravi Shanker Shukla Lane), Near Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

TABLE – II
STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	1. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		2. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		3. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh.
2.	Arunachal Pradesh	1. People's Party of Arunachal	Maize	K. Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh).
3.	Assam	All India United Democratic Front	Lock & Key	No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam).
		Asom Gana Parishad	Elephant	Head Office :- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam).
		1. Bodoland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt.Kokrajhar, Assam, Pin-783370.
4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
		2. Lok Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath, New Delhi – 110 011.
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
		4. Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan	Mouza – Dhakkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak (Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna – 1, Bihar.
5.	Chhattisgarh	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Farmer Ploughing (within Square)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
6.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001
		2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa - 403601.
7.	Haryana	Indian National Lok Dal	Spectacles	No.80, Sector – 9, Chandigarh – 160009
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J & K). (ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J & K).
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar
9.	Jharkhand	AJSU Party	Banana	H-59, Harmu Housing Colony, PS-Agora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
		Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand).
		Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik)	Comb	Atithishala, Morhavadi, Ranchi, Jharkhand
		4. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.
11.	Kerala	Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003.
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala).
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal). □
12.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
13.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.
14.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.
		People's Democratic Front	Candles	H.Q. Guwahati, H.O. Udalgiri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram).
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
16.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. Nationalist Democratic Progressive Party	Globe	House No. 155(1), Ward No. 4, Chumukedima, Dimapur, Nagaland – 797103.
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
17.	N.C.T. of Delhi	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
18.	Odisha	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).
19.	Puducherry	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		1. All India N.R. Congress	Jug	No. 51, J.J. Complex, 100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Puducherry –605005.
		Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
20.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.
		2. Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
21.	Sikkim	1. Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gongtok, East Sikkim.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102
22.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
23.	Telangana	1. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh).
		2. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2- 220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh. □

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1	2	3	4	5
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh.
24.	Tripura	Indigenous People's Front of Tripura	Dao	H.O. Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala-799001, Tripura.
25.	Uttar Pradesh	Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	12-Tughlak Road, New Delhi-110011.
		Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi.
26.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).

TABLE – III
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1.	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana
2.	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
3.	Aadarsh Mithila Party	At & P.O. Thahra Gopalpur, Via – Dighra, District – Samastipur, Bihar – 848115
4.	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
5.	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha–Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh.
6.	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
7.	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
8.	Aadijan Mukti Sena	‘First Floor’, 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)
9.	Aadim Samaj Party	H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
10.	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
11.	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.
12.	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
13.	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi- 110042.
14.	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgaoon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
15.	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
16.	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
17.	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, Uttar Pradesh-
18.	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR
19.	Aam Janata Party	Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.
20.	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi – 18.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
21.	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.
22.	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
23.	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
24.	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
25.	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
26.	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
27.	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
28.	Aama Odisha Party	185, VIP Colony, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha – 751015
29.	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District- Muzaffarpur, Bihar
30.	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
31.	Aapka Hamara Party	Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
32.	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
33.	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
34.	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
35.	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
36.	Aapnni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaultpur Road, Village- BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana- 125050
37.	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
38.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI-110094.
39.	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, UTTAR PRADESH – 226020
40.	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
41.	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
42.	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
43.	Abhay Samaj Party	Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari, Tehsil – SadarMaharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
44.	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
45.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya – 794 101.
46.	Action Party	Village and Post- Maigalgaon, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, District- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
47.	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
48.	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand, Durga Puri, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab.
49.	Adarsh Janta Party	Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
50.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P.).
51.	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C, Sitapur Road Yojna, Janakipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
52.	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
53.	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
54.	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4, ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
55.	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
56.	Adarsh Vyawastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
57.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136, Distt. Bulandshahr, (U.P.).
58.	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
59.	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
60.	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, MADHYA PRADESH
61.	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh- 208016
62.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
63.	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur – 273404, Uttar Pradesh.
64.	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District- Tapi, Gujarat-394650.
65.	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.
66.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
67.	Agila India Makkal Kazhagam	No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
68.	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006
69.	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
70.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
71.	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
72.	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
73.	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
74.	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
75.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. - SheoharBIHAR-843334.
76.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
77.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
78.	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
79.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
80.	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
81.	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
82.	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur, Uttar Pradesh.
83.	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
84.	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
85.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
86.	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
87.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.
88.	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
89.	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
90.	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
91.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
92.	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No. 272001, Uttar Pradesh.
93.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
94.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
95.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar-802301.
96.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.
97.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
98.	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
99.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
100.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
101.	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmaivali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
102.	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 (West Bengal).
103.	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
104.	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
105.	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
106.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
107.	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
108.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B.Enclave, Delhi-110093.
109.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
110.	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.
111.	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
112.	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
113.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.
114.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
115.	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi- 110016.
116.	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
117.	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
118.	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
119.	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023’.
120.	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
121.	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
122.	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229010
123.	Akhil Bhartiya Ekata Party	Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District- Osmanabad, Maharashtra- 413501
124.	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, MADHYA PRADESH.
125.	Akhil Bhartiya Jan Morcha	House No. 960, Pratap Nagar, Bhanpur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462037.
126.	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
127.	Akhil Bhartiya Janhit Party	Post – Sajani, Taluk – Hatkanagale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416115.
128.	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village – Kinudeeh, Post – Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt. – Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
129.	Akhil Bhartiya Kalyan Party	Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225403
130.	Akhil Bhartiya Lok Dal	A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi – 110094

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
131.	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shop No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra – 400088.
132.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
133.	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.
134.	Akhil Bhartiya Mithila Party	House of Shri Ratneshwar Jha, Village & P.O. Parjuar, Distt. Madhubani (Bihar), PIN-847229.
135.	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar, Kanpur – 208022, Uttar Pradesh.
136.	Akhil Bhartiya Naitik Party	Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.
137.	Akhil Bhartiya Navnirman Party	Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203
138.	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
139.	Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party	72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post- Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027
140.	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.
141.	Akhil Bhartiya Sudhar Party	House No. 2389, 1st Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.
142.	Akhil Bhartiya Swarajya Dal	H. No. 22/178, Manjh Khore Ramed, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh
143.	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7, Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow -226001 Uttar Pradesh.
144.	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.
145.	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
146.	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
147.	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.
148.	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
149.	Akhila Kerala Trinamool Party	House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020
150.	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet, Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
151.	Akila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram, Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
152.	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
153.	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
154.	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu
155.	All India Azaad Congress Party	H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh
156.	All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048
157.	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041
158.	All India BC, OBC Party	H.No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062
159.	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab
160.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal)
161.	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi
162.	All India Democratic Party	M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024
163.	All India Federal Bloc	Malekkudy, Elembakapilly P.O., Koovappady, Ernakulan District, Kerala- 683544
164.	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010, (Tamil Nadu)
165.	All India Hindustan Congress Party	191-C, Chandranagar A, Nau Dukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan – 302012
166.	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6th Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
167.	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar Delhi- 110063
168.	All India Jan Samasyanivaran Party	Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra – 441501
169.	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301
170.	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3rd Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
171.	All India Janaraksha Party	K.No. 1403/VS-17/1404/VS 18, Gangadharpura, Doddaballapura Town, Bangalore Rural - District, Karnataka
172.	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab-152002
173.	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
174.	All India Labour Party	34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019
175.	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh
176.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab)
177.	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh
178.	All India Mahila Empowerment Party	D.No. – 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No. – 35, Survey Nos. 206, 207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008
179.	All India Makkal Nalvalu Katchi	No. 2/259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
180.	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post – Rajapur, Thana – Cholapur, Tehsil & District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221101
181.	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.
182.	All India Mazdoor Party (Rangreta)	H.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District – Amritsar, Punjab
183.	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
184.	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001
185.	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu)
186.	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.
187.	All India Muttahida Qaumi Mahaz	# H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1st Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.
188.	All India Party for the Protection of Civil Rights	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai – 600 078
189.	All India Pasumpon Munnetra Kazhagam	No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District-Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001
190.	All India Pattali Munnetra Katchi	No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu – 606202
191.	All India Peoples' Front (Radical)	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
192.	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh
193.	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2nd floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
194.	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu-625010
195.	All India Rajiv Krantikari Congress	B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi – 110051.
196.	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
197.	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector – 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
198.	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqonagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 509216
199.	All India Samathuva Makhal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu
200.	All India Sathyajothi Party	Ongarakudil, 19, Extension, Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.
201.	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
202.	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangarai, Chennai –600 041, Tamil Nadu.
203.	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
204.	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039, Tamil Nadu.
205.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
206.	All India Ulama Congress	No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka
207.	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No.55, First Floor, Sinavar Street, Tiruppattur-635601, Tamil Nadu, CHENNAI.
208.	All India Women Democratic Freedom Party	No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu – 600099.
209.	All India Women United Party	Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubrati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.
210.	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
211.	All Indian Republican Party	Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401
212.	All Indians Party	Door No. 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
213.	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058, Karnataka.
214.	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
215.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
216.	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
217.	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.
218.	All Pensioner's Party	No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam, Vellore District, Tamil Nadu - 632602.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
219.	All Peoples Party	Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post, Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.
220.	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115.
221.	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase – 1, Ward No. 2, Bhoad, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
222.	Aman Samaj Party	V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi – 110053.
223.	Ambedkar Bahujana Samatha Party	08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001
224.	Ambedkar Janatha Party	No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.
225.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.
226.	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
227.	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.
228.	Ambedkar Peoples Movement	39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
229.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
230.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
231.	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana- 135003
232.	Ambedkar Yug Party	240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
233.	Ambedkarbadi Party	136/1, Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
234.	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. –Wardha, Maharashtra.
235.	Ambedkarite Party of India	C/o 26, Bhoslewadi, Near Awale Babu Square, Lashkaribagh, Nagpur, Maharashtra – 440017.
236.	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).
237.	Anaithindhia Makkal Shakthi Kazhagam	No. 10, Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai, Tamil Nadu- 600057
238.	Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam	No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
239.	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.
240.	Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
241.	Anaithu India Makkal Katchi	No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters Hosur, Krishingiri District, Tamil Nadu- 635109
242.	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026 Tamil Nadu.
243.	Anaithu Makkal Puratchi Katchi	No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post-Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115
244.	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai, Tamil Nadu - 625002.
245.	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
246.	Anbu Udhayam Katchi	12/11, Subash Illam, Theni – Gudalur – 625518, Tamilnadu.
247.	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
248.	Andhra Chaitanya Party	Door No. 12-20-3, Gudu Street, Bheemunipatnam, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh- 531163
249.	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh.
250.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
251.	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
252.	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya , P.O- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.
253.	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
254.	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.
255.	Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam	1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703
256.	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. – 176, Ward No. – 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam – Taluk, Theni – District, Tamil Nadu – 625526.
257.	Anna YSR Congress Party	D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh- 516001
258.	Annadata Party	Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107
259.	Annan Tamilaga Rising Kazhagam	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044
260.	Anndata Karigar Party	Ganiyare- Badhan, District- Singrooli, Madhya Pradesh- 486886
261.	Antarrastriya Swarn Congress Party	Village & Post – Sarakara Vishnoi, Vikas Khand – Dilari, Tehsil – Thakurdwara, District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
262.	Anti Corruption Dynamic Party	Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu – Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024
263.	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
264.	Apana Dal Balihari Party	Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, Distict- Basti, Uttar Pradesh-272155
265.	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
266.	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).
267.	Apna Dal (Soneylal)	Village - Atrampur Nawabganj, Post- Atrampur District- Allahabad, Uttar Pradesh- 229412
268.	Apna Dal United Party	Village – Siswa, Post & P.S. – Kasya, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274402
269.	Apna Desh Party	H. No. – 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh
270.	Apna Kisan Party	Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar- 854105
271.	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
272.	Apna Samaj Party	SCF- 49, Phase 3B2, Mohali, Punjab- 160059
273.	Apni Party (Secular)	Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201
274.	Apni Zindgi Apna Dal	A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.
275.	Appamma Makkal Kazhakam	3/59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.
276.	Arunachal Congress	G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)
277.	Arya Dal	Central Camp Office – 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
278.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
279.	Aryavart Party	Village & Post – Barsaina, Thana – Ahirauli, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274207
280.	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22, Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase –2, Delhi-110086.
281.	Asli Deshi Party	Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095
282.	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781 007, Assam.
283.	Asom Jana Morcha	Ward No. 25, Village- Azad Nagar, P.O.- Chutahaibor, Mouja- Nij Sahar, P.S & District- Nagaon, Assam- 782002.
284.	Asom Songrami Mancha (Asom)	House No.-36, By Lane No-9 (West), Zoo Road Tiniali, R.G.Baruah Road, Guwahati, Assam - 781003.
285.	Assam Dristi Party	Doom Dooma Pather Gaon, P.O.-Hansara, District- Tinsukia, Assam- 786790.
286.	Atal Janshakti Party	Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
287.	Ati Picchara Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118, Bihar.
288.	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
289.	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
290.	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi-110064.
291.	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
292.	Awami Aamjan Party	New Adarsh Nagar, Ashapura Colony, Jalore, District-Jalore, Rajasthan-343001
293.	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
294.	Awami Samta Party	Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
295.	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwalla Road, Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).
296.	Awami Vikas Party	606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015
297.	Azad Bharat Congress	218, Second Floor, LSC Market, Block –A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.
298.	Azad Bharat Party (United)	D-59/14A/-1/A, Shivpurva, Rathyatra Road Mahmoorganj, Varanasi, Uttar Pradesh- 221010
299.	Azad Hindustan Party	E Block – 265, Yadav Nagar, New Delhi – 110042.
300.	Azad Janata Party	208, Dhillan Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.
301.	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi-110086.
302.	Azad Party	Khanuhat , Block- Motigarpur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132
303.	Azad Samaj Party	Village – Mandusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. – Ranipur, District – Mau, Uttar Pradesh - 276402.
304.	B.C. Bharatha Desam Party	H.No.12-13-426, Street No.1, Tarnaka, Hyderabad – 500 017Andhra Pradesh.
305.	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.
306.	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.
307.	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir – 180 004.
308.	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
309.	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line, Allahabad, Uttar Pradesh.
310.	Bahujan Azad Party	Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327
311.	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh
312.	Bahujan Ekta Party (R)	Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex, Najafgarh, New Delhi-110043.
313.	Bahujan Gondwana Party	Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110
314.	Bahujan Hasrat Party	Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlisahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202
315.	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
316.	Bahujan Kranti Party (Marxwad- Ambedkarwad)	Village – Dhansua, Post – Central Jail, Fatehagarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh – 209 601.
317.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
318.	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi-110092.
319.	Bahujan Mazdoor Party	Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204
320.	Bahujan Mukti Party	Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector – 14, Kaushambi, Gazhiabad, Uttar Pradesh.
321.	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002
322.	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
323.	Bahujan Rayat Party	198K-E, Datt Ho, Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra – 416001.
324.	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.
325.	Bahujan Republican Socialist Party	4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.
326.	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.
327.	Bahujan Samaj Mukti Morcha	H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.
328.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab’.
329.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar- Phule)	H.No. V-25, Sandhya Venus Apartment S.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
330.	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village – Sadarpur, Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector – 37, Noida, Janpad – Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
331.	Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)	53-54, 1st Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.
332.	Bahujan Samyak Party (Mission)	83K/1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122
333.	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.
334.	Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)	Bahujan Bhawan, Khabbaspur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.
335.	Bahujan Sena	124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012
336.	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
337.	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedbad-380024 Gujarat.
338.	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajamgarh, Uttar Pradesh.
339.	Bahujan Utthan Party (G)	Village- Lonapur, Mazra-Vilai Kheda, Near Purva Madhyamik School Lonapur, Post- Laulai, Tehsil/ Pargana - Sadar, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
340.	Bahujan Vijay Party	98/5, Post Office Gali, Village – Khutbhar, Post & Tehsil – Khajani, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.
341.	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka – Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.
342.	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District-Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
343.	Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar)	H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037
344.	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
345.	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).
346.	Baliraja Party	Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatrodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.
347.	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
348.	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road, P.O. and P.S.-Nalhati, District-Birbhum-737220, West Bengal.
349.	Bangla Bikashbadi Congress	Yusufgnaj Afaque Nagar, Near Golghar-Chabutara House, P.O & P.S- Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733202
350.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
351.	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
352.	Berojgar Aadmi Adhikar Party	D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.
353.	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar- Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.
354.	Bhaarat Mahashakti Party	11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
355.	Bhaarateeya Janashakthi Congress	D.No. 4-148/A, Paniyoor Road, Udupi - District, Uchila, Karnataka-574117
356.	Bhagidari Kranti Dal	Village & Post – Mawai Padiyana, Block – Sarojni Nagar, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226008.
357.	Bhapase Party	Village – Massa (Khn), Tehsil – Kalam, District – Usmanabad, Maharashtra - 413507.
358.	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Garden, Sector -50, Gurugram, Haryana -122018.
359.	Bharat Abhyudhaya Party	6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadiguda Main Road, Kavadiguda, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500380
360.	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-1, New Delhi –110048.
361.	Bharat Bhavishya Party	House No. 94 S, Village -Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post – Chandrikaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh – 224141.
362.	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil – Pamgarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
363.	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No.4, Ground Floor, Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI - 110086.
364.	Bharat Dal	Bharat Sevadham Arnayak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P).
365.	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
366.	Bharat Deshbhakt Sangathan	19/460, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
367.	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070
368.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad(Uttar Pradesh).
369.	Bharat Jan Shakti Party	H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861
370.	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangani Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
371.	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village- Nirmani, Post- Nirmana, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist-Muzaffarnagar. Uttar Pradesh.
372.	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar), Post – Baliyan, Maharajganj, Siwan, Bihar-841506.
373.	Bharat Kalyan Party	Village – Mevli, Tehsil – Kheragarh, District – Agra, Uttar Pradesh- 283115

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
374.	Bharat Kaumi Dal	Village – Lathardeva Hoon, Post – Jhabreda, District – Haridwar, Uttarakhand.
375.	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
376.	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.-Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
377.	Bharat Labour Praja Party	4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P), Palvanha (M), Khammam District-507115, Andhra Pradesh.
378.	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi- 110034
379.	Bharat Mahaparivar Party	1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095
380.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
381.	Bharat Mata Party	Village & Post – Katka, District – Mirzapur, Uttar Pradesh
382.	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- LoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
383.	Bharat Nav Nirman Party	A – 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari, Jaipur-23, RAJASTHAN.
384.	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021Uttar Pradesh.
385.	Bharat Nirman Party	High School Road, P.O.-Triveniganj, Distt.-Supaul-852139, Bihar.
386.	Bharat Nyay Dal	N. H. – 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar, H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.
387.	Bharat Parivar Party	Bharat Hridya Aashram, Mohalla- Karaccha, Jawalapur, Haridwar, Uttrakhand- 249407.
388.	Bharat Peoples Sena	Plot No. 6-4-787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District- Latur Maharashtra.
389.	Bharat Prabhat Party	105, 1st Floor, A.G.C.R. Enclave, Near Karkardooma Court, Delhi- 110092
390.	Bharat Punarnirman Dal	K.J. – 116, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
391.	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna, Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.
392.	Bharat Swabhiman Party	55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelle, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016
393.	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai – 400071.
394.	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.
395.	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
396.	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
397.	Bharat Vikas Party (Secular)	Kh. No.21/25, Near HP Petrol Pump, Upkar Properties, A-Block, Himgiri Enclave, Burari, Delhi-110084.
398.	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi – 110067.
399.	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
400.	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street, Kolkata – 700007, West Bengal.
401.	Bharath Dharma Jana Sena	Building No.V/489, Mararikkulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikkulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala - 688544
402.	Bharath Praja Spandana Party	D.No. 2-42, Kalavacharla Village, Nidadavole Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh.
403.	Bharatheeya Chaithanya Party	D. No. 9-186/7, High School Road, Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari District, Andhra Pradesh – 533103
404.	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No.3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
405.	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West, Chennai – 600 040, Tamil Nadu.
406.	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House, Mundella (P.O.), Vellanadu, Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.
407.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
408.	Bharathiya Praja Shakti	No. 931, 932, Karabala Maidana, Railway Station Cross Road, Channapattna Town & Taluk, Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
409.	Bharathiya Yuvatha, Samatha, Rashtriyatha Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor, ARK Residency Plot No. 304, Survey No. 153, 154, 163 and 143, Boduppal, Village & Gram Panchayat – Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
410.	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar- 800001
411.	Bharatiya Aavaam Ekta Party	23C, Sector A, SainikVihar, Nanda Nagar, Kuraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
412.	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).
413.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal –462022 (M.P.).
414.	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
415.	Bharatiya Awam Taaqat Dal	Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil- Machhlishahar, Distirct- Jaunpur, Uttar Pradesh-222204
416.	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna –800001 (Bihar).
417.	Bharatiya Bahujan Congress	117, Khodiyar Krupa Soc., Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
418.	Bharatiya Bahujan Parivartan Party	Khasra No. 139/2, Vill. – Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.
419.	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.
420.	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
421.	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi , Post- Meerak Nagar, Police Station- Nigoha, Tehsil- MohanlalGanj, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226302
422.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O.Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
423.	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village – Ballanagla Patti, Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijnour, (Uttar Pradesh).
424.	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.
425.	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonepat), Harayana.
426.	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi, District-Solapur, MAHARASHTRA.
427.	Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party	H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No.8, P.O- Raja ka Rampur, District- Etah Uttar Pradesh.
428.	Bharatiya Development Party	Building No. 358, Athira, PO - Kura, Kottarakara, Kollam, Kerala – 691557
429.	Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party	No.18, 12th Cross, MTS, Layout, Kengeri Upanagara, Bangluru-560060KARNATAKA.
430.	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
431.	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 57.
432.	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur, District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam -781034
433.	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P.O. – Maqsudpur, District Kapurthala, (Punjab).
434.	Bharatiya Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.
435.	Bharatiya Inqalab Party	Village – Rana Pratap Nagar, Islampur, Post & P.S. – Islampur, Distt. – Nalanda, Bihar.(Pin – 801303)
436.	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
437.	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp, Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.
438.	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
439.	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
440.	Bharatiya Jan Kisan Party	1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh
441.	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.
442.	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.-1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775
443.	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).
444.	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colongy, Khanpur, New Delhi-110062.
445.	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.
446.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
447.	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.
448.	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
449.	Bharatiya Kisan Sena Loktantrik	House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.
450.	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.
451.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
452.	Bharatiya Lok Sena	Lower Ground Floor, Office No. – 2, Building No. – A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.
453.	Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.
454.	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village – Lalpura, Post – Kukthari (Pinahat), Tehsil – Bah, District – Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
455.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
456.	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
457.	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
458.	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.
459.	Bharatiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
460.	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
461.	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex, Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.
462.	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh.
463.	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
464.	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.
465.	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post- Dara, P.S- Joynagar, District- South 24 Parganas, West Bengal- 743337
466.	Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party	Purbo Bishnupur, P.O. - Ramakanta Nagar, P.S - Mandirbazar, District - 24 Paragna (South), West Bengal - 743395
467.	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
468.	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi – 110008.
469.	Bharatiya Peoples Party	House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar, Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga, Karnataka-5851004.
470.	Bharatiya Pichhra Dal	Village – Khujri, Post – Sagar, Via – Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh – 495 220.
471.	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
472.	Bharatiya Praja Surajya Paksha	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra- 413116.
473.	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4th floor, Everjoy, Nandanavana, 3rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.
474.	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.
475.	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgadhandchal, Chhattisgarh.
476.	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
477.	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
478.	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
479.	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
480.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
481.	Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya Congress	No.2, 1st Floor, Vayuputra Arcade, Ward No.15, Near NTTF, P.B. Road, Dharawad, District – Dharawad, Karnataka – 580001
482.	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001(Madhya Pradesh).
483.	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
484.	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
485.	Bharatiya Ravidas Party	Moh.Kundigarh, Post-Sadar, Ajamgarh, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
486.	Bharatiya Republican Paksha	Dr.Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
487.	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
488.	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
489.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P).
490.	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi – 110041.
491.	Bharatiya Samrat Subhash Sena	Village – Ajitpur, Post – Kankhal, Laksar Road, Haridwar, Uttarakhand – 249408.
492.	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post – Gosainganj, Zila – Lucknow – 227 125 (U.P.)
493.	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
494.	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road, V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli, Distt. – Rewari HARYANA.
495.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
496.	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009.
497.	Bharatiya Satya Vijayee Party	C- 120, Begam Vihar Extension, Begampur, Delhi-110086.
498.	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.)
499.	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.
500.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
501.	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratn Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).
502.	Bharatiya Suheldev Janata Party	Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. – 8, Indira Nagar, Tehsil – Balia, Balia, Uttar Pradesh – 221713
503.	Bharatiya Suraaj Dal	Sinha Bhawan, Exhibition Road, Behind Reserve Bank of India, Patna, Bihar – 800001
504.	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa, Thana- Rudrapur, Tehsil- Rudrapur, District- Deoria, Uttar Pradesh.
505.	Bharatiya Swatantra Party	Village- Naugai, P.O. – Raghunathnagar, Teh. –Vadrufnagar, Distt:- Sarguja, Chhattisgarh
506.	Bharatiya Uttam Sena	Village & Post – Kheddhain, Thana – Aander, Distt. – Siwan, Bihar.
507.	Bharatiya Yuva Party (Democratic)	Ward No. 54, Circle No. 71, Biscoman Golambar, Near B.S.N.L Telephone Exchange, Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna, Bihar- 800007.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
508.	Bharatiya Yuva Shakti	Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat – Kosewal, Tehsil – Sumerpur, District – Pali, Rajasthan.
509.	Bharatrashttra Democratic Party	Shop No. 22, CSC-II, DDA Market, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092.
510.	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
511.	Bharosa Party	H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana – 500088
512.	Bharateey Samajvadi Morcha	3/1108, Dehradun Chowk Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
513.	Bharti Jan Suraksha Party	Head Office, Dholwha Road, Near Heera Colony, Town & P.O. Hariana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
514.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).
515.	Bharti Samudaya Party	7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road, P.S. – P.G.I., Tehsil - Lucknow, District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226002.
516.	Bhartiya Aam Aadmi Parivar	1000 Jay Ambey Apartment, DDA LIG Flates, New Kondali, Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096
517.	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana- Madhuban Motihari, District- East Champarn, Bihar
518.	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
519.	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District- Raigarh, Madhya Pradesh-465674
520.	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
521.	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjampur- Dehradun, Uttarakhand-248171
522.	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Aou Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
523.	Bhartiya Arya Kranti Manch	83 Ram Vatika Colony, Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly, Uttar Pradesh – 243005
524.	Bhartiya Awaam Activist Party	Village-Keshru, P.S. – Chandauti, District – Gaya, Bihar - 823002.
525.	Bhartiya Awam Party (Rastriya)	House No. 30, (B.P.20) Bechupur, Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai, District – Chandauli, Uttar Pradesh- 232 101.
526.	Bhartiya Azad Sena	15 No. Chowk, Barkagaon, District- Hazaribagh, Jharkhand- 825311
527.	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201
528.	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector- 37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
529.	Bhartiya Chaitanya Party	B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
530.	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.
531.	Bhartiya Dalit Party	Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal- Banka, District- Banka, Bihar.
532.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
533.	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.
534.	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur, Thana- Chaubepur, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
535.	Bhartiya Drishtigochar Party	H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225304
536.	Bhartiya Ekta Manch Party	Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
537.	Bhartiya Gandhiwadi Party	Village & Post – Garwar, District – Ballia, Uttar Pradesh.
538.	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.
539.	Bhartiya Garibmazdoor Party	Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Bairganina, District- Sitamarhi, Bihar - 843313
540.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
541.	Bhartiya Gram Nagar Vikas Party	Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha – Aaamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand – 248 001.
542.	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttpura, Morena, Madhya Pradesh-476001
543.	Bhartiya Gramvasi Party	Village – Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post – Baitalpur, District – Deoria, Uttar Pradesh
544.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
545.	Bhartiya Harit Party	Near Hans Prakratik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251314.
546.	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore , Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
547.	Bhartiya Hind Ekta Dal	Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.
548.	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
549.	Bhartiya Imaandar Party	Sindholi, Tehsil – Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh
550.	Bhartiya Insan Party	N-84, 4th Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
551.	Bhartiya Jagaran Party	Poorvi Nawada, Arrah, Bhojpur-802 301, Bihar.
552.	Bhartiya Jan Hit Vikas Party	220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana – 122001
553.	Bhartiya Jan Hitkari Party	Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
554.	Bhartiya Jan Jagrook Party	Survey N0. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgarh, Tehsil- Megh Nagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh - 457777
555.	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2nd Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
556.	Bhartiya Jan Manas Party	H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. – Arjunganj, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.
557.	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, BuddhVihar, (Behind Senior School), Mandoli Gaon, Nand Nagri, Delhi-110093.
558.	Bhartiya Jan Nayak Party	418, New Govind Puri, Kanker Khera, Meerut Cantt, Uttar Pradesh
559.	Bhartiya Jan Parishad	FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
560.	Bhartiya Jan Pragati Dal	H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil- Bhadohi, District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314.
561.	Bhartiya Jan Sahyog Party	8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.
562.	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
563.	Bhartiya Jan Sanmati Party	Village – Harola, Sector – 5, Noida, Uttar Pradesh.
564.	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
565.	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
566.	Bhartiya Jan Swaraj Party	CC- 1/24, Ansal, Avantika , Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001
567.	Bhartiya Jan Yug Party	Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh –474010.
568.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
569.	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
570.	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074
571.	Bhartiya Janhit Dal	D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.
572.	Bhartiya Janmukti Party	Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.
573.	Bhartiya Janraj Party	H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001
574.	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. – 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post – Izzatnagar, Janpad – Bareilly Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
575.	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.
576.	Bhartiya Janta Dal (Integrated)	H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi – 110084
577.	Bhartiya Janta Ki Ekta Party	Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi -110059
578.	Bhartiya Janta Secular Party	Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677
579.	Bhartiya Jantantra Sanatan Dal	No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar-802101
580.	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path, Patna – 800001, Bihar.
581.	Bhartiya Jantantrik Party	Village- Chirota, Post- Ajayrajpora, Via- Bagru, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007
582.	Bhartiya Kamgar Party	Village – Chandopara, Post - Chandopara, District – Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
583.	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
584.	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh
585.	Bhartiya Kisan Party	E- 58, Taranagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
586.	Bhartiya Kisan Union Samaj Party	H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115
587.	Bhartiya Kranti Vir Party	Village- Kajichak, Post and Police Station- Sandesh, District- Bhojpur Bihar-802164
588.	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpuri (Sarla Bajpai Ka Bagh), South of Subhash Nagar, Janpad – Hardoi, UTTAR PRADESH.
589.	Bhartiya Lok Seva Dal	MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District- Bathinda, Punjab- 151301
590.	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post- Saday Vigaha-165, Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302
591.	Bhartiya Lokshahi Party	Khadka Road, Ramdev Baba Mandir, Tal – Bhusawal, District – Jalgaon, Maharashtra - 425201
592.	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregoan, District- Satara Maharashtra – 415501
593.	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
594.	Bhartiya Mahila Party (Sheetal Verma)	H.No.- 12/2, B- Block, Phase-2, Goyla Vihar, Near Thomas School, Dwarka Goyla Dairy Road, New Delhi- 110071.
595.	Bhartiya Manav Samaj Party	Village & Post- Oina, Tehsil- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222146.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
596.	Bhartiya Manavadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
597.	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.
598.	Bhartiya Mitra Party	Circle-10, Holding No.-79A/64, Mohalla- Gola Road, Bakarganj, District- Patna, Bihar - 800004.
599.	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
600.	Bhartiya Nav Vikas Party	60, Seeda Mohalla, Chilla Village, Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I Delhi- 110091.
601.	Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)	Shri Mourya Park, Shop No. 4, Somnathnagar, Near Somnath Temple, Vadgaonsheri, Pune – 411014 Maharashtra.
602.	Bhartiya Navodaya Party	Village- Aheria, Post- Chakarnagar, Chakarnagar Chauraha, District- Etawah, Uttar Pradesh.
603.	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Village and Post- Sahasarawan, P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan, Bihar - 841408
604.	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
605.	Bhartiya Nojawan Dal	H.No.882, Street No.16, Phase - 4, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi – 110094
606.	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar – 2, Shakarpur, Delhi-110092
607.	Bhartiya Party	New Colony, Post – Neem Ka Thana, District – Seekar, Rajasthan - 332713.
608.	Bhartiya Party (Loktantrik)	A-12, Ansa Plaza, R.B.S.S. Sahay Road, Bhagalpur, Bihar-812001
609.	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park, Nangloi, Delhi – 110041.
610.	Bhartiya Praja Jan Party	Narayanpur Road, Kasba Bansoor, District – Alwar, Rajasthan.
611.	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH
612.	Bhartiya Public Labour Party	357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan – 305001
613.	Bhartiya Rajnitik Vikalp Party	Village – Nayatola Bariapur, Panchayat – Champapur, Ward No. 13, Thana – Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar.
614.	Bhartiya Rashtrawadi Party	J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar, Delhi - 110042.
615.	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E-2548, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
616.	Bhartiya Rashtriya Jansatta	127, 1st Floor, Vardhman Tower, Preet Vihar, Delhi 110092
617.	Bhartiya Republican Party (Insan)	Village - Mahuari, Post – Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.
618.	Bhartiya Rozgar Party	E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
619.	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh.
620.	Bhartiya Samajik Ekta Party	16, Village- Nandora, Tehsil- Goharganj, District- Raisen, Madhya Pradesh- 464990
621.	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village – Suwari, Post – Danganj, Distt. – Varansi, Uttar Pradesh.
622.	Bhartiya Samajik Nyay Morcha	Ward No.12, Near Shitla Mandir, Robertsganj, Janpad – Sonbhadra, Uttar Pradesh - 231216.
623.	Bhartiya Samajik Nyay Party	Village & P.O. Sersa, Tehsil & District – Sonapat, Haryana.
624.	Bhartiya Samajik Party	6, Bus Stand, Alirajpur, District – Alirajpur, Madhya Pradesh – 457887
625.	Bhartiya Samajvadi Sena	Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post- Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002
626.	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post – Teliyarganj, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
627.	Bhartiya Sanskrit Virasat Party	H.No. 338, Village and Post- Lakhaura Khurd, P.S- Kurawali, District- Mainpuri, Uttar Pradesh
628.	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village – Sarayjoga, Post- Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.
629.	Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
630.	Bhartiya Sarvjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
631.	Bhartiya Sarvodaya Party	152/126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001Uttarakhand.
632.	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
633.	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.
634.	Bhartiya Shakti Chetna Party	Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyouhari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh
635.	Bhartiya Shakti Dal	D – 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.
636.	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi – 110041.
637.	Bhartiya Shramik Dal Socialist	Baman Nagar, Pateri, Sector – 20, District - Satna, Madhya Pradesh.
638.	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar – 208014, Uttar Pradesh.
639.	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
640.	Bhartiya Tarak Samaj Party	465A Binauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat, Uttar Pradesh- 250645
641.	Bhartiya Tribal Party	PO- Chanderia, Taluka- Valia, District- Bharuch, Gujarat
642.	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village- Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
643.	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja- Ghurason, Post- Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
644.	Bhartiya Veer Kisan Party	Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad, District- Jalna, Maharashtra.
645.	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
646.	Bhartiya Vistarwadi Party	Village – Shyampur, Post – Dugarei, District – Fatehpur, Uttar Pradesh.
647.	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTITI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
648.	Bhartiya Yuva Kranti Party	E-Block Surajdeep Complex, Near Dainik Jagran Chauraha, Jopling Road, Lucknow, Uttar Pradesh-2260001
649.	Bhartiya Yuva Party (Rashtrowadi)	H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia, Uttar Pradesh- 277208
650.	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. – Dharur, District – Beed, Maharashtra - 431124.
651.	Bhartiya Yuva Swabhimani Party	19/769, Mohalla – Narayanpur, Shukla Aata Chakki Ke Pass, Govind Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh - 206122
652.	Bhrashtachar Mukti Morcha	Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai, Tehsil & District – Durg, Chhattisgarh.
653.	Bhrashtachar Virodhi Dal	R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi), Delhi-110041.
654.	Bhrastachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
655.	Bihar Janta Party	Village: Jail Shahar, Old Remand Home, Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran, Bihar – 841301
656.	Bihar Lok Nirman Dal	Mohalla – Noongola, Thana Nagar & Post – Hazipur, District – Vaishali, Bihar-844101
657.	Biju Swabhimani Dal	Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road, PO – FC Project, Kalinga Nagar, Jajpur Road, Jajpur, Odisha – 755020.
658.	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).
659.	Bolshevik Party of India	C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar, Gorewada Road, Nagpur- 440013, Maharashtra.
660.	Brabar Samaj Saanjhi Party	House No. 698, Village – Arniawali, Tehsil – Nathusari Chopta, District – Sirsa, Haryana- 125055
661.	Braj Party	Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post – Beswan, Gram Panchayat – Nayabaas, Tehsil – Iglas, District – Aligarh, Uttar Pradesh – 202145
662.	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony, Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
663.	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna, Distt. – Panna, Madhya Pradesh.
664.	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
665.	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
666.	Bundelkhand Akikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila – Mahoba, Uttar Pradesh
667.	Bundelkhand Congress	56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
668.	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
669.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001(Uttar Pradesh).
670.	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426
671.	Challengers Party	Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, Karnataka- 583102.
672.	Chandigarh Ki Aawaz Party	H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh- 160047
673.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
674.	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil- Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495691
675.	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg –491228 (Chhattisgarh).
676.	Chhattisgarh Navnirman Sena	C. R. – 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.
677.	Chhattisgarh Samajwadi Party	Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.
678.	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward), Raipur, Chhattisgarh.
679.	Chhattisgarh Swabhiman Manch	21, Battis Bangla, Bhilainagar, Distt. – Durg-490006, Chhattisgarh.
680.	Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party	Khongapani, District – Korea, Chhattisgarh – 497447
681.	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office – Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
682.	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).
683.	Chhattisgarhiya Party	House No. 93, Village – Dhanrash, Post – Chhuri, Tehsil – Katghora, District – Korba, Chhattisgarh.
684.	Children First Party of India	703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Raod, Bangluru-560025. Karnataka.
685.	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
686.	Christian Mannertha Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
687.	Civil Rights Party	Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140301
688.	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037(Kerala).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
689.	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation).	U-90, Shakarpur, Delhi-110092.
690.	Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star	C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.
691.	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
692.	Corruption Abolition Party	House No. – 219, VPO – Sheriya, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
693.	Daksha Party	I/1102, Raheja Vistas, Raheja Vihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072
694.	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post – Dholipal, Teh. & Zila – Hanumangarh (Rajasthan)
695.	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
696.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
697.	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village – Hasanpur Jagir, Post – Sikandrabad, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203205.
698.	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No.3, Village & Post – Ghunwara, Teshil – Maihar, Distt. – Satna, MADHYA PRADESH
699.	Dalita Bahujana Party	4-1-1215, Street No.3, Boggulakunta, King Kati Road, Hyderabad – 500001.
700.	Delhi Janta Party	Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041
701.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi – 110 027.
702.	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura(East), Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
703.	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
704.	Democratic Corruption Liberation Front	2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu – 629004.
705.	Democratic Human Rights Movement Party	Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala – 695607.
706.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B.Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
707.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
708.	Democratic Movement	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
709.	Democratic Party of India	162, Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
710.	Democratic Party of India (Ambedkar)	MohallaTaj Pura, Rahon, Teshsil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab – 144517.
711.	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
712.	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur -24, (Maharashtra).
713.	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
714.	Democratic Socialist Party of India	359, West Kodalia, New Barrackpore, P.S. – Ghola, District – North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal – 700131.
715.	Democratic Swaraj Party	Arya School Road, V.P.O. Sohana, SAS Nagar, Punjab- 140308.
716.	Desa Makkal Munnetrak Kazhagam	3/172, Veerachelliyapuram Colony, Valliyur (Post), P. Kumaringapuram, Amathur (Via), Taluk & District – Virudhunagar, Tamilnadu-626005.
717.	Deseeya Praja Socialist Party	N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.
718.	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
719.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
720.	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
721.	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
722.	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
723.	Deshbandhu Party	Village – Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post – Balha, Tehsil – Nanpara, District – Bahraich, Uttar Pradesh
724.	Deshbhakt Nirman Party	Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil – Madhuban, Janpad – Mau, Uttar Pradesh
725.	Deshi Kisan Party	House No. 1624, Ward No. 52, Lakhbag Manpur, District – Gaya, Bihar.
726.	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
727.	Desia Pathukappu Kazhagam	“ARIVAGAM” 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
728.	Desiya Forward Bloc	No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
729.	Desiya Makkal Sakthi Katchi	New No.21, Old No.11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu - 600079.
730.	Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam	2/52, C.C.Road, E.B.office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu- 632311
731.	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
732.	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
733.	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
734.	Digvijaya Bharatha Party	#5 (40G), 21st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040
735.	Do Jama Panch Mudde Jan Party	Village – Asan, Tehsil & District – Rohtak Haryana
736.	Dr. Ambedkar People Revolution Movement	No.4, 11th Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007.
737.	Dr. Ambedkar People's Party	106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka
738.	Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party	Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, Chamarajanagara Taluk & District, Karnataka.
739.	Dr. Bhimrao Ambedkar Dal	Village – Kothideeh, Tehsil – Pargna Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.
740.	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
741.	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir
742.	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
743.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar, Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjhapur (Uttar Pradesh).
744.	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
745.	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
746.	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana- Pataliputra Colony, Post-G.P.O, Sadar- Patna, District- Patna, Bihar-800001
747.	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	'ELATCHIAGAM' 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
748.	Eluchi Desam Party	Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District – Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102
749.	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
750.	Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam	5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu -625107
751.	Fauji Janta Party	H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .
752.	Federal Congress of India	Holumbi Khurd, Village & P.O. – Holumbi Kalan, Delhi – 110 082.
753.	Federal Democratic Party	No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
754.	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021 MAHARASHTRA
755.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
756.	Forward Democratic Labour Party	Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani , District- Bhandara Maharashtra – 441804.
757.	Freethought Party of India	121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha – 751030
758.	Front of Revolutionised Creative Efforts	Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udhampur – 182101 Jammu & Kashmir.
759.	Gadar Party	House No.32, Near Ramlila Ground, Padav Ward, Post Makandruganj, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
760.	Ganasangam Party of India	D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu – 637001.
761.	Gandhi Ekta Party	K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh
762.	Gandhi Prakash Party	House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post- Akhalashpur, P.S. – Bhabhua, District- Kaimur, Bihar.
763.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
764.	Gandhiya Makkal Iyakkam	9-1, Thadagam Road, Kavundampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu – 641030.
765.	Gandhiyan Peoples Party	C-1255, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
766.	Gareeb Aadmi Party	R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi – 110059
767.	Gareeb Jankranti Party	Ward – 12, Holding No. – 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
768.	Gareeb Kranti Party	House No. 7, Mukarpur Khema, Nawabka Ahata, Tehsil and District- Bijnor, Uttar Pradesh-246701.
769.	Gareeb Samana Party	H.No. 399, Aawas Vikas Colony, District- Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.
770.	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand- Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402
771.	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi – 110052.
772.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
773.	Garib Janshakti Party	Ward No. 03, Holding no. 15, Behind Swarn Batika Sari Showroom, Mohalla- Brahmapura, Laxmi Chowk, Main Road Muzaffarpur, Muzaffarpur, Bihar- 842003.
774.	Garib Janta Dal (Secular)	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
775.	Garib Raj Party	H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada, Sikandrabad, District – Bulandshahar, Uttar Pradesh.
776.	Garib Samaj Party (Shoshit)	Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
777.	Garib Vikas Party	Professor's Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar – 845401.
778.	Garibi Mukht Bharat Party	H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat- 390001
779.	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
780.	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. – Anandanagar, P.S.-Kalyani, District – Nadia, West Bengal - 741245.
781.	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa- 403505.
782.	Goa Praja Party	Classic Apartments, House No. – 69, Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa, Goa – 403402.
783.	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira, Bardez-Goa (Pin-403514).
784.	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
785.	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
786.	Goemcarancho Otrec Asro	H. No. 780/A, Mugally, Sao Jose de Areal, Salcete, Goa.
787.	Gokula Makkal Katchi	New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
788.	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
789.	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
790.	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
791.	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).
792.	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani, Post – Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
793.	Gorkha Janmukti Morcha	North Point, Singamari, Darjeeling – 734104, West Bengal.
794.	Gorkha Rashtriya Congress	9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.
795.	Gramanchal Party	3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
796.	Gramin Vikas Party	Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District- Gurugram, Haryana- 122017
797.	Great India Party	D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
798.	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
799.	Gujarat Jan Chetna Party	A-69, Trikam Nagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat- 395010.
800.	Gujarat Janta Panchayat Party	City Survey No. 966, Rameshwar Mandirkepaas, Dili Fali, Bokhira, Porbandar, Gujarat – 360577.
801.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).
802.	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.
803.	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
804.	Haakim Apna Party	Mohalla Mehmood Khan, Sarai Nakhasa Chauraha, Sambhal, Tehsil & District – Sambhal, Uttar Pradesh – 244302.
805.	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
806.	Hamara Sahara Party	Sanand Bhawan, Village and Post – Masaurha, P.S. – Paliganj, District - Patna, Bihar – 801110
807.	Hamari Apni Party	Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra – 411047
808.	Hamari Janmanch Party	1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.
809.	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City – Ghazipur, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001
810.	Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak)	Village- Udhura, Post office- Dallupur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR-802130
811.	Hamro Sikkim Party	Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim – 737135
812.	Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal	No. 3-10-18, Pattabhipuram, Guntur, Andhra Pradesh- 522006
813.	Harit Pradesh Party	H. No. 349, Village & Post – Bilsuri, Distt. – Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.
814.	Harit Pradesh Vikas Party	House No. 34, Gram – Tabela Gadhi, Tehsil – Baraut, Distict – Bagpat, Uttar Pradesh – 250622
815.	Haryana Insaaf Congress	Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari – 123401 Haryana.
816.	Haryana Jan Chetna Party (V)	Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana – 134003.
817.	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
818.	Haryana Janta Party	Village & Post Office – Risalu, Tehsil & District – Panipat, Haryana – 132103
819.	Haryana Kranti Dal	Babain Road, Ladwa, District – Kurukshetra Haryana
820.	Haryana Lokhit Party	Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector – 15, Gurgaon, Haryana – 122001

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
821.	Haryana Navnirman Sena	101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.
822.	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.
823.	Haryana Sarvajan Party	H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District – Yamuna Nagar, Haryana.
824.	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.
825.	Himachal Jan Kranti Party	H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176215
826.	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.
827.	Hind Congress Party	C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
828.	Hind Ekta Mission	Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.
829.	Hind Jan Congress	72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.
830.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
831.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
832.	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
833.	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.
834.	Hind Samdarshi Party	F-64, Galaxy Apartment, Sector – 43, Gurgaon, Haryana – 122002.
835.	Hind Samrajya Party	512/695K/1, Walda Road, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226007.
836.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
837.	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad(Uttar Pradesh).
838.	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
839.	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
840.	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
841.	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
842.	Hindustan Janmorcha	House No. 1, Village & Post – Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh – 244182.
843.	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
844.	Hindustan Kranti Dal	Village – Tundlaka, Panchayat – Goudhola, P.O & Tehsil – Punahana, Distt. – Mewat (Nuh), Haryana.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
845.	Hindustan Krantikari Dal	A-65, Sector – 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
846.	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.
847.	Hindustan Peoples Party (Rajpal)	85A-Mohiley Nagar, Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
848.	Hindustan Sampurna Azad Party	Village- Narsanda, P.O +P.S- Kanti, District- Muzaffarpur, Bihar-843109
849.	Hindustan Shakti Sena	H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab
850.	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
851.	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil- Bhuj, District- Kachchh, Gujarat – 370001
852.	Hindustan Utthan Party	House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugrasi, Tehsil- Syana, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403
853.	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah, District – Bhojpur – 802301 Bihar.
854.	Hindustani Awaam Party	H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
855.	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District – Gaya, Bihar-823001.
856.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
857.	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi – 110041.
858.	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5, Krishna Nagar, Safdarjang Enclave, New Delhi.
859.	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.
860.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
861.	Hitech Party	B-85, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
862.	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
863.	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
864.	Hum Kisan Party	House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar, Road No. 1, Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
865.	Hum Sabki Party	Village – Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani), Post – Jalalpur, District - Jaunpur, Uttar Pradesh – 222136
866.	Ilantamilar Munnani Kazhagam	1/159, Periyar Nagar, Thirisulam, Chennai, Tamil Nadu-600043
867.	Independent Indian Congress	At/Post Pimpalgaon By Mahalunge, Tal. – Ambegaon, Dist. – Pune, Maharashtra – 410503

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
868.	Independent People's Party	House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala, Jammu, Jammu & Kashmir.
869.	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai – 600 041. Tamil Nadu.
870.	Indhu Dravida Makkal Katchi	No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu - 600069
871.	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011, Tamil Nadu.
872.	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani – 638301, Erode District, TAMIL NADU.
873.	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana- 500053
874.	India Rising Party	H.N. 39, Fatehpur, Kapoorapur-1, Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj, Uttar Pradesh- 209723
875.	India Samadhan Party	H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669
876.	Indian Aarthik Sudhar Party	H. No.- 1, Manjit Nagar, Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab.
877.	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
878.	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
879.	Indian Business Party	1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place, New Delhi-110008.
880.	Indian Christian Front	LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.
881.	Indian Christian Secular Party	Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village, Secunderabad – 500 009.
882.	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43, P.O. – Abhinaba Bidanasi, Cuttack-753014 Orissa.
883.	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja- Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
884.	Indian Democratic Party	D – 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura, Delhi – 110054
885.	Indian Democratic Republican Front	House No.-404, Sanjay Colony, Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
886.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi – 110 001.
887.	Indian Gandhiyan Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala-680509.
888.	Indian Indira Congress (R)	1-Roop Rajat Nagar, Behind New Bus Stand, Pali, Rajasthan –306401

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
889.	Indian Justice Democratic Party	TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandharamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001
890.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi –110 005.
891.	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. – Faridkot, Punjab.
892.	Indian Labour Party (Ambedkar Phule)	D.No.26-28-118, 1st Line, Netaji Nagar, A.T. Agrapharam, Guntur, Andhra Pradesh – 522004.
893.	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
894.	Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam	No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
895.	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
896.	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48, Hakeempet (I.A.S.) Colony, Towli Chowki, Post – Golkonda Fort, Hyderabad – 500008, Andhra Pradesh.
897.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
898.	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
899.	Indian National Parivartan Party	C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra- 400703
900.	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2nd Floor, 1st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
901.	Indian Oceanic Party	K-316, M.B.Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.
902.	Indian People's Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
903.	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
904.	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1, Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
905.	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.
906.	Indian Praja Congress	Mathrudevobhava, Shop No. 1, Ground floor, Liberty Plaza, Door No. 3-6-365/UG/3-4, Himayath Nagar, Hyderabad, Telangana- 500029
907.	Indian Public Federation Party	220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi- 110033
908.	Indian Public Party	Gujarat Housing Colony, Room No. - 1103, Block No.7/B, New Dablia, Bharatnagar, Bhavnagar-364001Gujarat.
909.	Indian Rakshaka Nayakudu Party	House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District- Mahabub Nagar, Telangana State-509208
910.	Indian Sarvahit Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025.
911.	Indian Savarn Samaj Party	H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
912.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.
913.	Indian Socialist Republican Congress	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra – 415002.
914.	Indian Unity Centre	Village-Ichangari, P.o. & P.S- Jagatballavpur, Dist- Howrah, Pin- 711408, West Bengal.
915.	Indian Vikas Party	Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101
916.	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage, Bangalore – 560 054, Karnataka.
917.	Indian Youth Party	7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
918.	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens, Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.
919.	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripallam-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu
920.	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).
921.	Indiya Jananayaka Katchi	No.9, 3rd Avenue, 34th Street, Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
922.	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post – Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri – 262 804Uttar Pradesh.
923.	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
924.	Inqlabi Party	Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.
925.	Insaafwadi Party	Village & post – Piyari, P.S. – Chaubeypur, District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.
926.	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda , Gujarat - 387330.
927.	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
928.	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
929.	Istatantra Parisad	At Village/Mouza – Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. – Gadisagoda, District – Puri, Odisha
930.	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.
931.	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.
932.	Jaago Bharat Front	D – 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
933.	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
934.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
935.	Jago Bharat Jago Party	14A/ 84, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
936.	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
937.	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.
938.	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
939.	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vatika Bunglows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda, Gujarat.
940.	Jai Andhra Party	D. No. – 14-71, Chagalnadu Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.
941.	Jai Bharat National Party	H.No. 22/630, DDA Flat, Madangiri, New Delhi- 110062
942.	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
943.	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakkpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
944.	Jai Bharath Jena Sena Party	D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh – 520015
945.	Jai Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492 001.
946.	Jai Hind Congress Party	Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771
947.	Jai Hind Party	Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.
948.	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.
949.	Jai Hindustan Party	H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507
950.	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.
951.	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil –Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
952.	Jai Janta Party	Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar – 821101.
953.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
954.	Jai Jawan Jai Kisan Party	First Floor, H. No. – 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala, Punjab - 147001.
955.	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
956.	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram, Vill.- Bukkapuram, Tehsil – Alampuram, Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652.
957.	Jai Manavta Party	H. No. 1, Samriddhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.
958.	Jai Prakash Janata Dal	190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091
959.	Jai Samaikya Andhra Party	D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District – East Godavari, Andhra Pradesh – 533 214.
960.	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.
961.	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
962.	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
963.	Jamat -E- Seratul Mustakim	P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal – 732206
964.	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
965.	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.
966.	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
967.	Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party	Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir
968.	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.
969.	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar, Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
970.	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.
971.	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
972.	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
973.	Jammu Kashmir People's Party (Secular)	96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004
974.	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpura Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
975.	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.
976.	Jan Aawaj Party	Jhinhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.
977.	Jan Adesh Akshuni Sena	House No.117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh
978.	Jan Adhikar Manch	9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
979.	Jan Adhikar Party	House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.
980.	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Ward No. 05/14, Vardhman Hata, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar-854301.
981.	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
982.	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
983.	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.
984.	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
985.	Jan Congress Party	Ward No. 1. House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam- 785612.
986.	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan, Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.
987.	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI, Shamsherpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
988.	Jan Jan (United) Party	Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 211013
989.	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
990.	Jan Kalyan Party	Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.
991.	Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar	C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.
992.	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
993.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
994.	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
995.	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
996.	Jan Raajya Party	110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh.
997.	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
998.	Jan Sadharan Party	House No – 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand – 834001
999.	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1000.	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1001.	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi- 110094.
1002.	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar, Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
1003.	Jan Sangharsh Congress	C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049
1004.	Jan Sangharsh Virat Party	Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District – Sagar Uttar Pradesh.
1005.	Jan Sangram Party	House No. 482, Sector – 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra -7, UP.
1006.	Jan Satya Path Party	1st Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat- 380022.
1007.	Jan Seva Sahayak Party	Village – Tal Mahawar, Tehsil – Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh
1008.	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1009.	Jan Sevak Party	L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,
1010.	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
1011.	Jan Shakti Ekta Party	Village – Mandanpur, Post- Meerganj, District – Bareilly, Uttar Pradesh – 243504.
1012.	Jan Shakti Party of India	7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141 010.
1013.	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase –1, Mathura, Uttar Pradesh-281001
1014.	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpuri, Khargapur, Vikas Khand – Chinhat, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh .
1015.	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
1016.	Jan Swabhavik Party	636/09 Budh Vihar Colony, Phase I, Takrohi, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
1017.	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1018.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
1019.	Jana Jagruti Party	D.No. 78-12-2, Flat No. 101-102, Shanti Residency, Syamala Nagar, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh- 533103
1020.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
1021.	Jana Samanyara Party (Karnataka)	Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya, 1st Main, 5th Cross, Vijaya Nagar, Tumkur, Karnataka – 572102.
1022.	Jana Samrudhi Party	Kashipur-Balarampur, Unit-18, P.O.- Keonjhar, P.S- Town, District- Keonjhar, Odisha- 758001.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1023.	Jana Swarajya Party	H.O. 83/A, 3rd Ward, Kamma Bazar, Sandur-583119, Karnataka.
1024.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkata-700017 (West Bengal).
1025.	Jana Vaahini Party	Door No. 28-5-37A, 12th Road, Santhi Nagar, Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh-534001
1026.	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai – 400072.
1027.	Janadhipathiya Kerala Congress	Near Jawahar Balbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District – Kottayam, KERALA.
1028.	Janadhipathya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
1029.	Janahitha Paksha	D. No. 109, 2nd Ward, Kamma Street, Bellary, Karnataka – 583101.
1030.	Janam Manam Party	13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102
1031.	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
1032.	Janapaalana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034.
1033.	Janasena Party	House No. 8-2-293/82/HH/91/A/201, Huda Heights, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500033 .
1034.	Janata Congress	278A, 1st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1035.	Janata Party	A-77, Nizamuddin East, New Delhi.
1036.	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad, Haryana.
1037.	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.
1038.	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha(Madhya Pradesh).
1039.	Janhit Bharat Party	730, Arra Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021
1040.	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
1041.	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad – Maharajganj, Janpad – Maharajganj – 273303 Uttar Pradesh.
1042.	Janhit Lokshahi Party	Room No. – 41/3, Gaondevi Road, Pavanegaon, Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.
1043.	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi , Post- Hasanpur, Block- Baliakhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh-247111

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1044.	Jankranti Samaj Party	House No. 16, Sadarpur Colony, B.D.S. Market, Som Bazar, Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.
1045.	Janlok Rashtriya Party	452, Sector –19, Dwarka, New Delhi.
1046.	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
1047.	Janmat Party	C2A/107, Pocket-16, Janakpuri, New Delhi-110058.
1048.	Janmat Vikas Paksha	Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.
1049.	Jannayak Janta Party	S.C.O. 20, Second Floor, Distric Commercial Centre, Huda Market, Sector- 56 , Gurugram, Haryana- 122001
1050.	Jan–Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex, Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road, Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
1051.	Janral Samaj Party	Surat Printing Press, Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
1052.	Jansamuday Party	57, 1st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1053.	Jansatta Dal Loktantrik	Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204
1054.	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park, Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
1055.	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1056.	Janshoshit Samaj Party	A-618/7, Street No. – 8, Bhajanpura, Delhi - 110053
1057.	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal- Manpur, District- Gaya, Bihar-823003
1058.	Janta Dal Rashtravadi	House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.
1059.	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1060.	Janta Kranti Party (Rashtravadi)	No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1061.	Janta Raj Party	House No. 43, Village – Tejpura, Post – Indore, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233226
1062.	Janta Raj Vikas Party	Village- Chakfaij, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distirct- Vaishali, Bihar-843114.
1063.	Janta Sarkar Party	I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi-110089
1064.	Janta Sena Rajasthan	Mukam Post: Vallabhnagar, District – Udaipur, Rajasthan – 313601.
1065.	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1066.	Jantantrik Lokhit Party	2nd Floor, P. Mall, B-Block, Exhibition Road, Patna bearing Ward No. 6 (Old), 18 (New), Sheet No. 30, Circle No. 06., M.S.P.- 832, 839, 1282, Bihar.
1067.	Jantantrik Samta Party	H.No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245
1068.	Jantantrik Vikas Party	201, P.Mall, Second Floor, Exhibition Road, District- Patna, Bihar-800001
1069.	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Raod, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.
1070.	Janvadi Party (Socialist)	B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1071.	Jateeya Sama Samajam Party	1-24, Dinnadevarapadu Village, Kurnool Mandal, Kurnool –District, Andhra Pradesh- 518002
1072.	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittor District, Andhra Pradesh.
1073.	Jatiya Mahila Party	B-922, N.G.O's Colony, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070
1074.	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.
1075.	Jay Hind Jay Bharat Party	N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1076.	Jebamani Janata	No.33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
1077.	Jharkhand Anushilan Party	Vill + Post – Jhilimili, P.S.– Barikul, Distt – Bankura, West Bengal – 722135.
1078.	Jharkhand Disom Party	12, Road No.21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831005, Jharkhand.
1079.	Jharkhand Jan Kranti Morcha	House No. 36, Dinkar Nagar, P.O. – Hatia Railway Colony, PS – Jagarnathpur, Ranchi, Jharkhand.
1080.	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand.
1081.	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi – 834 001 (Jharkhand)
1082.	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace Road, Ranchi – 834 001, Jharkhand.
1083.	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
1084.	Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)	Shukla Colony, Post Hinoo, Ranchi Distt, Ranchi-834002 (Jharkhand).
1085.	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
1086.	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghnunathpur, P.O.Jhargram, District- Midnapur-721507 (West Bengal).
1087.	Jharkhand Party (Secular)	Village – Unideeh, Post – Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1088.	Jharkhand People's Party	P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
1089.	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
1090.	Jharkhand Vikas Dal	273, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
1091.	Johaar Party	Village- Dadha Tand, P.O & P.S. Itki, District- Ranchi, Jharkhand- 835301
1092.	Justice Party	Village- Diktan Khera, P.O- Harchandpur, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303
1093.	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram, Post – Bichhia P.A.C. Camp, P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.
1094.	Kaivinayger Munnetra Kazhagam	Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).
1095.	Kalinga National Front	At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.
1096.	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.
1097.	Kalyana Kranthi Party	#57, 2nd Floor, 3rd Main Adithyanagar, 8th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
1098.	Kalyankari Jantantrik Party	B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.
1099.	Kalyanwadi Party	16, Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sitapur, Uttar Pradesh- 261203
1100.	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
1101.	Kamarajar Deseeya Congress	7-Velayudha, Raja Street, Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1102.	Kamatapur People's Party (United)	Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri, District- Jalpaiguri, West Bengal-735210
1103.	Kamgar Samaj Dal	H. No.9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
1104.	Kamtapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling – 734433, West Bengal.
1105.	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
1106.	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli – 580030, Karnataka.
1107.	Kannada Paksha	No. 259/1, 1st Floor, Ranghswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
1108.	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Araji No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
1109.	Karma Party	Shop No. – 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector – 29, Gurgaon, Haryana - 122002

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1110.	Karnataka Jantha Paksha	# 11, 12th Main 17th Cross, Malleshwaram, Bengaluru – 560055, Karnataka
1111.	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1st Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
1112.	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16th Main, 6th Cross, 1st Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076 (Karnataka).
1113.	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011
1114.	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2nd "A" Main Road, 7th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka – 560091
1115.	Karnataka Praja Party (Raitha Parva)	Flat No. 104, Adith Apartment, SJCE Collage Road, Telecom Layout, Vagdevinagar, Mysuru, Karnataka-570009.
1116.	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Karnataka- 560073
1117.	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
1118.	Karnataka Swabhimani Raithara Karmikara Party	Khatha Assessment No. 565/7782/6536, C.K.Pura, Main Road, Chitradurga, Karnataka-577501
1119.	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka – 591317.
1120.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
1121.	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khera, Meerut, UTTAR PRADESH.
1122.	Karunaadu Party	Sa-13/2, No:7th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
1123.	Kashmir Development Front (J&K)	House No. 254 – Main Road, Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.
1124.	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1125.	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road, Sakardara, Dist- Nagpur, Maharashtra- 440024.
1126.	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
1127.	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
1128.	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala).
1129.	Kerala Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala
1130.	Kerala Congress Secular	Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).
1131.	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1132.	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O, Kaduthuruthy, Kerala- 686604
1133.	Kerala Kamaraj Congress	Building No.- NMC XII/342D, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, Kerala- 695121.
1134.	Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist- Marxist)	No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath , Kollam, Kerala- 690521
1135.	Kerala Vikas Congress	EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632
1136.	Khandesh Vikas Congress Party	Building No.2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon – 425 001.
1137.	Khun Hynnietrip National Awakening Movement	Jaiaw Lower Lansonallane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya - 793002
1138.	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil- Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
1139.	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1140.	Kisan Adhikar Party	A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107
1141.	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor, 24, Opposite Carrit Cinema, Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.
1142.	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).
1143.	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur, Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh
1144.	Kisan Majdoor Praja Party	A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.
1145.	Kisan Majdoor Suraksha Party	House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil- Gabhana, District- Aligarh Uttar Pradesh-202001
1146.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow(Uttar Pradesh).
1147.	Kisan Mazdoor Sangharsh Party	Bharosa City, Village-SarosaBharosa, Post- Maunda, Block-Kakori, District- Lucknow, UTTAR PRADESH – 226008
1148.	Kisan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sthan, P.S- Pupri, District- Sitamarhi Bihar -843320.
1149.	Kisan Raj Party	Junior L.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh- 486001
1150.	Kisan Raksha Party	529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside Datiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh- 284001
1151.	Kisan Samaj Morcha	Bichola Bhlood, Post – Patriya, Tahsil – Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
1152.	Kisan Samaj Party (S)	Jhinnapurva, Post – Dhakherva Nankar, Tehsil – Nighasan, Distt. – Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
1153.	Kisan Sena	101, Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau, Kannouj, UTTAR PRADESH.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1154.	Kisan Shakti Jantantrik Party	H.No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.
1155.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
1156.	Kishore Raj Party	L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1157.	Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi	301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu – 638501.
1158.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
1159.	Kongunadu Jananayaga Katchi	“Irai Arul” No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu – 641004.
1160.	Kongunadu Makkal Desia Katchi	No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007
1161.	Kosal Janata Dal	Plot No-JC-02, Phase-01, Chhend Colony, Rourkela, District- Sundargarh, Odisha- 769015
1162.	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.
1163.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambalpur-768004 (Orissa).
1164.	Koshal Mukti Morcha	Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.
1165.	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.
1166.	Kranti Dal	132, Babuganj, Lucknow (U.P.).
1167.	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil – Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1168.	Kranti Parishad	House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
1169.	Krantikari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
1170.	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.
1171.	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).
1172.	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.- Patna-800007, Bihar.
1173.	Krantikari Yuva Party	H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi- 110035.
1174.	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
1175.	Krupaa Party	Plot No. 452, Khata No. 69, Santi Vaban, Village- Pahana, P.O- Tikanpur, G.P- Ramchandrapur, P.S- Patakura, District- Kendrapara, Odisha- 754153

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1176.	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
1177.	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1178.	Labour Party (Secular)	382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.
1179.	Labour Party of India	A-160, 2nd Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Near Metro Pillar No.42, Delhi – 110092
1180.	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1181.	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
1182.	Lakshya Ghar Ganatantrik Party	Puruni Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. – Jharsuguda, Odisha
1183.	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018
1184.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
1185.	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
1186.	Liberal Democratic Party	Village – Santipur (Mirza), Post Office – Mirza, Police Station – Palashbari, District – Kamrup, Assam - 781125.
1187.	Liberal Party of India	6/12, Sarvapriya Vihar, New Delhi- 110016.
1188.	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. – 359, Sector – 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1189.	Lok Awaz Dal	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
1190.	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
1191.	Lok Bharati	A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai- 400062.
1192.	Lok Chetna Dal	Village - Pakari Jalal, P.O. – Shubhankarpur, District – Muzaffarpur, Bihar – 843113.
1193.	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).
1194.	Lok Ekta Party	S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.
1195.	Lok Gathbandhan Party	No. B – 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001
1196.	Lok Hit Rashtriya Vikas Party	Grain Market, Longowal, District – Sangrur, Punjab.
1197.	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1198.	Lok Jan Sangharsh Party	Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802
1199.	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1200.	Lok Janhit Party	Village – Daloopur Sultanpur, Post – Prempur, Janpad – Kannauj, Uttar Pradesh.
1201.	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittupur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.
1202.	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1203.	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar -II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
1204.	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.
1205.	Lok Raksha Party	Village & Post Office Sirsa, District – Etawah, Uttar Pradesh.
1206.	Lok Samaj Party	B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi- 110090
1207.	Lok Satta Party	Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana’.
1208.	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.
1209.	Lok Shahi Party (Secular)	187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.
1210.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
1211.	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector – 21, Gandhinagar, Gujarat .
1212.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
1213.	Lokjagar Party	Plot No.17, Mehfil, Sanmarg Nagar, Hudkeshwar Road, District- Nagpur, Maharashtra- 440034
1214.	Loknayak Party	172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
1215.	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
1216.	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
1217.	Loksangram	H.No. 1321, Lane No.4, Dhule – 424001, Maharashtra.
1218.	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.
1219.	Lokshahi Satta Party	‘Panchvati’ Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk – Bavla, District – Ahmedabad, Gujarat - 382220.
1220.	Lokshasan Andolan Party	259, Village Guha, Tal. Rahuri, District – Ahmednagar, Maharashtra – 413705.
1221.	Lokshasan Party of India	S.No. 67, Plot No. 25, Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanager, Pune -411032, MAHARASHTRA.
1222.	Loktanter Suraksha Party	Khasra No. 21/9/1 and 10/2, Mangolpuri Industrial Area, Phase- I, Opp. TVS Agency, Near IBP Petrol Pump, Mangolpuri, New Delhi- 110083
1223.	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
1224.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1225.	Loktantrik Jan Swaraj Party	Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438
1226.	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.
1227.	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107, Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District – Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1228.	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part –II, Gurugram, Haryana-122001
1229.	Loktantrik Janwadi Party	S- 25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sarsauli, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221002
1230.	Loktantrik Manavatavadi Party	Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1231.	Loktantrik Rashtravadi Party	E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujrat- 382245.
1232.	Loktantrik Samajik Nyay Party	H. No. E-5, Indira Gandhi Marg, East Vinod Nagar, Delhi – 110091.
1233.	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
1234.	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar).
1235.	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chember No. 1, District Court, Mandla – 481 661, Madhya Pradesh.
1236.	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025Bihar.
1237.	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1238.	Loktrantrik Janata Front	E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
1239.	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).
1240.	Maanavvaadi Janta Party	Village- Dogi, Post Office- Gorour, P.S. – Chhabilapur, Via – Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116.
1241.	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
1242.	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase – 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.
1243.	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004.Madhya Pradesh.
1244.	Maha Loktantra Party	Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad – 211002, UP.
1245.	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).
1246.	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1247.	Mahajana Mandali Party	H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500020.
1248.	Mahajana Rajyam Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1249.	Mahajana Socialist Party	Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh
1250.	Mahakaushal Vikas Party	‘Shanti Kutir’ 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
1251.	Mahakranti Dal	Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222148.
1252.	Mahamukti Dal	Village Usarav, Post Office – Itayen, Tehsil – Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1253.	Mahan Bhartiya Sangathan Party	Village & Post- Jangral, Police Station- Vagdod, Tehsil- Saraswati, Distict- Patan, Gujarat.
1254.	Mahan Dal	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
1255.	Mahanayak Sardar Patel Sangh	52/98, IInd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
1256.	Mahanwadi Party	Village & Post – Kutubpur Chanora, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1257.	Maharana Kranti Party	H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan.
1258.	Maharashtra Parivartan Sena (T)	Village – Mangvadgaon, Taluk – Kej, District – Beed, Maharashtra
1259.	Maharashtra Swabhimaan Paksh	Sukhsagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1st floor, 16th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050
1260.	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.
1261.	Mahasankalp Janta Party	Shop No. 22, Sun Shine Complex, Refinery Road, Panchvati Gorwa, Vadodara, Gujarat – 390016
1262.	Mahatma Gandhi National Labour Party	3/366 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707
1263.	Mahila & Yuva Shakti Party	H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001
1264.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
1265.	Mahila Pradhana Paksha	1261, 16th Main, 20th Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka.
1266.	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1267.	Mahila Swabhiman Party	Village–Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District – Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.
1268.	Mai Hee Bharat	2A, “Royal” Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
1269.	Maidani Kranti Dal	Headquarters Masjid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1270.	Majdoor Kisan Akali Dal	Village – 75 GB, Post Office – 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil – Anoopgarh, Distt. – Ganganagar, Rajasthan.
1271.	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251 001.
1272.	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
1273.	Majlis Markaz-e-Siyasee Party	10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MLA's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500028, Andhra Pradesh .
1274.	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
1275.	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu.
1276.	Makkal Desiya Katchi	137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600034
1277.	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002.
1278.	Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam	No. 13A, 1st Floor, Thiyagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.
1279.	Makkal Masotha Katchi	No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109
1280.	Makkal Nalvaazhvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1281.	Makkal Needhi Maiam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
1282.	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1283.	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai –600015, Tamil Nadu.
1284.	Makkal Sananayaga Kudiয়ারasu Katchi	No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.
1285.	Makkalatchi Katchi	No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.
1286.	Makkalatchi Munnetra Kazhagam	5/187, Dr. J.J. Street, Kasapapuram, Agaramthem, Chennai, Tamil Nadu- 600126
1287.	Mana Desam Party	A1, 1st Floor, Ananta Sai Apartments, Vivekanand Nagar Colony, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh- 72
1288.	Mana Party	5-4-719, Kattelamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1289.	Manav Adhikar Raksha Party	36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.
1290.	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.
1291.	Manav Hit Party	575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh- 207001
1292.	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi – 110062.
1293.	Manav Kalyan Manch	Sa. 6/186, M.X. – 1.Aktha, Varanasi, Uttar Pradesh.
1294.	Manav Kranti Party	New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District- Fatehpur, Uttar Pradesh- 212655
1295.	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13, Ahead the Patthar Mill, PO. Medini Nagar – 822 101, Distt. Palamu (Jharkhand).
1296.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
1297.	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).
1298.	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
1299.	Manavtawadi Kranti Dal	Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmamau, Post – Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1300.	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village – Jarahra, Indira Nagar, Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
1301.	Manipur Democratic People's Front	Lairik Yengbam Leikai(South), Opposite-33KV Electric Sub-Station, Near K.M. Tower, Tirupati Lane, Imphal East - 795010Manipur.
1302.	Manipur National Democratic Front	Koijam Apartment, VIP Colony-107/109, Babupara, Imphal West, Manipur- 795001
1303.	Manipur People's Party	People's Road, Imphal 795001 (Manipur)
1304.	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
1305.	Manitha Urimaigal Kalaagam	14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001 Tamil Nadu.
1306.	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1307.	Manithaneya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai- 600001, Tamil Nadu.
1308.	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucnow-226004, Uttar Pradesh.
1309.	Manvadhikar National Party	12, 2nd Floor, Swagat Complex, Rambaug Road. Maninagar, Ahmedabad, Gujarat- 382443
1310.	Manviya Bharat Party	Village & Post – Rampur Naddi, Tehsil – Madhiyahu, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1311.	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimtui District (Mizoram).
1312.	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra – 413512.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1313.	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	'THAYAGAM' No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
1314.	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO &TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905
1315.	Marxist Communist Party of India (United)	Saidpur, Patna-800004 (Bihar).
1316.	Marxist Co-ordination	115 MLA Flat, Bir Chand Patel Path, Patna-800004 (Bihar).
1317.	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thrissur District, KERALA- 680301.
1318.	Marxwadi Janata Party	33, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.
1319.	Maryadi Dal	Gram Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.
1320.	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.
1321.	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
1322.	Mazdoor Dalit Kisaan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh
1323.	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi- 110032
1324.	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015
1325.	Meenavar Makkal Munnani	No. 51, Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu -600013.
1326.	Megh Desham Party	Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.
1327.	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
1328.	Mera Adhikaar Rashtriya Dal	House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024
1329.	Mera Gaon Mera Desh Party	H. No. 142, Village – Islampur, P.O. – South City – II, Gurgaon, Haryana - 122018
1330.	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.
1331.	MGR Thonderkal Katchi	No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District- 629156, Tamil Nadu.
1332.	Mihir Sena	Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1333.	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
1334.	Mithilanchal Mukti Morcha	Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar – 847203.
1335.	Mithilanchal Vikas Morcha	Mahuar, Gaura Bauram, Post – Aasi, District - Darbhanga, Bihar – 847203.
1336.	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1337.	Moderate Party	Village – Khakhari (Maghara Chauraha P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh.
1338.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
1339.	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).
1340.	Moolniwasi Samaj Party	Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh – 276137 Uttar Pradesh.
1341.	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.
1342.	Mother India Party	Khasra No. 143, Kurre ke bad bana No. 143/3, Gram - Jaunsamana, Pargana & Tehsil - Dadri, District - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
1343.	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
1344.	Mulnibasi Party of India	Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS- Dumkal, West Bengal-742406
1345.	Mundadugu Praja Party	D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010
1346.	Musalsal Iman Samaj Party	261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1347.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).
1348.	My India Party	No. 447/265, 2nd floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
1349.	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002
1350.	Naam Tamilar Katchi	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai – 600 116 Tamil Nadu .
1351.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
1352.	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1353.	Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party	A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062
1354.	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1355.	Nagrik Ekta Party	19/1168, Indira Nagar, Lucknow, UTTAR PRADESH.
1356.	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. – 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1357.	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumharan Tola First, Gola Gokarannath, Distric- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh-262802
1358.	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1359.	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1360.	Nalvazhikkazhagam	Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu – 600002.
1361.	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
1362.	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
1363.	Namathu Kongu Munnetra Kalagam	5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701
1364.	Namma Congress	No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore – 560087 Karnataka.
1365.	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.
1366.	Nasha Mukht Bharat Party	Tejaswi House, VivekVihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1367.	National Adhikar Insaf Party	House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab
1368.	National Aman Party	Moh. Punjabiyan, Nagina, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246762
1369.	National Apni Party	D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi-110094.
1370.	National Awami United Party	H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir- 180002
1371.	National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal	1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan – 334003.
1372.	National Bhrashtachar Mukht Party	576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131
1373.	National Black Panther Party	Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.
1374.	National Confederacy of India	63, Southern Avenue, Flat No. – 9, Kolkata, West Bengal – 700029.
1375.	National Dalitha Dhal Party	7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126
1376.	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village – Maulanipur Bazar, Post – Tarwan, Tehsil – Lalganj, District – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1377.	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
1378.	National Democratic Party (Indian)	H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001
1379.	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023
1380.	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
1381.	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony, Bidar – 585 401, Karnataka.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1382.	National Federal Party	House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi – 110057.
1383.	National Fifty Fifty Front	H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243005
1384.	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
1385.	National Jagaran Party	H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road, Patna, Bihar - 800001.
1386.	National Janhit Congress (AB)	043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.
1387.	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
1388.	National Jansatta Party	Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post – Khorl, Tehsil – Shahpura, District – Jaipur-303103 Rajasthan.
1389.	National Janta Party (Indian)	Plot No. 385, Khata No. 105, Village – Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. – Bhagwanpur, District – Vaishali, Bihar – 844114.
1390.	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.
1391.	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
1392.	National Lokmat Party	Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh
1393.	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001(Uttar Pradesh).
1394.	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1395.	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078(Tamil Nadu).
1396.	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
1397.	National Peace Party Secular	Village – Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil – Chaayal, District – Kaushambi, Uttar Pradesh - 212218.
1398.	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh
1399.	National Progressive Party	House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi – 110041
1400.	National Republic Party of India	N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068
1401.	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Masjid, Dispur Guwahati, Assam -781006.
1402.	National Sarvasamaj Party	H. No. 66, Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village – Pasaunda, Pargna – Loni, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001
1403.	National Secular Conference	MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT., Kerala - 673572.
1404.	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention, New Delhi-110 016.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1405.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1406.	National Target Party	No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.
1407.	National Tiger Party	Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaon, District- Bhagalpur- Bihar- 813203.
1408.	National Unionist Zamindara Party	129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan-335001.
1409.	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar, Jaipur-302023, Rajasthan.
1410.	National Welfare Party	16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu
1411.	National Women's Party	H.No.2-247, Sri Sai Nagar, (Near Venkateshwara Swamy Temple), Jilleguda Saroor Nagar, Hyderabad - 500097, Andhra Pradesh
1412.	National World Life Panchatatva Party	Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District – Shajapur, Madhya Pradesh
1413.	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
1414.	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
1415.	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1416.	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)
1417.	Nationalist Trinamul Congress Party	19/7/130-A, Thanapara Road, P.O. – Dinhat, District – Coochbehar, West Bengal.
1418.	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.
1419.	Nav Bharat Democratic Party	Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).
1420.	Nav Bharat Rashtriya Congress Party	B- 100, New Ashok Nagar, New Delhi- 110096
1421.	Nav Chetna Party	Mohalla – Jagat Nagar, Kasba & Post – Bhongaon, District – Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1422.	Nav Jankranti Party	B – 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh – 221001
1423.	Nav Yuvak Dal	Village - Tikra, Post – Ghunghter, Tehsil – Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225302
1424.	Nava Bharat National Party	Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District. Andhra Pradesh.
1425.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
1426.	Nava Praja Rajyam Party	Old H. No.10-30, New H. No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1427.	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddharam Village, Gopalpeta Mondal, Wanaprhty District, Telangana- State.
1428.	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No.8, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
1429.	Navam Disha Dal	4/684, Vihav Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010
1430.	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
1431.	Navataram Party	D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District – Guntur, Andhra Pradesh - 522616
1432.	Navbahujan Samajparivartan Party	185, Sahyadrinagar, G – Ward, AT/Post – Lonavla, Tehsil – Maval, District – Pune, Maharashtra – 410401.
1433.	Navbharat Ekta Dal	Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027
1434.	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.
1435.	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1436.	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
1437.	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.
1438.	Navodayam Party	D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh.
1439.	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
1440.	Navyug Party	1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi – 110017.
1441.	Naya Bharat Party	8- Bapu Sabji Mandi, Nagar Palika Road, Sumerpur, Rajasthan –306902
1442.	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony, New Delhi-110024.
1443.	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur, Tehsil & Distt. – Gurgaon, Haryana.
1444.	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussienabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).
1445.	Netaji Adarsh Party	298, Kuttiyani, 28 – Thodupuzha, Idukki District, Kerala – 685584.
1446.	Netaji Jansevak Party	H.No.88, Nivhara Ikhara, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264
1447.	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla – Gayatri Nagar, City & Post – Banda, Distt. - ShahjahanpurUttar Pradesh – 242402.
1448.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
1449.	New All India Congress Party	A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi – 110092.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1450.	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh, NEW DELHI-110005.
1451.	New Generation People's Party	30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025
1452.	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani, -505209, Distt. Karimnagar(Andhra Pradesh).
1453.	New India United Party	No. 4, Second Floor, Second Cross, D.R.Bendre Layout, Gubbi Cross, 350/1/4, Kothanur, Bangalore, Karnataka-560077
1454.	New Life People's Party	No.15/16, 'Judie Flats', No. 13, Rosary Church Road, Santhome, Chennai-600004, Tamil Nadu.
1455.	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025
1456.	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra – 421305
1457.	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap Complex Opp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
1458.	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai – 400 034, Maharashtra.
1459.	Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal	House No. 105T, Mohalla- Jungle Salik Ram, Bypass Road, Sangram Chowk, Padri Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh -273014
1460.	Nirbhay Bharteey Party	27, Sahajanand Bunglows, Motera, Ahmedabad, Gujarat-380005
1461.	Nirdhan Samaj Party of India	11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir, Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh – 208011
1462.	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502
1463.	Nirmal India Party	SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur, Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.
1464.	Niswarth Seva Rashtra Seva Party	House No. 56, Indalpur, Post- Dandi, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh- 211008
1465.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand, Mahendregarh, Haryana.
1466.	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1467.	Noorie Party	102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.
1468.	North East India Development Party	Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal West, Manipur-795001
1469.	North East Social Democratic Party	Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw, Shillong-793008, East Khasi Hills District, Meghalaya.
1470.	Odisha Jan Morcha	Plot No.17, Village Nakhaur, PO Gopinathpur, District – Khurda, Bhubaneswar – 751002, Odisha.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1471.	Odisha Pragati Dal	Khatian No. 99/180, Plot No. 420/1360, Brundamal, P.O.- Badmal, P.S.- Katarbaga, Tehsil- Jharsguda, District- Jharsuguda, Odisha- 768202.
1472.	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.
1473.	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1474.	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
1475.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
1476.	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
1477.	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
1478.	Pachai Tamizhagam Katchi	12/143 Idinthakarai, Harijancolony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.
1479.	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
1480.	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post- Raisana, Tehsil- Nadoti, District- Karuli, Rajasthan-322215
1481.	Panthers Republican Party	‘Anandvan’, Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005
1482.	Param Digvijay Dal	H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh
1483.	Parbatiaya Prajatantrik Party	39/A, Leborg Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling West Bengal-734301
1484.	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
1485.	Parivartan Party of India	Monu Rawat, Pohri Bye Pass, Intercity Bus Walon Ke Peeche Wali Gali, Rajpura, Circular Road Circuit Housing Tiraha, Tehsil and District- Shivpuri, Madhya Pradesh- 473551
1486.	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
1487.	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
1488.	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Pratikrit Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
1489.	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
1490.	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur, Orissa- 768001.
1491.	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
1492.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
1493.	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H. No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1494.	Pasumpon Makkal Kazhagam	Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu – 600 020.
1495.	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
1496.	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.
1497.	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj, PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1498.	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
1499.	Pedala Party	D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal – Podili, District – Prakasam, Andhra Pradesh – 523240.
1500.	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
1501.	People Liberation Party	4/611, Pughazhendhi Road, 4th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu- 600037
1502.	People's Action Party	363, Nainagarh, Prem Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh-284003
1503.	People's Liberal Party	104/01, Gram Gangana, Gram Panchayat Boranada, Tehsil- Luni, District- Jodhpur, Rajasthan-342012
1504.	People's Party	A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand
1505.	People's Party for Liberty	AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O, Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544
1506.	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar, Chandershekharpur, Bhubaneswar-751021, Orissa.
1507.	People's Party of Punjab	7112, Ward No.2, Malout Road, Gidderbaha (Mukatsar), Punjab-152101.
1508.	People's Union Party	Shop No. 24+25, Sundar Sankul, Dhayri- Narhe Main Road, Village- Dhayri, Taluka- Haveli, District- Pune, Maharashtra- 411041
1509.	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office – Birati, Kolkata – 700051, West Bengal.
1510.	People's Democratic Forum	C-177, Sector'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
1511.	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
1512.	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.
1513.	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) – 411 006.
1514.	Peoples Movement of India	9/215/22, Yojna – 3, Sector –9, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019.
1515.	Peoples Party of India (Democratic)	111, Astha Complex, Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka& District- Bharuch, Gujarat- 392001
1516.	Peoples Power Party	P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1517.	Peoples Representation for Identity and Status of Mizoram (PRISM) Party	A-16, Upper Republic, Aizawal, Mizoram- 796001
1518.	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1519.	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1520.	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
1521.	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
1522.	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh, NaglaKhandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1523.	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh- 491001
1524.	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.
1525.	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.
1526.	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokarajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
1527.	Political Essential & Accurate Council of Experts Party	Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh – 531116.
1528.	Poorna Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathehgarh, District- Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1529.	Poorvanchal People's Party	12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
1530.	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1st Floor, Rohini, Delhi-110085.
1531.	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor, Kolkata – 700072, West Bengal.
1532.	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1533.	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.
1534.	Pragatisheel Janta Party	“Satya Pramod” Abhimanyu Nagar, Bailey Road, Post – Danapur, P.S. – Rupaspur, Danapur, Patna, Bihar – 801503.
1535.	Pragatisheel Lok Manch	Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post – Arjunpur (Haldwani), District – Nainital Uttarakhand.
1536.	Pragatisheel Magahi Samaj	H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla – Madaanpur(Akshayvat), Thana – Civil Lines, Distt. – Gaya, Bihar.
1537.	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1538.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007(Uttar Pradesh).
1539.	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1540.	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1541.	Prahar Janshakti Party	H.No. 1634, Grampanchayat- Belora, Tehsil- Chandur Bazar, District- Amravati, Maharashtra- 444704
1542.	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block 'A', Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
1543.	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1544.	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070.
1545.	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1546.	Praja Parivartan Party	No. 9/228, 1st Main 3rd Cross, (behind Jaibheem Petrol Bunk) Nanjappa layout, Anekal Town, Bangalore urban District, Karnataka-562106
1547.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).
1548.	Praja Raj Party	287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur –245101, Uttar Pradesh.
1549.	Praja Satta Party	1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP – Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500098.
1550.	Praja Seva Party	D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chitoor- District, Andhra Pradesh- 524401
1551.	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1552.	Prajaa Raita Raajya Paksha	H. No. 937, Manjunatha Nagar, Kengeri Road, Tavarakere, Bangaluru South, Karnataka- 562130
1553.	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1554.	Prajamandal Party	Barthwal Niwas, Sheetla Mata Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.
1555.	Prajasattak Bharat Paksha	At. Shileshwar, Post – Bhadas, Tal. Mulshi, District – Pune-412108 Maharashtra .
1556.	Prajasattak Lokrajya Party	Village & Post – Parasi, Tehsil – Mangawan, District – Rewa, Madhya Pradesh – 486111.
1557.	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. – 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post – Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District – Nanded, Maharashtra- 431602.
1558.	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1559.	Prajantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedbad-382345, Gujarat.
1560.	Prajantra Congress Party	Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh
1561.	Prajantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Utrakhand
1562.	Prajantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
1563.	Prajantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.
1564.	Prajantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
1565.	Prajantrik Samajvadi Party	C-17, Yadav Nagar, Village – Samaypur, Delhi-110042.
1566.	Pravasi Nivasi Party	Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011
1567.	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1568.	Prema Vahini Dal	Village & Post- Antarpada, Via- Balipadar, District- Ganjam, Odisha.
1569.	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
1570.	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
1571.	Prithviraj Janshakti Party	H.No. 45-A, Village- Kiratpur, Post- Pindra, Tehsil- Pindra, Police Station - Phoolpur, District- Varanasi, Uttar Pradesh.
1572.	Progressive Democratic Party	Village and Post- Surjawali(Salempur), District- Bulandshahar-203001, Uttar Pradesh.
1573.	Progressive Party	B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi – 110084.
1574.	Progressive People's Party	House No. -975, 976, Shyam Colony, Budh Vihar Phase-II, Near Krishna Mandir, P.S. – Vijay Vihar, DELHI- 110086.
1575.	Proutist Bloc, India	C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi – 110074
1576.	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
1577.	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.
1578.	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014
1579.	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.
1580.	Public Political Party	14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.
1581.	Puducherry Development Party	No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1582.	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street, Thendral Nagar, Puducherry - 605013.
1583.	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector – 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.
1584.	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab
1585.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
1586.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
1587.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
1588.	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
1589.	Puratchikara Thozhilalar Katchi	No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600088
1590.	Purvanchal Navnirman Party	Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403
1591.	Purvanchal Gan Parishad	House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.
1592.	Purvanchal Janata Dal	Village and Post Office – Janadi, District – Ballia, Uttar Pradesh.
1593.	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar, Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
1594.	Purvanchal Janta Party (Secular)	Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi- 110078.
1595.	Purvanchal Kranti Party	Yadavganj, Post – Sikrara, District – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1596.	Purvanchal Mahapanchayat	No. 601 D, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1597.	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House), Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1598.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
1599.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1600.	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
1601.	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501, (Andhra Pradesh).
1602.	Qaumi Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar, District - Mau, Uttar Pradesh.
1603.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
1604.	Radical Democrats	D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.
1605.	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen, Tehsil & Distt. Raysen-464551, MADHYA PRADESH.
1606.	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1607.	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand, Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
1608.	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
1609.	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Malakhera, District- Alwar, Rajasthan- 301001
1610.	Rajasthan Navnirman Party	H.No. 4F, 1st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001
1611.	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road, Jaipur-302012. (Rajasthan).
1612.	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
1613.	Rajlok Party	B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi –110084
1614.	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
1615.	Rajnaitik Vikalp Party	204 – Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna – 800001 Bihar.
1616.	Rajya Nojawan Shakti Party	Near Gandhinagar Police Station, Jammu, Jammu & Kashmir.
1617.	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secunderabad-17, Andhra Pradesh.
1618.	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Bangalore-560024.
1619.	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag – 582 101, Karnataka.
1620.	Rani Laxmibai Krantikari Party	Shop No. 6, Rahul Bazar, Commercial Complex, 1st floor, Sitaburdi, Nagpur, Maharashtra- 440012
1621.	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi, Khatipura Road, Jhotwada, Jaipur – 302 012, Rajasthan.
1622.	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office, S.G. Barve Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070Maharashtra.
1623.	Rashtra Mangal Mission Party	Kamdheni Krupa, Kacho Madh, Pilaji Ganj, Sriram Chowk, Mehsana, Gujarat – 384001.
1624.	Rashtra Nirman Party	D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.
1625.	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.
1626.	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.
1627.	Rashtra Vahini Party	412, S.K. Shyam Heights, Sampat Hills, Bhicholi Mardana, Indore, MADHYA PRADESH- 452016
1628.	Rashtra Vikas Zumbes Party	2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar, Modhera Cross Road, Mehsana, Gujarat – 384002
1629.	Rashtrahit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. – 2, Mehrauli, New Delhi – 110030.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1630.	Rashtrasamarjit Jansamooch	H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi- 110051
1631.	Rashtravadi Bahujan Kranti Party	Mohalla – Chiranjilal, Town – Afzalgarh, Tehsil – Dhampur, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246722.
1632.	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
1633.	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
1634.	Rashtravadi Kranti Dal	Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra- 400101
1635.	Rashtravadi Loktantrik Party (India)	35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059
1636.	Rashtravadi Party (Bharat)	Village- Kakrana, Post- Dhaulana, District- Hapur, Uttar Pradesh-245301
1637.	Rashtravadi Pratap Sena	Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1638.	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1639.	Rashtrawadi Chetna Party	House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-110041
1640.	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1641.	Rashtrawadi Jan Congress	Santosh Bhawan, Road No.1 Extension, Rajvanshi Nagar, Patna, Bihar - 800023
1642.	Rashtrawadi Janlok Dal	934/1, Near- Vadi, Mota Madh, At&Po- Valam, TA- Visnagar, District- Mahesana, Gujarat – 384310
1643.	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014 UTTAR PRADESH.
1644.	Rashtrawadi Janwadi Manch	H.No.-160, Jodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh
1645.	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085
1646.	Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.)	M.C. Unit No. 4 – 467, Noonsar Johad, Patram Gate, Bhiwani, District – Bhiwani, Haryana – 127021
1647.	Rashtrawadi Party of India	Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana – Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402
1648.	Rashtrawadi Praja Dal	C-2/60, Ram Park – I, Loni, District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102
1649.	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near PadamApartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
1650.	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan, Tehsil- Gauriganj, Distt. Distt. Amethi, UTTAR PRADESH.
1651.	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032
1652.	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1653.	Rashtrawadi Swarn Ekta Party	Plot No. 11, 2nd Floor, Awadhपुरी Khand – I, Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1654.	Rashtrawadi Yuva Party	ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat, P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur, District- Muzaffarpur, Bihar-842004.
1655.	Rashtriya Aadarsh Member Party	Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339
1656.	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020
1657.	Rashtriya Aam Party	Office no. 19A, 2nd Floor, Om Heera Panna Mall, New Link Road Oshiwara, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra – 400053
1658.	Rashtriya Aamjan Party	B-225, Old Minal, J.K.Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
1659.	Rashtriya Adarsh Party	Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
1660.	Rashtriya Agraniye Dal	Village – Khamona, Post – Resipur, P.S. – Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.
1661.	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatma Gandhi Road, Kolkata – 700 007.
1662.	Rashtriya Aikta Manch Party	D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041
1663.	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
1664.	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1665.	Rashtriya Antyodaya Congress	SS-III / 800, Sector – 1, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.
1666.	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur, Allahabad, UTTAR PRADESH
1667.	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak-124001.Haryana.
1668.	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiv Nagar-1, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
1669.	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road, Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
1670.	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
1671.	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001, UTTAR PRADESH
1672.	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1673.	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
1674.	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village – Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District – Meerut, UTTAR PRADESH.
1675.	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhal, Pune-411 031 (Maharashtra).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1676.	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
1677.	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	86-B, DDA Flats, Masjid Moth, Phase-II, Greater Kailash Part III, New Delhi-110 048.
1678.	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. – 14, Village & Post – Behta, Vikas Khand – Masauli, P.S. – Safdarganj, District – Barabanki, UTTAR PRADESH.
1679.	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
1680.	Rashtriya Bujurg Shakti Party	House No. – 144, Village – Mangawas, Post Office – Palra, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
1681.	Rashtriya Bundelkhand Vikas Party	1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi- 110032
1682.	Rashtriya Chanakya Party	Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201310
1683.	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri, Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.
1684.	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
1685.	Rashtriya Dal United	G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden, Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
1686.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
1687.	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village – Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. – Piparpur, Tehsil – Amethi, District – Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
1688.	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
1689.	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
1690.	Rashtriya Ekta Party	H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi – 110053.
1691.	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan, Ward No.14, Kithore, District- Meerut, Uttar Pradesh.
1692.	Rashtriya Ekta Vikas Party	Near Noor Masjid, Madina Masjid Transformer Wali Gali, Ashok Vihar Ward No.42, Loni, Tehsil and District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1693.	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
1694.	Rashtriya Garib Utthan Party	Village – Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil – Jalalpur, P.S. – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
1695.	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
1696.	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
1697.	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223, Chhattisgarh.
1698.	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1699.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghorl Bachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1700.	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra (Uttar Pradesh).
1701.	Rashtriya Hind Sena	158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203, Uttar Pradesh.
1702.	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
1703.	Rashtriya Hindustan Shakti Dal	I- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053
1704.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
1705.	Rashtriya Independent Morcha	At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostel), P.O./Via.: Keonjhargarh District – Keonjhar-758001, Odisha.
1706.	Rashtriya Indira Party	Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
1707.	Rashtriya Jagriti Party	Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar – 800020.
1708.	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab-151204.
1709.	Rashtriya Jan Adhikar Party (United)	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareilly, Uttar Pradesh.
1710.	Rashtriya Jan Awaz Party	MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462003
1711.	Rashtriya Jan Gaurav Party	470, Parmanatpur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O- Kachahari, Tehsil- Sadar, District- Jaunpur Uttar Pradesh-222002.
1712.	Rashtriya Jan Jan Party	Village- Nawada Khurd, Post- Sahdullahpur, via- Hajipur, District- Vaishali, Bihar.
1713.	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
1714.	Rashtriya Jan Sagar Party	Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District- Baran, Rajasthan- 325205.
1715.	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.
1716.	Rashtriya Jan Sahyog Party	Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110
1717.	Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
1718.	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T.Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.
1719.	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
1720.	Rashtriya Janadhar Party	596 S.K. – 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1721.	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1722.	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur, Post: Dhopathat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.
1723.	Rashtriya Janandholan Paksha	“Powrabhavan”, No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
1724.	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally), (Near Shib Mandir)P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.
1725.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
1726.	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
1727.	Rashtriya Janhit Sangharsh Party	109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.
1728.	Rashtriya Jan-Jagran Morcha	Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
1729.	Rashtriya Jankranti Morcha	Village- Babhne Alam Nagar, P.O-Pratappur, District: Chatra, Jharkhand -825404
1730.	Rashtriya Jankranti Party	5/24 H-10 (R) ITI Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001
1731.	Rashtriya Janmat Party	Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
1732.	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C- Block, Mustafabad, Delhi-110094.
1733.	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony, Kanpur Road.Lucknow-226012, UTTAR PRADESH.
1734.	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehtora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
1735.	Rashtriya Janrakshak Party	Village – Birjapur, Post – Aduki, Distt. MathuraUTTAR PRADESH
1736.	Rashtriya Jansabha Party	Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh-494226
1737.	Rashtriya Jansambhavna Party	U.K Sahni Commercial Complex, Room No.101, First Floor, Village- Rajopatti, District- Sitamarhi, Bihar-843302.
1738.	Rashtriya Jansanchar Dal	600/279/031N, Sumit Nagar, Faridipur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101
1739.	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh
1740.	Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party	Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand – 834001.
1741.	Rashtriya Jansena Party	Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District- Dhule, Maharashtra
1742.	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabgharh-121004, Distt. - Faridabad, Haryana.
1743.	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
1744.	Rashtriya Janshakti Party (Secular)	417-A, Jaina Tower-III, A-1 Block, Janakpuri, New Delhi- 110058

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1745.	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh-230001, Uttar Pradesh.
1746.	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(E), Maharashtra-440008.
1747.	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi – 110049
1748.	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony, Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH.
1749.	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini, Delhi – 110085
1750.	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
1751.	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
1752.	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.
1753.	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office- Dhelwan, Thana- Beur District- Patna Bihar 800020.
1754.	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.
1755.	Rashtriya Janwadi Party (Socialist)	1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007
1756.	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
1757.	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqualab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
1758.	Rashtriya Kamgar Party	B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088
1759.	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
1760.	Rashtriya Karmyog Party	Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.
1761.	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
1762.	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1st Floor, Greater Kailash –II, New Delhi- 110048.
1763.	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
1764.	Rashtriya Kisan Samaj Party (United)	Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244501
1765.	Rashtriya Kisan Shramik Party	Village- Takhat Khera, Post- Akampur Bihar, Bagwant Nagar, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209864
1766.	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
1767.	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1768.	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi –110043.
1769.	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
1770.	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
1771.	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
1772.	Rashtriya Lok Janta Party	H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225
1773.	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
1774.	Rashtriya Lok Sarvadhikar Party	H. No. –630, Village-Pasonda, Bodh ViharMandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1775.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
1776.	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla – Nagla Kashi, Tehsil – Dhaulana, District – Hapur. Uttar Pradesh - 245301.
1777.	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1778.	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
1779.	Rashtriya Lokraj Party	H. No. 73/382, Mohalla – Vankhandi Teela, (Behind of Sahkari Bank), Mathura, Uttar Pradesh- 281001.
1780.	Rashtriya Lokshahi Party	Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3, House No. 411 & 412, Village – Beed Budhruk, Taluka – Karjat, District - Raigad, Maharashtra.
1781.	Rashtriya Lokshakti Party	Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath, Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh - 262802
1782.	Rashtriya Lokswaraj Party	Padma Farm, Village – Chhapra Khera, Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal, Haryana.
1783.	Rashtriya Loktantrik Party	Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony, Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District- Nagaur, Rajasthan-341001.
1784.	Rashtriya Loktantrik Sambhav Secular Party	H. No. 411, Krishna Bihari Nagar, Banda Sagar Road, Varma Tiraha, District & Tehsil – Fatehpur, Uttar Pradesh.
1785.	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi – 110015.
1786.	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
1787.	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl, Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.
1788.	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1789.	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
1790.	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Village – Adda Chhinparai, Post – Chhinparai, Naujhil, Mathura, Uttar Pradesh - 281203
1791.	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West, Mumbai- 400056Maharashtra.
1792.	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Saintha Jiginiya, Post – Kanta Guljarpur, Block – Fatehpur, Distt. – Unnao, Pin-209801 UTTAR PRADESH.
1793.	Rashtriya Mahila Party	340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502
1794.	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
1795.	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara, Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
1796.	Rashtriya Manav Samman Party	H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram, Allahabad-211006.
1797.	Rashtriya Manav Vikas Party	House No. 249, Village- Sathalpur, P.O- Dhawarsi, Tehsil- Hasanpur, Block- Gangeswari, District- Amroha, Uttar Pradesh-244242
1798.	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
1799.	Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Party	Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir, District- Bharatpur, Rajasthan.
1800.	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Malihabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
1801.	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi –110009.
1802.	Rashtriya Mazdoor Kisan Party	Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil- Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1803.	Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party	Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.
1804.	Rashtriya Morcha Party	H.No.57, Village – Manesar, Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon, Haryana-122050.
1805.	Rashtriya Nagrik Party	H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New Delhi- 110068
1806.	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinpuri, New Delhi – 110062
1807.	Rashtriya Nav Nirman Bharat Party	No.- K-33, F/F, AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi- 110024
1808.	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
1809.	Rashtriya Peace Party	17G/322, Sector – 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1810.	Rashtriya Power Party	101, Ashram Avenue, B/H, Kochrab Ashram, Paldi Cross Road, Ellisbridge', Ahmedabad, Gujarat – 380006
1811.	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1812.	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
1813.	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
1814.	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
1815.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
1816.	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
1817.	Rashtriya Rakshak Morcha	31, Alkapuri, Behind New High Court, City Center, Gwalior, MADHYA PRADESH- 474011
1818.	Rashtriya Rashtrawadi Party	2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh -226012.
1819.	Rashtriya Sadbhavna Party	Village- Raghupur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana- Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110
1820.	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidopur New, Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
1821.	Rashtriya Saf Niti Party	Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District- Jaipur, Rajasthan- 303301
1822.	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
1823.	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi- 110049
1824.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
1825.	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
1826.	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. – Basupar (Bankut), Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyanpur, District – Ajamgarh, Uttar Pradesh.
1827.	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P.Giri Colony, Birdopur, Varanasi, Uttar Pradesh.
1828.	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue, B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedbad-380009, Gujarat.
1829.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
1830.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
1831.	Rashtriya Samajwadi Swabhimani Manch	Plot No. 33/34, Laxmi Nagar, Risali, Bhilai, District- Durg, Chhattisgarh- 490006
1832.	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
1833.	Rashtriya Samdarshi Deshbakt Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
1834.	Rashtriya Samrasta Party	No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1835.	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerpur Singhara, Post- Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
1836.	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
1837.	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
1838.	Rashtriya Sangail Party	Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001
1839.	Rashtriya Sangam Dal	7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002
1840.	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201Uttar Pradesh.
1841.	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur-413512, Maharashtra.
1842.	Rashtriya Sanyukt Party	5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District – Furrukhabad, Uttar Pradesh - 209625.
1843.	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
1844.	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001, Uttar Pradesh.
1845.	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K.Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra.
1846.	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.
1847.	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village- Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1848.	Rashtriya Sarvodaya Party	A-412, AG Colony, P.S. – Shastri Nagar, District - Patna, Bihar – 800025.
1849.	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
1850.	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051
1851.	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment, Mathura Dawaraka Road, P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6, ASSAM.
1852.	Rashtriya Shahri Vikas Party	H. No. 8/69(40, 40A) PuranaQuila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
1853.	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Munirka Village, New Delhi-110067.
1854.	Rashtriya Shoshit Samaj Party	Village – Lohvan, Post – Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District – Mathura, Uttar Pradesh.
1855.	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House, B/H, Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.
1856.	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
1857.	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road, Azamgarh-276001 Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1858.	Rashtriya Unnatisheel Dal	F.167, Chand Bagh Colony, P.O. Gokulpuri, Delhi – 110094.
1859.	Rashtriya Uttarakhand Party	124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
1860.	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
1861.	Rashtriya Vikalp Party	Village – Piprauli, Post – Jahangirabad, Janpad – Barabanki, Uttar Pradesh
1862.	Rashtriya Vikas Manch Party	Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.
1863.	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
1864.	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
1865.	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District- Bahraich, Uttar Pradesh-271870
1866.	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket –2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.
1867.	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony, Kamla Nagar, Agra-282005 Uttar Pradesh.
1868.	Rashtriya Yuva Samaj Party	18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028
1869.	Rashtriya Yuva Sangh	B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091
1870.	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
1871.	Rastriya Insaaf Party	604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh
1872.	Rastriya Naba Nirman Party	Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO- Berhamapur, PS – Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha – 760009
1873.	Rastriya Praja Chakravayuha Party	No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115.
1874.	Rastriya Sadabahar Party	72, Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post- Gulzarbagh, Thana- Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.
1875.	Rayalaseema Congress Party	5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kasp, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh – 516267.
1876.	Rayalaseema Parirakshana Samithi	Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh – 518003
1877.	Rayalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta, Kadapa District, Proddatur-516360, Andhra Pradesh
1878.	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat – 395006.
1879.	Regional Democratic Secular Congress	Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong – 793004 Meghalaya.
1880.	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1, M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1881.	Republican Bahujan Sena	305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra – 400606
1882.	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.
1883.	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).
1884.	Republican Party of India	Satnam Mansion, 3rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai – 400001
1885.	Republican Party of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
1886.	Republican Party of India (Kamble)	A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.
1887.	Republican Party of India (Karnataka)	Office No. 49/1, B.Nagasandra, Yamaluru Post, Bangalore, Karnataka- 560037.
1888.	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
1889.	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park, Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
1890.	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
1891.	Republican Party of India (Social)	Property No.-2618, Ward No. Tukum-2, (Old Ward 1C), Samta Colony, Opp. St Workshop, Tadobe Road, Chandrapur, Maharashtra- 442401
1892.	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
1893.	Republican Party of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003, (Madhya Pradesh).
1894.	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
1895.	Republican Sena	Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road, Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001
1896.	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
1897.	Revolutionary Democratic Party of India	5221, Street No. – 115, B – Block, Sant Nagar, Burari, Delhi – 110084.
1898.	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, PhagwariMohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.
1899.	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu, P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
1900.	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
1901.	Right Party of India	Village & P.O. – Uttar Bahir Gachi, P.S. – Nakashipara, District – Nadia, West Bengal - 741126.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1902.	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
1903.	Sab Samaan Party	House No. 95 K, Village – Sarsanda, Post – Gopramau, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh
1904.	Sabbath Party	Shop No.3, Laxmi Niwas Building, M.N. Road, Kurla (W), Mumbai-400070, MAHARASTRA.
1905.	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakpur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
1906.	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinhat, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
1907.	Sabki Party	B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
1908.	Sabse Achchhi Party	House No.- 222, Amipur Nangola, Majra- Haidernagar, Tehsil & District- Hapur, Uttar Pradesh.
1909.	Sabse Badi Party	41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091
1910.	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
1911.	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
1912.	Sadbhavana Party	Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
1913.	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex, Sanyukat Yatra Bus Adda Road, Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Disstt. Dehradun-249201.Uttarakhand
1914.	Sajag Samaj Party	Mohalla- Nasahi, Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180
1915.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
1916.	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
1917.	Samagra Utthan Party	House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar-800013
1918.	Samagra Vikas Party	1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh – 250001.
1919.	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B(Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
1920.	Samaikyandhra Parirakshana Samithi	H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet – 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1921.	Samaj Adhikar Kalyan Party	Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab
1922.	Samaj Bhalai Morcha	134/17-C, Milap Nagar, Hoshiarpur, Punjab- 146001
1923.	Samaj Parivartan Party	Village – Salarpur, Post – Karaura, Tahsil – Machhlishahar, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1924.	Samaj Seva Party	House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
1925.	Samaj Sevak Party	568Kh/223, Sector – 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
1926.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).
1927.	Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)	House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District – Basti, Uttar Pradesh - 272178.
1928.	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
1929.	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
1930.	Samajtantric Party of India	40/1, B – Road, Bamanghachi, Howrah – 711 006, (West Bengal).
1931.	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana – 509001
1932.	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
1933.	Samajwadi Janata Dal Democratic	14, Dr. Bishambhar Das Marg, New Delhi – 110 001.
1934.	Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar)	Narendra Niketan, Behind Police Headquarters, Indraprastha Estate, New Delhi-110002.
1935.	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No.21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No.2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.
1936.	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1937.	Samajwadi Samaj Party	Ward No.13, Lohia Nagar, Nagar Panchayat – Salempur, Janpad - Deoria, Uttar Pradesh – 274001
1938.	Saman Aadmi Saman Party	Village- Amilwan, Post- Khutar, P.S.-Mada, District- Singrauli, Madhya Pradesh- 486886.
1939.	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cantt, Agra, Uttar Pradesh.
1940.	Saman Bhagidari Party	538Kh/404, Dindyal Nagar, Khadra, Sitapur Road, Lucknow, UTTAR PRADESH-226020
1941.	Samaniya Makkal Nala Katchi	Door No. 298A, Krishnagiri Main Road, Uthangarai, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635207.
1942.	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District- Koppal, Karnataka- 583227
1943.	Samarth Kisan Party	Prabandhak – Mother Teresa Convent School, Village & Post – Manauri, Tehsil – Chayal, Janpad – Kaushambi, Uttar Pradesh.
1944.	Samata Kranti Dal	Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar, Garage Chhaka, Temple Road, old Town Bhubaneswar – 751002, Odisha.
1945.	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1946.	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
1947.	Samata Sangharsh Party	55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051
1948.	Samathuva Makkal Kazhagam	139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur, Chennai, Tamil Nadu-600019.
1949.	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
1950.	Samoohek Ekta Party	13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001
1951.	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. – 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
1952.	Sampoorna Bharat Kranti Party	WZ- 150, Village- Bodhela, VikasPuri, New Delhi- 110018
1953.	Sampoorna Kranti Dal	Village – Khajoori Kalan, Post – Khajoori Khurd, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh
1954.	Sampoorna Samaj Party	H. No. 464, Village & Post – Gairwah, P.S. – Sarpatahan, Tehsil – Shahganj, District – Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.
1955.	Samras Samaj Party	Raji Jarai, Mouja – Ghamroj, Tehsil – Sohna, District – Gurgaon, Haryana.
1956.	Samrat Ashok Sena Party	House No. 1546, Village and Post- Belsar, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda, UTTAR PRADESH-271401
1957.	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneswar – 751001, Orissa.
1958.	Samta Dal (Pragatisheel)	H. No. 480, Village – Lisari, Tehsil & District – Meerut, Uttar Pradesh - 250002.
1959.	Samta Samjwadi Congress Party	K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj, Varanasi - 221001, Uttar Pradesh
1960.	Samta Vikas Party	House Harbhajan Jangde, Ward No. 17, Mandideep, Tehsil – Goharganj, District - Raisen, Madhya Pradesh
1961.	Samtawadi Republican Party	108, Rampuram, PAC Road, Kanpur, Uttar Pradesh.
1962.	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kancheipuram Dt.Tamil Nadu – 602105.
1963.	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden, Anna Salai, Palavakkam, Chennai-600041, TAMIL NADU.
1964.	Samyak Parivartan Party	Village –Janki Nagar, Behind of Ranipurwa School, Vikas Khand – Jhanjhri, Near of Mande Nala Bridge, Post – Bus Stop, Janpad – Gonda, Uttar Pradesh.
1965.	Samyak Party	Village and Post- Manda, District- Allahabad, Uttar Pradesh-212104
1966.	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
1967.	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village – Taraon, Post, Thana & Tehsil – Koraon, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
1968.	Sangharsh Party of India	House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1969.	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village – Dhaka, P.O. – Akha, Tehsil – Aonla, District – Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
1970.	Sangharsh Sena	11, Sairaj Complex, Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District – Thane, Maharashtra – 421601
1971.	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi- 110093
1972.	Sankhyanupati Bhagidari Party	New Vignapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001
1973.	Sanman Rajkiya Paksha	56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra – 445002
1974.	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
1975.	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra – 282004, Uttar Pradesh.
1976.	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S. – Araniya, Tehsil – Khurja, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh.
1977.	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari, District-Bijnaur, Uttar Pradesh.
1978.	Sapaks Party	144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004
1979.	Sardar Patel Siddhant Party	Village – Newada, Post – Bahuta, Tehsil – Patti, District – Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
1980.	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.
1981.	Sarv Jan Sarv Samaj Party	2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi – 110027.
1982.	Sarv Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
1983.	Sarv Vikas Party	Village – Prateet Nagar, N.H. – 58, Near of Post Office, Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.
1984.	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village – Ghitorni, New Delhi-110030 .
1985.	Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla)	Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.
1986.	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga – 577227 Karnataka.
1987.	Sarva Samaj Kalyan Party	Bijraj Bhawan, Village - Singharpur, Post – Ahamadpur, Mathura Road, Aligarh, Uttar Pradesh.
1988.	Sarva Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1989.	Sarva Sanjhi Party	Saggar Hospital, Near Peer Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001
1990.	Sarva Suraksha Party	Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh
1991.	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil – Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1992.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow(Uttar Pradesh).
1993.	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.
1994.	Sarvajan Kalyan Loktantrik Party	COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak, West Boring Canal Road, Patna, Bihar – 800023.
1995.	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar, Kankarbag, Patna-800020, Bihar.
1996.	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur-143511 Punjab.
1997.	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge, Road ways, Azamgarh, Uttar Pradesh.
1998.	Sarve Bhavanti Sukhinah Party	Village & Post - Mamdar, Tehsil & P.S. – Rampur Naikin, District – Sidhi, Madhya Pradesh.
1999.	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
2000.	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
2001.	Sarvjan Samta Party	774, Geetanjali Vihar, Ward No. 28, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201102
2002.	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
2003.	Sarvochcha Rashtriya Vikas Mahaparishad	C-90, DDA Flat, West Gorakh Park, (New Jafrabad) Shahdara, Delhi-110032.
2004.	Sarvodaya Bharat Party	B- 19, Sector- O, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
2005.	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor, SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
2006.	Sarvodaya Prabhat Party	B-3/231, Nand Nagri, Delhi- 110093
2007.	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.
2008.	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan- 302039.
2009.	Sarvshreshth Dal	Village - Shahdaudpur or Kakorgahna, P.O. & Tehsil – Sader, District – Jaunpur, Uttar Pradesh
2010.	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi –221005, Uttar Pradesh.
2011.	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Plot No. 2005, Village – Chamrahara, Mahnar Road, District – Vaishali, Bihar - 844507.
2012.	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
2013.	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-1, Delhi- 110091.
2014.	Satya Kranti Party	H. No. – 176 E, Shivpur, Sahbazganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2015.	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village – Narharpur (Shankarpur), P.O. Miyaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
2016.	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra – Mumbai Road, Indore – 452 008, Madhya Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2017.	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.
2018.	Satyug Party	Village – Sukhatola, Dumri, Post – Kasya, Distt. – Kushinagar, Uttar Pradesh.
2019.	Saurashtra Janta Paksha	H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001
2020.	Savarn Samaj Party	East of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
2021.	Secular Alliance of India	Keswani Complex, 1st Floor, Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd., Chopda Court Branch, Ulhasnagar – 421003. Maharashtra.
2022.	Secular Democratic Congress	No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O- Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala- 670674
2023.	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
2024.	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
2025.	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
2026.	Secular Republican Democratic Party	Adam star Complex, Room No. 132, 1st Floor, 2ndBlock, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
2027.	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
2028.	Serv Bhalai Party	H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.
2029.	Seva Dal	V.P.O., Village- Titoli, Tehsil & District- Rohtak, Haryana
2030.	Seva Samrajya Party	Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. – Palam, District – Parbhani, Maharashtra- 431536.
2031.	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
2032.	Shane Hind Fourm	B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi- 110052
2033.	Shanti Morcha	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
2034.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
2035.	Shining India Party	Ward No.6, Post – Deshnoke, District - Bikaner, Rajasthan – 334801
2036.	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140 406.
2037.	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, DELHI-110009.
2038.	Shiromani Lok Dal Party	Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2039.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
2040.	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi, Tal. Malegaon, District – Nashik, Maharashtra.
2041.	Shivrajya Party	Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai- 400052
2042.	Shoshit Samaj Adhikar Party	Tehsil – Kole, Thana – Gandhi Park, Janpad – Aligarh, Uttar Pradesh – 202001.
2043.	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).
2044.	Shoshit Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
2045.	Shoshit Sandesh Party	Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.
2046.	Shramajeevi Party	1-6-48, Old Alwal, Post – Bollaram, Secunderabad – 500010, Andhra Pradesh.
2047.	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006(Gujarat).
2048.	Shreshthatam Rashtra Party	Village – Jagsar, Post – Sarsava, Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
2049.	Shri Janta Party	Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.
2050.	Shubha Karnataka	House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka
2051.	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).
2052.	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
2053.	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126
2054.	Sikkim Liberation Party	Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737134
2055.	Sikkim Rajya Manch Party	Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim- 737134
2056.	Sikkim Republican Party	Central Pendam, Sajong Ward No.- 3, P.O.- Upper Pendem, P.S.- Rongpo, East Sikkim- 737132
2057.	Sikkim Sangram Parishad	Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.
2058.	Sikkim United Front	Sapkota Building , Assam Lingzey Souraney, P/O- Assam Lingzey, P.S- Ranipool, East Sikkim- 737135
2059.	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
2060.	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
2061.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
2062.	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9th Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram District, Chennai, Tamil Nadu-600075
2063.	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon – 122002, Haryana.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2064.	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).
2065.	Social Democratic Party of India	8/2, First Floor, Jangpura Extn., Hospital Road, Bhogal, New Delhi-110014.
2066.	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinavirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy- District, Telangana State- 501505
2067.	Social Movement Party	H.O. – 539, Lane No. – 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.
2068.	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi – 110 092
2069.	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
2070.	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
2071.	Socialist Party Secular	505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.
2072.	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).
2073.	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata – 700 013, West Bengal.
2074.	Socialist Workers Party	Plot No – 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. – Aiginia, District – Khordha, Bhubaneswar, Odisha – 751019
2075.	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.
2076.	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
2077.	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village – Sonkhas, Tq. – Ner, District – Yavatmal, Maharashtra - 445102.
2078.	Studentz United For Nation Party	D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501
2079.	Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party)	F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003
2080.	Sudesi Makkal Needhi Katchi	No. 24/38, FF2, Kutti Gramini Street, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu- 600028
2081.	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village - Mirangaj, Post Office - Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh - 221712
2082.	Sukhee Samaaj Party	344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.
2083.	Sunder Samaj Party	Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.
2084.	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635653
2085.	Super Stars Makkal Kalagam	D. No. 26, AVP Layout, 2nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu- 641603

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2086.	Suraaj Party	6-81, Office Building, Vishal Estates, Village – Annaram, Mandal – Jinnaram, District – Medak, Andhra Pradesh – 502313
2087.	Suraaj Seva Dal	Village – Ramdi Jasuva, P.O. – Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District – Nainital, Uttarakhand
2088.	Suraksha Samaj Party	Mohalla – Tarkapur (SonkarBasti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil – Sadar, Janpad – Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.
2089.	Sushasan Party	House No. 558, Vill. + Post – Badsa, Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
2090.	Swatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. – 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhyog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
2091.	Swabhiman Janta Dal	Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar-802119
2092.	Swabhiman Party	31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh – 492001
2093.	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra – 416 101.
2094.	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
2095.	Swachh Swasth Swawlambijan Party	H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228001
2096.	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, NaiBasti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh- 277001
2097.	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra, Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2098.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
2099.	Swaraj India	Unit 109, 1st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055.
2100.	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
2101.	Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
2102.	Swaraj Party (Loktantrik)	H.No. -17, Village – Mogalpur, Gram Panchayat – Mogalpur, P.O. – Bakhtiyarpur, District – Patna, Bihar – 803212
2103.	Swarajya Nirman Sena	House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.
2104.	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
2105.	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya, P.O. Sadar, Distt. Mirzapur – 231001, Uttar Pradesh.
2106.	Swarna Bharat Party	G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana – 122017.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2107.	Swarna Yuga Party	No. 26, “ Amma” Ist Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore – 560 094, Karnataka.
2108.	Swarnim Bharat Inquilab	L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
2109.	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.
2110.	Swatantra Bharat Paksha	‘Rahi’, Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
2111.	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi, Uttar Pradesh- 284001.
2112.	Swatantra Party (Jan)	195, ST Mary’s Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
2113.	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali, Dariyaganj, New Delhi-110 002.
2114.	Swatantra Samaj Party	Village & Post – Lebhri, P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239, District – Siwan, Bihar.
2115.	Taayi Nadu Party	44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka
2116.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
2117.	Tamil Maanila Congress (Moopanar)	No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai – 600018.
2118.	Tamil Maanila Katchi	No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu – 600007
2119.	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.
2120.	Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam	Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu.
2121.	Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam	No. 27, 1st Floor, Gudiyattam Road, Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- District, Tamil Nadu- 632007
2122.	Tamil Nadu Ilangyar Katchi	No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur, Chennai, Tamil Nadu- 600116
2123.	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
2124.	Tamil Telugu National Party	Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street, T. Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu- 607203
2125.	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu – 624008.
2126.	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
2127.	Tamilaga Sthabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2128.	Tamilar Desiya Munnani	119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu-600043
2129.	Tamilar Makkal Katchi	Village – Thumbalahallidam, P.O. – Gendiganahalli, Taluk – Palacode, District – Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.
2130.	Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
2131.	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.
2132.	Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi	Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.
2133.	Tamilnadu Makkal Urimai Katchi	43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu – 636015.
2134.	Tamilnadu Telungu Makkal Katchi	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021
2135.	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9, East 7th Street, Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
2136.	Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai – 600020, Tamil Nadu.
2137.	Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi	13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu – 636451.
2138.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
2139.	Telangana Communist Party of India	H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.
2140.	Telangana Inti Party	14-70, V.T. Colony, Post & Mdl.- Nekirekal, District- Nalgonda, Telangana, - 508211
2141.	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munuganoor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2142.	Telangana Jana Samithi	Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016
2143.	Telangana Karmika Raithu Rajyam Party	Village – Bairanpally, Post – Siddapur, Mandal – Hasanparthy, District – Warangal, Telangana.
2144.	Telangana Labour Party	H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jublee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.
2145.	Telangana Loksatta Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secundrabad- 500015 Andhra Pradesh
2146.	Telangana Minorities OBC Rajyam	17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh -500023.
2147.	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2nd Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, K P H B Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500072.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2148.	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
2149.	Telangana Praja Shakthi Party	H.No.- 3-5-233, 1st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrasta, Nizamabad, Telangana - 503001
2150.	Telangana Prajula Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana- 500017
2151.	Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi	H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District – Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.
2152.	Telangana Republican Party	H.No. 2-134, Tanedarpally Village, Marriguda Mandal, Nalgonda District, Telangana State- 508245
2153.	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. – 500 086 Andhra Pradesh
2154.	Telangana Studentz United for Nation Party	H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.
2155.	Telangana Yuva Shakti	Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013
2156.	Telangana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali , R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040
2157.	Telugu Bahujana Party	8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh – 524101.
2158.	Telugu Congress Party	8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh – 505302.
2159.	Telugu Rashtra Shakti Party	302, GVR, Residency, Beside GVR Towers, Gannavaram, District- Krishina, Andhra Pradesh- 521101
2160.	Thalli Telangana Party	Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033, Andhra Pradesh.
2161.	Thamizhaga Munnetra Congress	No. 91, Ponnusamy Nagar, 3rd Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.
2162.	Thamizhar Munnetrak Kazhagam	2/5, Thiruvalluvar Salai, Perumal Nagar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu- 600037.
2163.	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.
2164.	The Future India Party	No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.
2165.	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
2166.	The Imperial Party of India	190, Shrinagar Main, Indore – 452001, Madhya Pradesh.
2167.	The Indian Aspirations party	Office Unit No.- 205, Peninsula Plaza, A/16, Veer Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra- 400053.
2168.	The Lok Party of India	Room No. 7, Building No. 61, 1st Floor, 2nd Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai – 400 008. Maharashtra .

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2169.	The National Road Map Party of India	B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.
2170.	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.
2171.	The Religion of Man Revolving Political Party of India	Kabirtirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
2172.	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85, Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
2173.	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street, Nemilichery, Chrompet, Chennai-600044 Tamil Nadu.
2174.	Thrinamool Tamil Nadu Congress	189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District – Salem - 636004, Tamil Nadu.
2175.	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026 Karnataka.
2176.	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.
2177.	Tola Party	H. No. – 56, Ward No. – 14, Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.
2178.	Total Vikas Party	C-95 A-1, 2nd Floor, Ardee City, Sector – 52, Gurgaon, Haryana – 122011.
2179.	Trikalinga Congress	Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jajpur, Pin- 754024, Odisha.
2180.	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
2181.	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
2182.	Tripura Peoples Party	8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007
2183.	Truth, Equality, Justice Applying Service Dal	B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post – Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura, Teh. & Dist. – Mathura, Uttar Pradesh- 281004.
2184.	Twenty 20 Party	Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala - 682311
2185.	Ujala Party	E-26, Gali No. 9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.
2186.	Ujjawal Rashtra Party	Village - Ahirawan, Post – Barua, Tshsil – Sandila, District – Hardoi, Uttar Pradesh – 241304
2187.	Ulaga Makkal Katchi	No. 15/24A, Methukummil Junction, Methukummil Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629172.
2188.	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062Tamil Nadu.
2189.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
2190.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2191.	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.
2192.	United Congress Party	201/202, 2nd Floor, Sukumar Corner, 127- J.P.Road, DawoodBaug Lane, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra- 400058.
2193.	United Democratic Front Secular	539/13, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
2194.	United Front (Party)	Abu Fakhruddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
2195.	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
2196.	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa.
2197.	United India Party	No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana – 505215
2198.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
2199.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
2200.	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
2201.	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima – 797 103, Dimapur – 797 112 (Nagaland).
2202.	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.
2203.	United National Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104
2204.	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
2205.	United People's Party, Liberal	J.D. Road, Ward No.4, P.O. – Kokrajhar, District – Kokrajhar, BTAD, Assam – 783370
2206.	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhu Avenue, Imphal, Manipur-795001.
2207.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
2208.	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
2209.	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-400024, Maharashtra.
2210.	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
2211.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
2212.	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
2213.	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2214.	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.
2215.	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.
2216.	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
2217.	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase – II, Bhubaneswar – 751 031 Orissa.
2218.	Utkrisht Party	1st Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village-NarotMehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.
2219.	Uttama Prajaakeeya Party	7/A, 1st Cross, 3rd Stage, 3rd Phase, 6th Block BSK, BSK 3rd Stage, Kathiriguppe, Bengaluru, Karnataka - 560085.
2220.	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
2221.	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2222.	Uttarakhand Janshakti Party	Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasar Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.
2223.	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand).
2224.	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
2225.	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain, Distt. – Chamoli, Uttarakhand.
2226.	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road, Opposite back gate of St. Joseph School, Dehradun-248001, Uttarakhand.
2227.	Uttarakhand Raksha Morcha	H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikaskhand Raipur, District – Dehradun, Uttarakhand.
2228.	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
2229.	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
2230.	Uttarkhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
2231.	Vaicharik Kranti Party	F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2232.	Valamaana Tamizhagam Katchi	H-982, 23rd Street, 13th Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu- 600040.
2233.	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellode, Erode District, Tamil Nadu - 638112.
2234.	Vanchit Samaj Party	Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003
2235.	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2236.	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebdad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
2237.	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District – Rohtas, Bihar – 821111
2238.	Venukabadinavargala Mahila Raithu Party	Door No.- 3-110A, Chakrayapalem Village, Kollipara Mandalam, Guntur District, Andhra Pradesh.
2239.	Vichara Jagruthi Congress Paksha	Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.
2240.	Vidarbh Maza Party	237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.
2241.	Vidarbha Rajya Aghadi	Block No. 4, Daftari Complex, Opposite Dadaji Dhuniwale Math, Nagpur Road, Grampanchayat Nalwadi, District- Wardha, Maharashtra
2242.	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
2243.	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
2244.	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2245.	Vidhyardhula Mahilala Raithula Mahasena Party	Dr.No. 74-6/1-1A, VSR Road, Ayyappanagar, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh.
2246.	Vidhyarthula Rajakiya Party	H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroornagar (M), Rangareddy, Andhra Pradesh- 501505
2247.	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021
2248.	Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party	#10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District – Sivagangai, Tamil Nadu 630610.
2249.	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai – 17, Tamil Nadu.
2250.	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.
2251.	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2nd Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
2252.	Vikas India Party	T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053
2253.	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601
2254.	Vikas Manch	Bhura Chowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803
2255.	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.
2256.	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2257.	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase-03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S.-Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2258.	Vikassheel Samaj Party	305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
2259.	Vishal Party of India	Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.
2260.	Vishva Shakti Party	B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi -110084.
2261.	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court , Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2262.	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
2263.	Vishwa Jana Party	Door No. 4-122, Padmavati Nagar, Thogatavari Street, Podalakur, District- SPSR Nellore, Andhra Pradesh
2264.	Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad	Village & Post – Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.
2265.	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi – 110 095.
2266.	Vivasayi Anbhu Katchi	No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
2267.	Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi	403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty- Post, Attur -Taluk, Salem- District, Tamil Nadu- 636102
2268.	Voters Independent Party	No. 903, 1st Floor, 6th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095
2269.	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068
2270.	Voters Party International	H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi-110084.
2271.	Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha	H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.
2272.	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka-Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
2273.	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
2274.	Watan Janta Party	3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh
2275.	Wazib Adhikar Party	Village & Post – Pohaddi Bela, Block – Ghanshyampur, District – Darbhanga, Bihar – 847427.
2276.	Welfare Party of India	E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025
2277.	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.
2278.	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014, (West Bengal).
2279.	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No7-1-500, NGO Colony, YSR Street, Siddavatam Road, Badvel-516227, YSR District, Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
2280.	Young India Party	Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S- Kadamkuan, District - Patna, Bihar - 800004
2281.	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.
2282.	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600 107.
2283.	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.
2284.	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No.44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.
2285.	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.
2286.	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, BangaloreNorth Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2287.	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana – Katghar, Tehsil & District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
2288.	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
2289.	Yuva Anubhav Party	House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2290.	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19 Gandhinagar-382 019Gujarat.
2291.	Yuva Jan Jagriti Party	315, Freeway Trade Centre, Opp. I.O.C Petrol Pump, Narol – Aslali Highway, Ahemdabad, Gujarat- 382427
2292.	Yuva Jankranti Party	Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2nd , Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2293.	Yuva Janta Party	Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District – Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.
2294.	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.
2295.	Yuva Krantikari Party	Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101
2296.	Yuva Party	1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2297.	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
2298.	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society, Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road, Puna-Simada, Surat-394211GUJARAT.
2299.	Yuva Shakti Sanghathana	Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District – Chandrapur, Maharashtra
2300.	Yuva Telangana Party	Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068, Telangana
2301.	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.

TABLE-IV
(LIST OF FREE SYMBOLS)

1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Apple
4.	Auto- Rickshaw <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)</i>
5.	Baby Walker
6.	Balloon
7.	Bangles
8.	Basket containing Fruits <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
9.	Bat
10.	Batsman
11.	Battery Torch
12.	Bead Necklace
13.	Belt
14.	Bench
15.	Bicycle Pump
16.	Binoculars
17.	Biscuit
18.	Black Board
19.	Boat with Man and Sail
20.	Bottle
21.	Box
22.	Bread
23.	Bread Toaster
24.	Bricks
25.	Brief Case
26.	Brush
27.	Bucket
28.	Cake
29.	Calculator
30.	Camera
31.	Can
32.	Capsicum
33.	Carpet
34.	Carrom Board

35.	Cauliflower
36.	CCTV Camera
37.	Chain
38.	Chakki
39.	Chapati Roller
40.	Chappals
41.	Chess Board
42.	Chimney
43.	Clip
44.	Coat
45.	Coconut Farm
46.	Colour Tray & Brush
47.	Computer
48.	Computer Mouse
49.	Cot <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
50.	Crane
51.	Cube
52.	Cup & Saucer
53.	Cutting Pliers
54.	Diamond
55.	Diesel Pump
56.	Dish Antenna
57.	Dolli
58.	Door Bell
59.	Door Handle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand)</i>
60.	Drill Machine
61.	Dumbbells
62.	Ear Rings <i>(In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka)</i>
63.	Electric Pole
64.	Envelope
65.	Extension Board
66.	Flute
67.	Football <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)"</i>

68.	Football Player
69.	Fountain
70.	Frock
71.	Frying Pan
72.	Funnel
73.	Ganna Kisan
74.	Gas Cylinder
75.	Gas Stove
76.	Gift Pack
77.	Ginger
78.	Glass Tumbler
79.	Gramophone
80.	Grapes
81.	Green Chilli
82.	Hand Cart
83.	Harmonium
84.	Hat <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)</i>
85.	Head Phone
86.	Helicopter
87.	Helmet
88.	Hockey and Ball
89.	Hour Glass
90.	Ice Cream <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
91.	Immersion Rod
92.	Iron <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)</i>
93.	Jackfruit
94.	Kettle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)</i>
95.	Key <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)”</i>
96.	Kitchen Sink
97.	Lady Finger
98.	Lady Purse <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur,</i>

	<i>Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)</i> ”
99.	Laptop
100.	Latch
101.	Letter Box
102.	Lighter
103.	Ludo
104.	Lunch Box
105.	Man Blowing Turha
106.	Matchbox
107.	Mike
108.	Mixee
109.	Nail Cutter
110.	Neck Tie
111.	Noodles Bowl
112.	Pan
113.	Pants
114.	Peanuts
115.	Pears (Except in Tamil Nadu and Pudducherry)
116.	Peas
117.	Pen Drive
118.	Pen Nib with Seven Rays
119.	Pen Stand
120.	Pencil Box
121.	Pencil Sharpener
122.	Pendulum
123.	Pestle and Mortar
124.	Petrol Pump
125.	Phone Charger
126.	Pillow
127.	Pineapple
128.	Plastering Trowel
129.	Plate Containing Food
130.	Plate Stand
131.	Pot
132.	Pressure Cooker
133.	Punching Machine
134.	Razor

135.	Refrigerator
136.	Ring
137.	Road Roller
138.	Robot
139.	Room Cooler
140.	Room Heater
141.	Rubber Stamp
142.	Safety Pin
143.	Saw <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
144.	School Bag
145.	Scissors
146.	Sewing Machine
147.	Ship
148.	Shoe
149.	Shutter
150.	Sitar
151.	Skiping Rope
152.	Slate
153.	Soap Dish
154.	Socks
155.	Sofa
156.	Spanner <i>(In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)</i>
157.	Stapler
158.	Stethoscope
159.	Stool
160.	Stumps
161.	Swing
162.	Switchboard
163.	Syringe
164.	T.V. Remote
165.	Table
166.	Tea Filter
167.	Telephone
168.	Television
169.	Tennis Racket & Ball
170.	Tent

171.	Throwing a Javelin
172.	Tiller
173.	Toffees
174.	Tongs (<i>In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand</i>)
175.	Tooth Brush
176.	Tooth Paste
177.	Tractor Chalata Kisan
178.	Tray
179.	Triangle
180.	Truck (<i>In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana</i>)
181.	Trumpet
182.	Tube light
183.	Typewriter
184.	Tyres
185.	Vacuum Cleaner
186.	Violin
187.	Walking Stick
188.	Wall Hook
189.	Wallet
190.	Walnut
191.	Water Melon
192.	Water Tank
193.	Well
194.	Wheel Barrow
195.	Whistle
196.	Window
197.	Winnower
198.	Wool and Needle

By order,

N. T. BHUTIA,
Secretary
Election Commission of India.